

त्रीः ।

# अथ वालतंत्रस्थविषयानुक्रमणिका ।


॥२२-२३॥

विषयः	पृष्ठाकाः	रितयः	पृष्ठाकाः
अथ पोडशर्वध्याप्रवीकारेकथनम् ।		योनिसकोचनेउपायाः	... ३४
निर्विश्वतायं मगलाचरणम् ... १		दति वालतने वृतीयः पठः ॥ ३ ॥	
खीपुस्तदीयः .... ... १		गर्भधानेहृदस्नानकः	
वध्याप्रकारः .... .... १		खीगमनम् ... ... ३५	
वध्यालक्षणम् .... .... २		वाजीरणीपधस्यापद्यकता ... ३६	
वध्यालतनाशकोपायः .... ३		गर्भधारणार्थमौपविदानमः ... ३७	
धातपित्तादिरजःशुद्धयर्थमुपाय-		गर्भधारणीपथेरानयनपितिः ... ३७	
कथनम् .... .... २		औपविदानेकालः .... .... ३९	
प्रहृदेवतादिदोपनाशकः पूजा-		स्नानेकालोविविश्व	.... ४०
प्रकारः .... .... ७		इति वालतने चतुर्थः पठः ॥ ४ ॥	
पध्यानामष्टौप्रकाराः .... ७		अथ गर्भरक्षाकथनम् ।	
पिपक्ष्यादिवध्याना लक्षण तत्त्वाश-		प्रथममासेगर्भणीगर्भरक्षा	... ४६
कोपायथ्थ .... ८		द्वितीयमासेगर्भरक्षा	... ४६
इति वालतने प्रथमः पठः ॥ १ ॥		तृतीयमासेगर्भरक्षा	... ४९
अथ साधारणवंध्यौपविकथनम् ।		चतुर्थमासेगर्भरक्षा	... ९१
पञ्चाश्चिणापुत्रकारकाः अनेको-		पचमेमासिगर्भरक्षा	... ९२
पायाः .... .... १२		षष्ठमासिगर्भरक्षा	... ९९
इति वालतने द्वितीयः पठः ॥ २ ॥		सप्तमेमासिगर्भरक्षा	... ९६
अथ पुष्पवीर्यवृद्धिकथनम् ॥		अष्टमेमासिगर्भरक्षा	... ९८
पुष्पस्थधातुद्धयर्थमुपायाः .... २१		नवमेमासिगर्भरक्षा	... ९९
शतावरीतिलम् ... २४		दशमेमासिगर्भरक्षा	... ११
पुष्पस्थधातुद्धयर्थमुपायाः .... २८		एकादशेमासिगर्भरक्षा	... १३
नपुसकल्पनाशकोपायाः .... ३७		द्वादशेमासिगर्भरक्षा	... १४
नातुवेगाधारणावल्पिगत्पाः ... ३३		इति वालतने पथमः पठः ॥ ५ ॥	

॥ श्रीः ॥

आथ वाल्तंत्रम् ।

भाषाटीकासमेतम् ।



विन्द्रवत्तिविधंसकारिणं दुःखद्वारिणम् ॥ कल्या-  
णोऽहं नमस्कुवे विन्द्रेशं ग्रंथसिद्धये ॥ १ ॥ प्रयोग-  
सारप्रमुखागमेषु प्रोक्तेषु शास्त्रेषु च सुश्रुताद्यैः ॥  
यदुक्तमेकत्र नियुक्तमस्मिन् ग्रंथे मया तत्खलु वाल-  
तंत्रे ॥ २ ॥ अष्टौ दोपास्तु नारीणां नवमः पुरुषस्यच ॥  
दक्षात्पित्तात्थावाताच्छ्वेष्मणः संनिपातकात् ॥ ३ ॥  
ग्रहदोपविकारेण देवतानां प्रकोपनात् ॥ अभिचार-  
कृताच्चैव रेतोहीनः पुमांस्तथा ॥ ४ ॥ काकवंध्या  
मृतवत्सागर्भसाव्यस्तु याः स्त्रियः ॥ आदिवंध्याश  
गीयंते दोपैरेभिन्नचान्यथा ॥ ५ ॥

दोहा—इट देवके चरणको, नुतके बारंबार ॥

वालतंत्र भाषा कर्ह, संस्कृतके अनुसार ॥ १ ॥

जिले गोहतक, वेरीपुरी, है गो हमगे ग्राम ॥

पंडितनंदकुमारजी, वैय हमारो नाम ॥ २ ॥

वार्तिक भाषा—विन्द्रोंके विस्तारोंके नाश करनेवाले दुखोंके  
हरनेवाले एतादृश विन्द्रोंके ईश गणेशजी महाराजको ग्रंथकी

पिषयाः	पृष्ठांकाः	पिषयाः	पृष्ठांकाः
जर्ज्वल्पूतनावालकांताप्रहीलक्षणम् १२९		कासश्वासचिकित्सा ....	१६५
खेतीमहारेखेतीलक्षणमाह ... १२७		फ्रिमिरोगचिकित्सा ....	१६६
पुष्टरेपतीशुष्करेवतीलक्षणमाह १२९		पाणुरोगक्षयरोगचिकित्सा ....	"
शकुनीशिशुमुद्रिकाप्रहीलक्षणम् १३१		स्वस्मेदारोचकमूर्छाचिकित्सा १६८	
सामान्यतोप्रहाविष्टवालस्यचेष्टोद्धर्तेनलानधूपमत्राः .... १३३		दाहोन्मादापस्मारचिकित्सा १७०	
इति वालतने प्रकादद्यः पठलः ॥ ११ ॥		वातव्याधिचिकित्सा ....	१७२
अथ ज्वरहरणोपायकथनम् ।		रक्तपित्तरोगः ....	"
स्तन्यर्घनम् .... .... १३७		वातगुल्महस्ताह्यपष्टकम् ....	"
धात्रीलक्षणम् .... .... १३८		इद्रोगचिकित्सा .... ....	"
दुरवशुद्धिकरणोपायः .... .... १४०		मूरकुच्छरोगः .... .... .... १७४	
वालस्यनाभिगुदमुखपाकचिकित्सा .... .... १४२		गडमालारोगः मसूरिकारोगध १७६	
शिशूनाभरचिकित्सा .... .... १४४		शीतलास्तोत्रम् ... .... .... १७७	
इति वालतने द्वादशः पठलः ॥ १२ ॥		इति वालतने प्रयोदशः पठलः ॥ १३ ॥	
अय साधारणरोगचिकित्सा-कथनम् ।		अथ नानाप्रयोगकथनम् ।	
वालानामतिसारोपायाः .... १९७		नेत्रनासाकर्णरोगचिकित्सा १७९	
अजीर्णप्रिपूचिकोपायाः .... १६१		गिरोरोगमुखरोगचिकित्सा १८२	
मम्मकचिकित्सा .... .... १६२		बृक्षिरविषोपायाः .... .... .... १८३	
हिक्कारोगचिकित्सां ... १६३		सायनभेषजम् .... .... .... १८५	
		इति वालतने चतुर्दशः पठलः ॥ १४ ॥	
		अश्विन्यादिसप्तविंशतिनक्षयेषुद्वयस्यरोगस्यशांतिकथनम् ।	

इति वालतंत्रस्थविषयानुक्रमणिका समाप्ता ॥



कारं कृष्णं स्ववति शोणितम् ॥७ ॥ कटिशुलं नवे-  
त्तस्या उदरं परिदद्यते ॥ प्रदरं च करोत्युप्णमेतत्पि-  
त्तस्य लक्षणम् ॥८॥ प्रत्यौपधं प्रवक्ष्यामि येन गर्भो-  
भिजागते ॥ उत्पलं तगरं कुष्ठं यष्टीमधुकचंदनम् ॥  
एतानि समभागानि छागीक्षीरेण पेपयेत् ॥९॥ पिवे-  
ब्राह्मी चिरात्रं वा यावत्स्ववति शोणितम् ॥ ततो योन्यां  
विशुद्धायामिमां दद्यान्महौपधिम् ॥ १० ॥ लक्ष्मणां  
क्षारसंयुक्तां नस्ये पाने प्रदापयेत् ॥ तेन ना लभते  
युत्रं रूपवंतं महाकविम् ॥ ११ ॥

भाषा—जिस स्त्रीके फूल आवे फल नहीं लगे अर्थात् कतु-  
मती होवे गर्भायान नहीं हो उसका आर्तव दूषित होता है. प्रथम  
उसके विकारोंको देखके पश्चात् चिकित्सा करना चाहिये ॥  
॥ ६ ॥ जिस स्त्रीका फूल पित्तसे दूषित है उसका आर्तव वैद्यने  
देखना चाहिये. जैसा पका हुवा जामुनका फल होता है ऐसा काला  
रुधिर कतुकालमें योनिद्वारा स्वै ॥ ७ ॥ और कटिमें शुल हो  
पेटमें जलनहीं हाथ पैर गरम रहें रुधिर गर्म गिरे इवने लक्षण  
पित्तदूषित आर्तवके हैं ॥८ ॥ अब इसकी औषध कहते हैं,  
जिससे यह विकार शांत हो. और गर्भस्थित हो—कमलगटा, तगर,  
कूट, मुलहटी, सफेदचंदन ये द्रव्य सब समान लेके कूटकर  
बकरीके दूधमें पीसके कपड़ासे छानके तीन दिन कतुकालमें  
स्त्री पान करे या जितने दिन आर्तव जारी रहे उतने दिन पर्यंत  
पान करे. इससे योनि शुद्ध होजानेसे पीछे इस महौपधी

आदिमें कल्याण नामक मैं वैय नमस्कार करता हूँ किसवास्ते  
ग्रंथकी सिद्धिके वास्ते अर्थात् निर्विन्नतासे समाप्तिके वास्ते ॥  
॥ १ ॥ सुश्रुतादिक मुनियोंके कहे हुए प्रयोगसारसे आदि लेके  
बहुत चंतु हैं उन्होंमें जो सार सुश्रुतादिकाँने कहा है सोई सार इस  
वालतंत्रग्रंथमें हम नियोजना करते हैं ॥ २ ॥ खियोंके आठ  
दोषहोते हैं और नवमा दोष पुरुषका होता है, रक्तसे १ पित्तसे २  
वातसे ३ कफसे ४ संनिपातसे ५ ग्रहके दोषसे ६ देवता-  
ओंके कोषसे ७ अभिचारसे अर्थात् गुरु वृद्ध देवताओंके  
शापसे ८ ऐसे आठ प्रकारके खियोंके विकार होते हैं और पुरु-  
षका वीर्यहीनताका एक दोष होता है ऐसे नव विकारोंसे  
संतानका अवरोध होता है ॥ ३ ॥ ४ ॥ अब खियोंके वंध्याप-  
नके तीन भेद और कहते हैं, प्रथम काकवंध्या १ जिस स्थीके एक  
सन्तान होकर फिर नहीं हो, उसको काकवंध्या कहते हैं, दूसरी  
मृतवत्सा जिसके संतान हो होके मर जावें उसको मृतवत्सा  
कहते हैं, तीसरी गर्भस्त्रावी जिस स्थीके गर्भ ; स्थित हो हो कर  
खवजावे गर्भ पूरा न होय उसको गर्भस्त्रावी कहते हैं, ऐसी तीन  
प्रकारकी वंध्या आठ प्रकारकी वंध्याओंसे न्यारी हैं, और एक  
आदिवंध्या जिसके गर्भमात्रभी स्थित नहो, ये सब वंध्या  
अपने उद्दरके दोषसे होती हैं और कारणसे नहीं होती हैं ॥ ५ ॥

पुण्यंतु जायते यस्याः फलं चापि न विद्यते ॥ तस्या  
दोषविकरांश्च ज्ञात्वा कर्म समारभेत् ॥ ६ ॥ यस्याः  
पित्तहतं पुष्पं प्राज्ञस्तदुपलक्षयेत् ॥ पक्षजंवुफला-

और कटिमें शूल रहै, अर्थाद् दर्द रहै, और योनिमें शूल रहै ज्वर रहै इतने लक्षण वायुपीडित करु आनेके हैं ॥ १३ ॥ अब उसकी चिकित्सा लिखते हैं । आंबकी जड़की छाल दोनों कटेलियोंकी जड़ जामुनके जड़की छाल, यह सम मात्रा लेकर गौके दूधमांह पीसकर वह स्त्री पीवै ॥ १४ ॥ पांचदिन तथा सात दिन यावत् रक्त स्वै तावत् पीवै पीछे योनि शुद्धहो- नेसे लक्षणा जड़ी दूधके साथ पीवे और सूंवे यह उपाय ॥ १५ ॥ करनेसे वह स्त्री खपवान् गुणवान् पुत्रको प्राप्तहो और जिस स्त्रीके कफ विकारसे पीडित फूल आवे उसकेभी कल नहीं लगता है ॥ १६ ॥ अब उसके लक्षण कहते हैं, रक्त चिकणा और घणा पड़े और बहुत लाल नहीं अर्थाद् प्याजी रक्त पड़े और नाभिके विषय शूल दारूण रहै इतने लक्षण कफपीडित करु आनेमें होते हैं ॥ १७ ॥ अब उसकी चिकित्सा लिखते हैं, आककी जड, मेहदी, लोंग, नागकेसर, खरेटीकी जड, गंगेरनकी छाल यह सब औपधी सममात्रा लेके बकरीके दूधमें घोटके वह स्त्री पीवे ॥ १८ ॥ अथवा हरड़, बहेड़ा, आँवला, सुंठ, यिरच, चीता, यह सब औपधी सममात्रा लेके बकरीके दूधमें पीसके घोल छानके पीवे ॥ १९ ॥ तीन दिन तथा पांचदिन जितने खून स्वै उतने दिन पीवे, फेर योनि शुद्ध होनेसे लक्षणा जड़ी, बकरीके दूधमें घोटके पीवे और सूंवे उस स्त्रीके गर्भहो खपवान् गुणवान् पुत्रहो ॥ २० ॥

संनिपातहतं पुष्पं ज्वरस्तीवश्च जायते ॥ शोणितं

को दे ॥ ९ ॥ १० ॥ लक्ष्मणा जटीको गौके दूधमें पीसके छानके सूंधे और पीवे दिन १२ पर्यंत ऐसे करनेसे स्त्री लपवाला और गुणवाला पुत्रको उदय करै ॥ ११ ॥

यस्यावातहतं पुष्पं फलं तस्यानविद्यते ॥ अतिसूक्ष्म-  
तरं रक्तं कुसुंभोदकसन्निभम् ॥ १२ ॥ कटिशूलं  
भवेत्स्यायो निश्चलं तथा ज्वरम् ॥ १३ ॥ सहकार-  
स्य मूलं च मूलं च्यान्नीभवं तथा ॥ वृहतीजं बुमूलेच  
क्षीरेणालोडच सापिवेत् ॥ १४ ॥ सप्ताहं पंचरात्रं वायाव-  
त्सवति शोणितम् ॥ ततो योन्यां विशुद्धायां लक्ष्मणां  
क्षीरसंयुताम् ॥ १५ ॥ नस्ये पाने च दातव्यं तेन सालभते  
सुतम् ॥ यस्याः श्लेष्महतं पुष्पं तस्या नापि भवे-  
त्फलम् ॥ १६ ॥ बहुलं पिच्छिलं रक्तं नातिरक्तं  
बहेत्तदा ॥ नाभिमंडलमूलेतुशूलं भवति दारुणम् ॥  
॥ १७ ॥ अर्कमूलं प्रियं गुंचकुसुमं नागके सरम् ॥  
बलां चानिवलां चैव छागीक्षीरेण पेपयेत् ॥ १८ ॥  
त्रिफला त्रिकटुं चैव चित्रकं समभागिकम् ॥ अजाक्षी-  
रेण संपिण्डाचालोडच युवती पिवेत् ॥ १९ ॥ त्रिरात्रं  
पंचरात्रं वायावत्सवति शोणितम् ॥ ततो योन्यां विशु-  
द्धायां लक्ष्मणां न सिदापयेत् ॥ २० ॥

भापा—जिस द्वीके वायुपीडित पूल आवे उसके फल नहीं  
उगे अर्थात् गर्भ धारण नहीं करे अब उसके लक्षण कहवे हैं  
तून बहुत सूक्ष्म रक्त कुसुंभके रंग सदृश आवे ॥ १२ ॥

कौड़ी, सफेद फूलकी विष्णुक्रांता ॥ २५ ॥ यह सब समान औषधी लेके गौके दूधमें घोट छानकर नासिका करके वैय प्यावै दाहिनीनासिका करके पीवे तो पुत्र होवे और बामीतरफकी नासिकासे पीवे तो पुत्री होय इसमे कुछ संदेह नहीं ॥ २६ ॥

पूर्वोक्तदोपहीनायाग्रहदोपोनसंशयः ॥ जन्मपत्रींस-  
मालोक्यग्रहपूजांसमाचरेत् ॥ २७ ॥ व्रतंतयाप्र-  
कर्तव्यंमध्यमस्यग्रहस्यच ॥ विकारेणयदावंध्या  
स्फुटंचिह्नंतदाभवेत् ॥ रोगनाशोभवेद्भर्त्तात्रकार्या  
विचारणा ॥ २८ ॥ देवताकोपवंध्यायास्तस्याश्चि-  
ह्नंवदाम्यहम् ॥ अष्टम्यांचचतुर्दश्यामावेशोवेदना  
तथा ॥ २९ ॥ गोत्रदेवींसमाराध्यदुर्गामंत्रतोजपे-  
त् ॥ गणनाथंसमभ्यच्युपुत्रंसालभतेद्विवम् ॥ ३० ॥  
कृत्याकृतंयदादोषंशरीरवेदनाभवेत् ॥ दुर्गामंत्रंज-  
पेन्नारीततोगभर्त्ताभवेद्विवम् ॥ ३१ ॥ अन्यद्वंध्याष्टकं  
वक्ष्येसर्वतंत्रेषुगोपितम् ॥ त्रिपक्षीशुभ्रतीसज्जात्रिमु-  
खीव्यात्रिणीबकी ॥ ३२ ॥ कमलौव्यक्तिनीचैवता-  
सांचिह्नंवदाम्यहम् ॥ त्रिपक्षीनामयावंध्यात्रिपक्षेषु-  
पिताभवेत् ॥ ३३ ॥

भाषा—पूर्व कहे हुए दोप रक्त, वायु, पित्त, कफ, सत्रिपात  
इन दोषोंके लक्षणों करके रहित जी हो और गर्भधारण न करे  
उसके ग्रहदोष होता है इसमें कुछ सन्देह नहीं। तब उसकी या  
उसके पतिकी जन्मपत्रिकादेसकर अवरोधकंग्रहका जप, पूजन,

तुभवेत्कृष्णं चात्युप्णं पिच्छिलं वहु ॥ २१ ॥ कुक्षिदेशे  
 तथायोन्यां कटचांशूलं च जायते ॥ गात्रभङ्गो भवेत्तस्या  
 वहु निद्राच जायते ॥ २२ ॥ गंधर्वहस्तमूलं च सह-  
 कारं त्रिवृत्तकम् ॥ उत्पलं तगरं कुष्टयै मधुकचंद-  
 नम् ॥ २३ ॥ अजाक्षीरेण पिघं तु सप्तरात्रं तः पिवेत् ॥  
 रजो हात्पंचरात्रञ्च यावत्सवति शोणितम् ॥ २४ ॥  
 ततोयोन्यां विशुद्धायां श्वेतार्कं कुद्रिणीं तथा ॥ लक्ष्म  
 णीं पंध्यक कोटीं श्वेतांच गिरिकर्णिकाम् ॥ २५ ॥ गवां  
 शीरेण संपिष्ठ्यन सिपानं प्रदापयेत् ॥ दक्षिणेलं भते पुत्रं  
 वामेपुत्रीं न संशयः ॥ २६ ॥

भाषा-जिस द्वीके सन्निपातदोपसे दूषित करु आवे उसके ल-  
 क्षण कहते हैं, वह द्वी करुमती हो जब बडा तीव्र ज्वर होय रक्त  
 काला आवे और बहुत गर्म और चिकना आवे ॥ २१ ॥ और  
 कूखमें योनिमें काटिमें शूल हो अर्थात् पीड़ा हो और हड्डों रहै  
 नोंद जादा आवे यह लक्षण त्रिदोष विकार करके करु आनेमें  
 होते हैं ॥ २२ ॥ अब उसका जतन कहते हैं, अरंड की छाल  
 आमकी छाल, निसोत, कमलगद्वा, तगर, कृठ, मूलहरी सफेद  
 चंदन ॥ २३ ॥ यह सब समान औपधी लेकर, बकरीके  
 दूधमें पीसके ७ सातदिन पीवे अथवा जिस रोज करुमती हो,  
 उस रोजसे ५ पाँच रोजवक पीवे अबल यह मरहै जहां चक-  
 खन गिरे तहां तक पीवे ॥ २४ ॥ फिर योनि शुद्ध होनेपर,  
 सफेद आमकी जड़, छोटी सटाईकी जड़, लक्ष्मणा जड़ी, वांशक-

द्वेजीरकेशेतवचाकर्णोट्याश्चफलं समम् ॥ तण्डुलो-  
दकसंपिष्टं चोत्थितासूर्यसन्मुखी ॥ ३४ ॥ त्रिदिनं च  
पिवेन्नारीदुधभक्तं च भोजनम् ॥ तेन गर्भो भवेन्नार्याः  
सत्यमेतत्र संशयः ॥ ३५ ॥ शुभ्रती नामयावंध्याच्चि-  
हंतस्यावदाम्यहम् ॥ गात्रसंकुंचनं नित्यं देहे चैव वि-  
वर्णता ॥ ३६ ॥ गर्भस्तस्यानजायेत सज्जावंध्याच्च  
कथ्यते ॥ अप्रमाणे श्रद्धिवैसैस्तस्याः पुष्पं प्रजायते ॥ ३७ ॥

भाषा—अब त्रिपक्षीकी चिकित्सा लिखते हैं स्याहजीरा, तसे  
दजीरा, सुरासानीवच, ककौड़ीका फल यह औपधी सर्व स्नान  
लेके चावलोंके पानीसे पीसके प्रभात समय स्नान कर सूर्यके  
सामने खड़ी होके दिन ३ ताँई पीवे और दूध चावल भोजन  
करे तो उस छाके अवश्य गर्भ रहे यह सत्य वार्ता है इसमें कुछ  
सन्देह नहीं ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ अब शुभ्रती नामक वंध्याके  
लक्षण कहते हैं, गात्र स्कुचारहै और देहका रूप रंग विवर्ण हो-  
जावे ॥ ३६ ॥ शुभ्रती नामक वंध्याके गर्भ स्थित नहीं हो-  
वेहै इस घन्थकी यह आम्राय है और तंत्रोंमें शुभ्रती वंध्याका  
इलाज लिखा है सो यहां भी लिखते हैं नागकेशर टंक ३ हाऊवेर  
टंक ३ मोरशिखा टंक ३ मिसरी टंक १८ यह औपधी पीस  
कपड़ानकर पुड़ीटंक श्तीनकी बनावे प्रातःकाल स्नानकर सूर्य  
सन्मुख खड़ी होय एक वर्णी गायके दूधसे पुढ़िया लेवे चावल  
दूधका भोजन करे और वस्तुका त्यागकरे शुभ्रती वंध्याके संता  
न हो ॥ अब सज्जानामक वंध्याके लक्षण कहते हैं सज्जा वं-

दान, हवन करावे तब सन्तान होवे॥ और जो मध्यम ग्रहही  
उसका ब्रत उस स्त्रीने करना चाहिये ॥ २७ ॥ और जिस वि-  
कार करके वंध्या होती है उस विकारके लक्षण प्रकट होते हैं  
फिर उस विकारकी चिकित्सा करनेसे रोग निवृत्त होनेसे गर्भ-  
स्थित होजाता है इसमें कुछ ज्यादा विचार नहीं है ॥ २८ ॥  
और जो स्त्री देवताके कोपसे बैंझ हुई हो तिसके लक्षण कहते हैं  
अष्टमीमें या चतुर्दशीमें उसके शरीरमें वेदना हो या इन तिथियों  
में क्रतुमती हो पीड़ा हो ॥ २९ ॥ तो उस स्त्रीने गोत्रदेवीका  
आराधन करना चाहिये दुर्गापाठ करना चाहिये और गणेशजीका  
ब्रत संकटाचतुर्थीका ब्रतविधान करे तब वह स्त्री पुत्रको प्राप्त  
हो निश्चय करके इसमें सन्देह नहीं ॥ ३० ॥ और किसी स्त्रीने  
स्त्रीपर कुछ करा दिया हो उसका जलन यह है ६ छः मास पर्यंत  
दुर्गा पाठ करावे और देवीके प्रक्षालनके जलसे माथा नाभी  
कुच धोवे तो दोष मिटे और गुरुदेवके शापसे संतान नहीं हो  
तो गुरुदेवकी पूजा भक्तिकर आशीर्वाद लेना और मनोवाञ्छित  
भोजन वस्त्र दान दीजे तो सन्तान होय और जीवे इतने लक्षण  
उपाय आठ प्रकारकी वंध्याके कहते हैं ॥ ३१ ॥ अब औरभी  
आठ प्रकारकी वंध्या कहते हैं जो सर्वतन्त्रोंमें गुप्त हैं अब उनके  
नामभेद लक्षण जलन जुदे २ कहते हैं त्रिपक्षी १ शुभ्रती २  
सज्जा ३ त्रिमुखी ४ व्याघ्रिणी ५ बक्की ६ कमली ७ व्यक्तिनी ८  
यहआठ प्रकारकी वंध्या हैं अवश्यकोंके न्यारे न्यारे लक्षण कहते हैं  
जो स्त्री तीन पक्षमें क्रतुमती हो उसको त्रिपक्षी कहते हैं ३२ ॥ ३३

होवाहै ॥ ४० ॥ अब व्याघ्रिणी वंध्याके लक्षण कहते हैं जिस स्त्रीके एक संतान अवस्था चढ़कर हो दूसरी होवे नहीं उसको व्याघ्रिणी वंध्या कहते हैं अब उसकी चिकित्सा यह है कि जो त्रिपक्षी वंध्याकी औपधी कही है सोई पुत्रकी देनेवाली औपधी देनी चाहिये ॥ ४१ ॥ अब वकी नाम वंध्याका लक्षण कहते हैं वकी वंध्याके सफेदखून धातु सदृश आठवें दशमें दिन गिरे उसको वकी वंध्या कहते हैं यह असाध्य होती है इस वंध्याकी औपधी वैय न करे ॥ ४२ ॥

सलिलंस्वतेयोन्याः कमलिन्यानिरंतरम् ॥ असाध्या साचविज्ञेयाओपधंनैवकारयेत् ॥ ४३ ॥ व्यक्तिनी नामवंध्यायाः प्रमेहोभवतिस्फुटम् ॥ रक्तापामार्ग-जंबीजंशकरामर्दकीफलम् ॥ ४४ ॥ औपधीर-त्नमालांचगोदुग्धेनप्रपेपयेत् ॥ त्रिसत्तदिवसंपीत्वा प्रमेहंनाशयेद्धुवम् ॥ ४५ ॥ कृप्पांगुरुंकेसरञ्च ककोंटीसरलांतथा ॥ द्वेजीरकेसवत्सागोक्षीरणा-लोडचसापिवेत् ॥ ४६ ॥ दिनत्रयंदुग्धपष्टिभो-जनंगर्भधारकम् ॥ लक्षणानिपरिज्ञायद्योपधींका-र्येत्सुधीः ॥ ४७ ॥

इति श्रीकल्याणवैयकृतेवालंत्रि पोडशवंध्याप्रती-कारो नाम प्रथमः पटलः ॥ १ ॥

भापा—अब कमलिनी वंध्याके लक्षण कहते हैं कमलिनी वंध्याकी योनिसे निरंतर पानी झराकरे उस स्त्रीका वंध्यात्व

ध्याके करु अप्रमाणित दिनोंमें आवे है कभी करु देरमें आवे कभी करु जलदी आवे उस स्त्रीको सज्जा वन्ध्या कहते हैं ॥ ३७ ॥

जीरेव चांस मंगां च गृह्णीया च्छुभवासरे ॥ ककोटींशु-  
खलाकारीं पिष्टातं डुलवारिणा ॥ दिनत्रयं यतानारी  
सूर्यस्य समुखीं पिवेत् ॥ ३८ सदुग्धं पष्टि-  
कान्नं च भक्षयेद्दिनं सप्तकम् ॥ तेन गर्भां भवेत्राय्यास्त्रि-  
मुखीनाम कथ्यते ॥ ३९ ॥ तस्यां श्विहं प्रवक्ष्या-  
मि मैथुने सलिलं स्ववेत् ॥ भोजने मैथुने लौल्यं गर्भस्त-  
स्यानविद्यते ॥ ४० ॥ व्याप्रिष्णा उत्तरे काले ऽपत्य-  
मेकं प्रजायते ॥ श्रिपक्ष्युत्तरं प्रदात ब्यमौ पधं पुत्रदा-  
यकम् ॥ ४१ ॥ वक्यसृक्षवते श्वेतं दशमे ऽप्तमके-  
दिने ॥ असाध्या सातु विज्ञेया औपधं नैव कारयेत् ॥ ४२ ॥

भाषा—अब सज्जा वंध्याकी चिकित्सा कहते हैं स्याह-  
जीरा, सफेद जीरा, खुरासानी वच, मँजीठ, ककोटी, हडजोटी  
यह दवा शुभ दिन सब समान लेके चावलोंके जलमें वारीक  
पीस छानकर प्रातः काल स्नान कर सूर्यके सामने खड़ी हो दिन ३  
तीन तक यतन से नारी पीवे ॥ ३८ ॥ दूध सांठी चावल दिन ७  
भोजन करे इससे सज्जानाम वंध्याके गर्भ रहे संवान होवे अब  
त्रिमुखीनाम वंध्याको कहते हैं ॥ ३९ ॥ त्रिमुखी वंध्याके  
लक्षण कहते हैं मैथुन समयमें भोग करते योनि से जल स्वैरौ और  
भोजन से और मैथुन से तृप्त नहीं, भोजन मैथुनमें चिन्त बहुत  
राखै; यह लक्षण त्रिमुखी वंध्याके हैं उसके गर्भ स्थित नहीं,

णाथदिनत्रयम् ॥ २ ॥ सूर्यस्यसमुखं पीत्वा क्षीरप-  
ष्टि कभोजनात् ॥ गर्भोभवति वंध्या याध्रुवमस्मिन्नसं-  
शयः ॥ ३ ॥ पुष्पेवा शततारायां शंखपुष्पिं समाहरेत् ॥  
पिद्वात् द्रसमादाय क्रुद्धुस्नाता चतुर्तिपदेत् ॥ वंध्या  
गर्भं दधात्या शुनात्र कार्याविचारणा ॥ ४ ॥ श्वेतकु-  
लित्थसंभूतं मूलं नागबलोद्भवम् ॥ अपराजिता मृतुस्ता-  
तां गोदुर्घेन समं पिवेत् ॥ दिनत्रयं तथा सतगर्भोभव-  
तिनान्यथा ॥ ५ ॥ अश्वगंधा भवं मूलं गोधृतेन सम-  
न्वितम् ॥ क्रुद्धुस्नाता पिवेन्नारी त्रिदिनैर्गर्भं धारकम् ॥ ६ ॥  
भाषा-अब पूर्वपटलमें कहीहुई जो वन्ध्या हैं उन्होंके लक्षणों-  
करके रहित वंध्याओंके और प्रतीकार 'कहते हैं. सफेदजीरा,  
स्याहजीरा, खुरासानी वच, बड़की डाढ़ी, पीपलकी डाढ़ी, स्याल-  
के गलेका केश, ककोड़ीकी जड़ और फल, शतावर यह सब  
दवा समान लेके कूट कपड़छानके ६ मासे बच्छावाली गौके  
दूधके साथ दिन ३ तक लेवे ॥ १ ॥ २ ॥ स्नानकर सूर्यके  
सन्मुख ऊभी होय पीवे और दूध चावलका भोजन करे तो  
वन्ध्या स्त्रीके गर्भ स्थित हो इसमें कुछ संदेह नहीं ॥ ३ ॥ पुन-  
रुपायः । पुष्पनक्षत्रमें अथवा शतभिषानक्षत्रमें धोलफूलीको  
पंचांगसमेत लावे, पीसके उसका रस निकालके क्रतुमवी स्त्री  
स्नान करके पीवे तो वह वंध्या शीघ्र गर्भको धारण करे। इस-  
में कुछ संदेह नहीं ॥ ४ ॥ पुनरुपायः १ और तंत्रको लिखते हैं.  
मोरशिंखाजडीको प्रथम दिन संध्याको नोत आवे. अगलेदिन

असाध्य होता है उसकी औपधी वैयकरे नहीं उसके संतानहोनी  
असंभव है ॥ ४३ ॥ अब व्यक्तिनी वंध्याके लक्षण कहते हैं ।  
व्यक्तिनी वंध्याको प्रकटतारे प्रमेह होता है श्वेत धातु नित्य  
गिरतीरहे सिद्धांत वार्ता यह है कि ब्रियोंके प्रमेह होता  
नहीं है और यहाँ प्रमेह लिखा इसका यह तात्पर्य है सोमनामक  
प्रदर होजाता है अब इसका जवन यह है कि लाल चिरचिराके  
बीज, मिसरी, आँवला, रंतनजोत यह औपधी सर्वसमान  
लेके गौके दूधमें पीसके छानके दिन २१ तक पीवे तो व्यक्ति-  
नीका प्रमेह निश्चयकरके दूर होजावे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ फिर  
प्रमेह दूर होनेपर काला अगर, कसेर, ककोड़ा, मोरशिखा,  
स्पाहजीरा, सफेदजीरा यह सबसमान औपधी लेके बच्छावाली  
गौके दूधमें पीस छानकर दिन तीन ३ पीवे ॥ ४६ ॥ तीन  
दिन यह गर्भधारण करनेवाली औपधीका सेवन करे और दूध  
चावलका भोजनकरे, अवश्य गर्भ रहे, संतानहो इस वालतंत्र  
अंथमें सोलह प्रकारकी वंध्या कही हैं तिन्होंके लक्षण देखके  
विचारके वैयवर औपधीकरे तिससे यशको प्राप्तहो ॥ ४७ ॥  
इति श्रीपंडितनन्दकुमारवैद्यकृतवालतंत्रेभापाटीकायां प्रथमःपट्ठः॥१॥

पूर्वोक्तचिह्नहीनानांप्रतीकारंवदाम्यहम् ॥ द्वेजी-  
रकेश्वेतवचावटपिप्पलवंदको ॥ १ ॥ शृगालकंठरो-  
माणिककोटीफलमूलके ॥ सहस्रमूलींसवत्सागोक्षीरे-

भापा—सफेद कटेलीकी जड़ मोरशिखाकी जड़ इन औपधियोंका चूर्णकर गौके दूधके साथ वंध्या स्त्री दिन ३ पीवे तो निश्चय गर्भ रहे और संतानहो ॥ ७ ॥ पुनरुपायः । विजौराके बीजोंको गौके दूधमें पीसे. फिर दूधमें छानके दिन ३ वंध्या स्त्री पीवे. और सांठी चावलका भोजन करे गर्भस्थितहो संतानहो ॥ ८ ॥ पुनरुपायः । मेडासिंगी और दूधीकी जड़ ये औपधी कूट कपड़छानकरके गौके दूधसे दिन ३ वंध्यास्त्री कतुमतीहो उस समय पीवे तो गर्भस्थितहो इसमें कुछ संदेह नहीं ॥ ९ ॥ अब गर्भ धारण करनेवाली बन्तियोंको कहतेहैं. हरड़े बड़ी, बहेड़ा, आंवला, पीपल, मुनक्कादाख, लोद, पुराना गुड, इन औपधियोंको कूट कपड़छान करके फिर जलमें पीसके कपड़ाके दवा लगाके बत्ती ३ अंगूठा समान मोटी आठ अंगुल लंबी बनाकेकतु समयमें योनिमें रखेयोनि शुद्ध हो कोष्ठशुद्ध हो स्त्री गर्भधारण करे संतानहो ॥ १० ॥ अन्यावर्तिः ॥ पीपल, देवदार, लाख, गुगुलु इन दावाइयोंकी बत्ती करके अंगुल ८की योनिमें रखेतो योनि शुद्ध हो, गर्भधारण करे, संतानहो ॥ ११ ॥ अन्या वर्तिः संठनागरमोथा, हलदी, दारुहलदी, सरेटी, हींग, सौंफ, गूगलयह औषधि सब समान लेके बड़ी बारीक पीसके कपड़ापर लगाकरके बत्ती बनायके योनिमें रखेतो योनि शुद्धहो गर्भस्थितहो ॥ १२ ॥

गंधकं शंखचूर्णं च समभात्रां मनः शिलाम् ॥ जलेन सह संपिण्ड्यनिक्षिपेद्योनिमंडले ॥ १३ ॥ वेदनाशोफकं दूधहरत्येवनसंशयः ॥ १४ ॥ चलासितादचातिव

प्रातःकाल ऐसा योगहो पुष्पनक्षत्र आदित्यवार अथवा हस्त नक्षत्र आदित्यवार ऐसे योगके दिन उपाड लावे किर पीसकर एकवर्णी गौके दूधके साथ ऋतुस्नानकर सूर्य सन्मुख खड़ी होके आले केशों आलेकपड़ों यह औपधी लेवे दुग्ध चावलका भोजनकरे वंध्याके गर्भ रहे संतान हो । पुनरुपायः । सफेद कुलथी गंगेरणकी जड़की छाल, अपराजिताकी जड यह सब समान औपधी ऋतुस्नान करके कपिला गौके दूधके साथ पीवे दिन तीन तक तथा दिन सात तक तो वंध्या स्त्रीके गर्भरहे संतान हो ॥ ५ ॥ पुनरुपायः । असंगध नगौरी कूट कपड़छान करके गौके धीमें मिलाय ऋतुस्नानकर दिन ३ चाटे ती वंध्यास्त्रीको गर्भरहे संतान होवे ॥ ६ ॥

सुश्वेतकंटकीमूलंतन्मयूरशिखाभवम् ॥ ऋयंगोपय-  
सानारीपिवेद्भर्मेभवेद्भुवम् ॥ ७ ॥ वीजपूरस्यवीजानि  
गोदुग्धेनचपेपयेत् ॥ पिवेद्भर्मेभवेनार्यास्त्रिदिनंपएषि-  
कादनात् ॥ ८ ॥ मेषीदुग्धीभवंमूलंगोदुग्धेनचसं-  
पिवेत् ॥ ऋतुवयेततोगभर्मेभवत्येवनसंशयः ॥ ९ ॥

त्रिफलापिप्पलीद्राक्षालोत्रंजीणोगुडस्तथा ॥

वर्तिःकृतायोनिमध्येक्षितागर्भकरीमता ॥ १० ॥

पिप्पलीदेवतादारुलाक्षागुण्डुनिर्मिता ॥

वर्तिकायोनिमध्येतुक्षिताशोधनकारणी ॥

शुण्ठीमुस्ताहरिद्रेवलाहिंगुमिसीपरम् ॥

एपांवर्तिःकृता योनौक्षिताशोधनगर्भकृत् ॥ १२ ॥

करे इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ १७ ॥ पुनरुपायः ॥ पुष्पनक्ष-  
त्रमें विधिपूर्वक लक्षणा जड़ीकी जड़लावे और सहदेहीकी जड़-  
लावे फिर गौके घृतमें कन्याके पास पिसवाके गोली बांधकर  
गौके दूधके साथ बंध्या छी पीवे तो गर्भ रहे ॥ १८ ॥

पत्रमेकं पलाशस्यगर्भिणीपयसान्वितम् ॥ पीत्वापु-  
त्रमवाप्नोति वीर्यवंतं न संशयः ॥ १९ ॥ कुरंटमूलं  
धातवंयाः कुसुमानिवटां कुराः ॥ नीलोत्पलं पयोयुक्त-  
मेतद्गर्भप्रदं ध्रुवम् ॥ २० ॥ संयोज्यकं वृपभस्य मू-  
लं तैलं प्रपीतं कुडवप्रमाणम् ॥ स्त्रियापयो भक्तभुजा  
दिनांते सुतं प्रदत्ते नियतं प्रशस्तम् ॥ २१ ॥ पुत्रसं-  
जीविकामूलं शिवलिङ्गीफलान्वितम् ॥ पुष्पोद्धृतं  
पयोमिश्रं पीतं गर्भप्रदं ध्रुवम् ॥ २२ ॥ पुत्रसंजीविकामू-  
लविष्णुकांते शलिंगिकाः ॥ पीत्वापुत्रमवाप्नोति न क-  
न्याजायते स्फुटम् ॥ २३ ॥ रसः प्रपीतः सितकंटका-  
र्यामूलस्य पुष्पं त्रिदिनं जलेन ॥ मयूरमूलस्य चना  
सिकायादत्ते सुतं दक्षिणसंपुटेन ॥ २४ ॥

भाषा—पुत्र होनेका उपाय ॥ गर्भवती छी पुनर्वसु नक्षत्रके  
दिन संध्यासमयमें पलाश वृक्षको नोत आवे प्रभात  
समय सूर्योदयमें जाके पलाश वृक्षके पत्ते ३०० तीनसौ तोड़े  
लावे छायामें सुकाले फिर एक पत्ता रोज प्रातःकाल पीसके  
गौके दूधके साथ जितने संतान हो इतने पीवे तो बड़ा पराक्रमी  
पुत्रको प्राप्त हो इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ १९ ॥ गर्भरहनेका

लामधूकंवटस्यशुंगंगजकेसरञ्च ॥ एतन्मधुक्षीरग-  
 तोनिर्पीतिवन्ध्यापिपुत्रनियतं प्रसूते ॥ १५ ॥ एरंड-  
 धात्रीफलमातुलुंगबीजानिमूलंसितकंटकार्याः ॥  
 दिनत्रयं क्षीरयुतंप्रपीतमेतत्सुखंगर्भवरंप्रथते ॥ १६ ॥  
 अश्वगन्धाकपायेणपयःसिद्धं घृतान्वितम् ॥ प्रातः  
 पीत्वात्रहतुस्त्राताधत्तेगर्भनसंशयः ॥ १७ ॥ पुष्पो-  
 घृतंसद्विलक्ष्मणाम्नामूलंतथान्यत्सहदेविकायाः ॥  
 घृतान्वितंकन्यकृयाप्रपिष्ठुरधेनपीतंप्रकरोतिगर्भम्

भाषा—योनिलेप कंहते हैं आँवलासारगंधक, शंखका चूना  
 दोनोंके बराबर मनशिल इन तीनों दवाइयोंको जलमें पीसके  
 योनिके बीचमें रखदे अर्थात् लेप करनेसे योनिकी पीडा मिटे सो  
 जा दूरहो खुजली योनिकी दूरहो इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ १३ ॥  
 ॥ १४ ॥ पुनर्वन्ध्योपायः ॥ खरेटी, मिसरी, सहदेई, मुलैटी,  
 बड़की डाढ़ी, नागकेशर यह औपधी सर्व समान लेके कूट कपड़  
 छानकर दूधमें सहद और वी मिलाके दवासाके ऊपरसे यह दूध  
 पीवे वंध्या ज्वी नेमकरके इस दवाको दिन साव करे तो अवश्य  
 पुत्रको उत्पन्न करे ॥ १५ ॥ पुनरुपायः । अरंडकी गिरी, आं-  
 वला, विजौराके बीज, सफेद कटेलीकी जड़ यह सब दवाई  
 कूट कपड़छानकर क्रतुस्त्रान किये पीछे वंध्या ज्वी दिन ३ गौ-  
 के दूधके साथ पीवे तो सुखपूर्वक गर्भको धारणकरे ॥ १६ ॥  
 पुनरुपायः । असंगंधकांकपाय करके सिद्धकिया हुआ दूधको घृत  
 डालके क्रतुस्त्राता वंध्या ज्वी प्रातःकाल पीवे तो गर्भको धारण

एतत्सर्पिनं रः पीत्वा स्त्रीषु नित्यं प्रवर्वते ॥ २८ ॥  
 पुत्रान्संजनये च्छ्रेष्ठाञ्छ्रीयुक्ता निप्रयदर्शनाद् ॥ वंश्या  
 चलभते गर्भं नात्र कार्या विचारणा ॥ २९ ॥ याचैवाऽ-  
 स्थिरगर्भस्याद्यावाजनयते नृतम् ॥ स्वल्पायुपं  
 प्रसूतेवायाच्चकन्याः प्रसूयते ॥ ३० ॥ केल्याणेयो मु-  
 णः प्रोक्तो गुणः सोप्यत्रैभवेत् ॥ हितमेतत्कुमाराणां  
 सर्वग्रहविशोपणम् ॥ ३१ ॥ सिद्धकल्याणकं नाम  
 'वृतमेतन्महद्वरम् ॥' वीर्यमस्य शतं वारं द्वाचकथि-  
 तं मया ॥ ३२ ॥

भाषा—मजीठ, मुलहटी, कूट, हरड़, वहेडा, आँवला, मिसरी-  
 चच, अजमोद, हलदी, दारुहलदी, हीग, कुटकी ॥ २५ ॥  
 काकोली, क्षीरकाकोली, असगंध, गौरी, जीविक, कपभ, मेदा,  
 महामेदा, रेणुकवीज, खडी फटेहलीकी जड, पतरकटेलीकी जड  
 ॥ २६ ॥ कमलगटा, सफेदचंदनका बुरादा, मुनक्का, दाख, पदमाघ.  
 देवदार यह सब द्वार्देष एक एक तोला लेके सेरभर धीको  
 पकावे ॥ २७ ॥ चारसेर गौका दूध डालके द्वाइयोंका  
 कल्क करके मंद मंद अग्निसें पकावे फिर सब दूध जलजावं  
 औषधी सिकजावे जब अग्निसे उतारले, ढंटा होनेने वृत छानके  
 शुद्धपात्रमें रखदे, यह वृत एकतोला रोज पुरुष पीवे तो खियोमें  
 नित्य प्रवर्त रहे बलहीन नहीं हो ॥ २८ ॥ इस वृतके प्रता उसे  
 पुरुष बड़े सुंदर ओर ऐष और लक्ष्मीयुक्त पुत्रोंको तत्पन्न करे  
 और वांझ स्त्री गर्भको धारणकरे, इसमें कुछ विचार नहीं यह

और उपायकहते हैं—कुरंडकी जड़, धायके फूल, बढ़की गोभाँ, नीलोफर, यह औपधि कूट कपड़छान कर गौके दूधके साथ पीवे तो निश्चय करके गर्भको पैदा करे इसमें सन्देह नहीं ॥ २० ॥ ॥ पुनरुपायः ॥ वांसाकी जड़ एक कर्प १६ मासे मीठा तेलमें मिलाके पीवे और संध्यासमयमें दूधभातका भोजन करे तो वंध्यास्त्री श्रेष्ठ पुत्रको पैदा करे ॥ २१ ॥ पुनरुपायः ॥ जीयापोताकी जड़, शिवलिङ्गीका फल, पुष्पनक्षत्रमें लावे फिरं गौके दूधके साथ यह औपधी पीई हुई निश्चय करके गर्भको पैदा करती है इसमें कुछ संदेह नहीं ॥ २२ ॥ जीयापोताकी जड़, विष्णुक्रांता, शिवलिंगी यह औपधी क्रतुस्नान किये पीछे गौके दूधके साथ पीवे तो गर्भधारण करे पुत्र हो कन्या नहीं उत्पन्न हो ॥ २३ ॥ अन्योपायः ॥ सफेद कटेलीकी जड़का रस दाहिनी नासिका करके पीवे अथवा सफेद कंटेलीका फूल जलमें पीसकर दाहिनी नासिका करके पीवे अथवा मोरशिखाकी जड़का रस दाहिनी नासिकांकरके पीवे दिन ३ तो यह औपधी पुत्रको उत्पन्न करती है इसमें सन्देह नहीं ॥ २४ ॥

मंजिष्टामधुकं कुपुंत्रिफलाश्करावचा ॥ अजमोदा  
हरिद्रेद्रहिंगुतिक्करोहिणी ॥ २५ ॥ काकोलीकीर  
काकोलीमूलं चैवाश्वगंधजम् ॥ जीवकर्पभक्तोमेदे  
रेणुकावृहतीद्रयम् ॥ २६ ॥ उत्पलं चंदनं द्राक्षा  
पञ्चकं देवदारुच ॥ एभिरक्षमितैर्भागीर्वृतप्रस्थं विष्पाच-  
येत् ॥ २७ ॥ चतुर्गुणेनपयसायुक्तं तन्मृदुनामिना-

रहो॥३३॥ अन्योपायः॥ जो स्त्री बणीको फूलका अर्थात् बांड़ीका फूलकी कांसीको दिन ३ कांजीके पानीसे घोटके पीवे और एक मुष्ठि पुराना गुडका सेवन करे तो गर्भको धारण कदाचित् नहीं करे ॥ ३४ ॥ अब स्त्रीके कतु आनेका उपाय कहते हैं माल-कांगनीके पचे, राई, वच, विजयसार, ठंडा, जलसे पीसके कपड़ासे छानके ३ दिन पीवे तो गए हुए फूल फेर आने लगे निश्चय करके इसमें संदेह नहीं ॥ ३५ ॥ पुनर्गर्भोपायः सूंठ और गुड दोनों पीसके दिन ७ सात तक स्त्री खावे तो स्त्रीके अवश्य गर्भ रहे, कल्याणवैद्य कहता है यह वार्ता मैं सत्य कहता हूँ ॥ ३६ ॥ इति श्री पंडित नन्द कुमार वैद्य गृह तवाल तंत्र भाषाटीकायां द्वितीयः पटलः ॥ २ ॥

शुक्रहीनस्य वेपुं सः कथयाम्यौपधी महम् ॥ माक्षि-  
कं धातु माक्षी किं लोह चूर्ण शिला जतु ॥ पारदं च विडं-  
गं च पथ्या भाग समन्वितम् ॥ ३ ॥ घृते न भावयि-  
त्वा तु पात्रे कृत्वा तुलो हजे ॥ विडाल पदमात्रं तु भक्ष-  
ये च दिने दिने ॥ २ ॥ तस्य व्याधि जरा मृत्युर्दपे-  
षौ केन नश्यति ॥ कामये तस्त्री सहस्रं तु वहु शुक्रो वहु-  
प्रजः ॥ ३ ॥ कपिकच्छुभवं मूलं क्षीरपिपिटं पिवे न्नरः ॥  
अक्षयं जायते शुक्रं कामये तस्त्री सहस्रशः ॥ ४ ॥ मा-  
पोयवः श्वदं प्लावावान रीशत मूलिका ॥ पयसा पेपये-  
त्तेन पक्वये दघृत पूपकम् ॥ ५ ॥ दिनांते भक्षये देकं दतः

निश्चयहै ॥ २९ ॥ जो स्त्री गर्भधारण न करै अथवा जो स्त्री  
मरी संतानको पैदा करती हो, अथवा स्वल्प आयुवाली संतान  
को गैदा करतीहो अथवा जो स्त्री कन्याओंको पैदाकरनेवालीहो,  
उन्होंको यह वृत्त हितकासीहे ॥ ३० ॥ जो कल्याण वृत्तमें गुण  
कहेहैं वही गुण इसकेमी हैं और वालकोंकोभी यह हितहै, सर्व  
वालव्रह्मोंको दूर करनेवालाहै ॥ ३१ ॥ यह सिद्धकल्याण  
नाम करके बड़ा श्रेष्ठ वृत्तहै, सौ बार इस वृत्तका गुण देखकर  
कल्याण वैयने कहा है ॥ ३२ ॥ इति सिद्धकल्याणकं वृत्तम् ॥

गुडपलावलेहंचकृत्वातंडुलवारिणा ॥ लीढ़ागभन  
धत्तेस्त्रीसुरतैकरताभवेत् ॥ ३३ ॥ आरनालपरिपे-  
पितंश्यहंवाणिपुष्पसहितं तुकामिनी ॥ सत्पुराणगुड-  
मुष्टिसेविनीगर्भमेवधरतेकदापिन ॥ ३४ ॥ पीतंज्यो-  
तिप्पतीपत्रंराजिकोग्रासनंश्यहम् ॥ शीतेनपयसा  
पिष्टंकुसुमंजनयेष्टुवम् ॥ ३५ ॥ शुठीगुडेनसंपिष्टा  
भक्षयेद्विनसत्तकम् ॥ तेनगभोंभवेन्नार्याःसत्यंसत्यं  
मयोदितम् ॥ ३६ ॥

इति श्रीकल्याणवैयक्तते वालतंत्रे साधारणवंध्यौप-

धकथनं नाम द्वितीयः पटलः ॥ २ ॥

भाषा—जो स्त्री गर्भधारण किया नहीं चाहती है उसका उपाय  
कहींहैं, पुराना गुड तोले ४ चारको लेके चावलोंका पानी  
करके अबलेह वनावेष्टिन उसको चाटे उतनाही अंदाज हररोज  
चाटे तो वह स्त्री गर्भधारण न करै चाहिये नित्य विषयमें रत

धातकीत्रिफलाचूर्णरसेनेक्षुजकेनतु ॥ ॥ भावयित्वा ॥  
 ततःपश्चान्मधुशर्करसंयुतम् ॥ ८ ॥ जीर्णकायोपि ॥  
 तष्ठीद्विपिवेत्क्षीरंततोनिशि ॥ कामयेत्खीसहस्राणि ॥  
 कामाग्निस्तस्यवर्द्धते ॥ ९ ॥ कपिकच्छुकमूलानिति ॥  
 लाश्वैवाश्वगंधिका ॥ विदारीकंदसंचूर्णपष्टिकातंडुला-  
 निच ॥ १० ॥ एतानिपयसापिष्ठाघृतेनसहपाययेत् ॥  
 दिनेदिनेचसंभक्षेद्यदिनारीगृहेभवेत् ॥ ११ ॥ विदारी  
 गोक्षुरंचैवपयसासहभक्षितम् ॥ जीर्णकायेप्रदातव्यं ॥  
 सुखताग्निप्रदीपनम् ॥ १२ ॥ मापयवोऽश्वगंधाच  
 वानरीशतमूलिका ॥ कोकिलाक्षस्यवीजानिशां-  
 खमलीचशतावरी ॥ सघृतंपयसापीत्वापण्डोपिरमये-  
 त्ख्ययः ॥ १३ ॥ यवमापोऽद्वंचूर्णशर्कराक्षीरमिथि-  
 तपु ॥ जीर्णतेचपिवेत्क्षीरंशुक्रवृद्धिस्ततोभवेत् ॥ १४ ॥

भाषा—धायके पूल, हरडैबडी, बहेडा, आँवला, यह चारों  
 दवा समान लेके ईखके रसकी भावना देवे पीछे धूपमें  
 सुखाके बराबरकी मिलाकर शहदमें चाटे ॥ ८ ॥ जिस  
 पुरुषका शरीर जीर्ण भी होगयाहो, वहभी रात्रिमें इस चूर्णको  
 सहदमें चाटकर ऊपरसे दूध पीवे तो हजारों खियोंकी इच्छा  
 करने लगे और कामाग्नि उसके अत्यंत बढ़ाती है ॥ ९ ॥  
 कौंचवृक्षकी जड, सफेद तिल, असगंध, विदारीकंदका चूर्ण,  
 सांठी चाँवल ॥ १० ॥ यह सब समान औपधी लेके कूट कप-  
 ड़ानकरके ६ मासेकी फकी लेके ऊपर गरम दूधमें धी डालक-

क्षीरं पिवेन्नरः ॥ पण्मासाभ्यन्तरे चैव वृद्धो पितरुणायते  
॥ ६ ॥ मासमेकं प्रयोगेण शुक्रवृद्धिर्भवेद्गुबम् ॥ ७ ॥

भापा—अब जिस पुरुषके शरीरमें धातु न होय, उसका उपाय लिखतेहैं, शहद, सोनामकखीकी भस्म, लोहसार, शिला-जीत, रससिंदूर, वायविडंग, बड़ी हरडैकी छाल, यह औपधी सर्व समानलेके गौंक वीकी भावना देके लोहके वर्तनमें अर्थात् हिमामजस्तामें या खरलमें, सर्वदवाका एक जिगर करके नित्य एक कर्ष सावे पेसा ब्रथका लेखहै, हमारा भत यहहै शरीर बल माफिक खावे, वर्षभरके सेवन करनेसे रोगवृद्ध अवस्था, मृत्यु, यह नट होजातीहै और हजारों स्त्रियोंके संग रमण करनेकी ताकत होजातीहै. बहुत शुक्र शरीरमें पैदा हो जाताहै और बहुतसी संतान होने लगजातीहै ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥

॥ पुनरुपायः ॥ कौच वृक्षकी जड़ दूधमें पीसके जो पुरुष पीया करेतो उस पुरुषके शरीरमें अक्षय वीर्यको पैदा करतीहै और वह पुरुष हजारों स्त्रियोंकी इच्छा करने लगताहै ॥ ४ ॥

पुनरुपायः ॥ उड्ड, जौ, गोखरू, कौचके वीज, सफेद मुसल्ली यह औपधी सर्व समान लेके कूट कपड़छान करके दूधमें बारीक पीसके उसका घेवर बनाले ॥ ५ ॥ फेर रात्रिको उसमेंसे तोले ४ साथके ऊपरसे दूध गर्न पीवे, तो द छह महीना सेवन करनेसे वृद्ध पुरुष जवानक माफिक हो जाताहै ॥ ६ ॥ और एक महीना स्वानेसे निश्चय शरीरमें वीर्यकी वृद्धि होजातीहै. इसमें संदेह नहींहै ॥ ७ ॥

सेवं च समं द्याद्विश्वेपजमेवच ॥ २१ ॥ एषां  
कल्कैः पचेद्वीमाञ्छुंगवेरसेततः ॥ सिद्धं ज्ञात्वास-  
मुत्तार्थमर्दयच्छुभवासरे ॥ २२ ॥ कुब्जायेवाम-  
नावैवपंगुपादजडाश्रये ॥ महावातेनयेभग्नाहितं तेषां  
विसर्पिणाम् ॥ २३ ॥ संकोचनेतुगात्राणां सन्निपाते  
चदारुणे ॥ ग्रंथिरोगेच हच्छुलेहितमेतच्छिरोग्रहे  
॥ २४ ॥ शमयेत्त्वक्षिशूलानिकर्णशूलान्यनेकशः ॥  
रोगानन्तर्गलोत्थांश्च सर्वानेतद्योपोहति ॥ २५ ॥  
येषां शुष्यतिवैकमोयेषां चित्तभ्रमोभवेत् ॥ क्षीणे-  
न्द्रियाश्चयेमत्यांजरयाजर्जरीकृताः ॥ २६ ॥ मंद-  
मेघाविनोयेच श्रुतियं पांप्रणश्यति ॥ भुक्तं न जीर्यते  
येषामश्चिर्मदतरोभवेत् ॥ २७ ॥ याच्च वंध्याभवे-  
त्रारीकाकवंध्याचयाभवेत् ॥ योनिरोगगताकाचि-  
द्ग्रं गृह्णाति यानवा ॥ २८ ॥ प्रमेहेषु च सर्वेषु द्वां-  
डवृद्धिगदेषु उच ॥ ऋमेषु पांडुरोगेषु कामलायामदं  
हितम् ॥ २९ ॥ अपरमारंगं धमालं वातशोणि-  
तमेवच ॥ पिटकाः सर्वकुष्ठांश्च इदुं पामां विचर्चिं का-  
म् ॥ विनिहंतिज्वरन्सर्वान्वातपित्तरुकोत्थनान्  
॥ ३० ॥ मासमेकं पिवेद्यस्तुयोवनस्थः पुनर्भवेत् ॥  
कामाग्निजननं चैतद्वलवीर्यविवर्द्धनम् ॥ ३१ ॥  
नस्येषानेतथाभ्यं गेनरोनित्यं च सेवयेत् ॥ एतच्छता-  
वरीतैलं न रनारीहितावहम् ॥ ३२ ॥ इति शतावरीतैलम् ॥

पीवे. यह योग तब नित्य स्वावें जब धरमें स्त्री होवे. नहीं तो नित्य सेवन करना नहीं चाहिये ॥ ११ ॥ विदारीकंद और गोखरु इन दोनोंका चूर्ण दूधके संग खाना चाहिये यह चूर्ण वृद्ध पुरुषके भी कामान्त्रिको उत्पन्न कर सकता है ॥ १२ ॥ अन्योपायः ॥

उड्ड, यव, असगंध, कौचके बीज, सफेद मुसली, तालमसाना, सिंभलकी मुसली, सतावर यह औपधी सर्व समान लेके कूट कपड़छान करके घृतमें मरकोके दूधके संग पीवे तो नपुंसक भी पुरुष चिर्योंके संग रमण करनेलगजाता है ॥ १३ ॥ अन्योपायः यव और उड्ड इन दोनोंका चूर्ण मिसरीसहित दूधके साथ पीवे और यह हजम हुये पीछे फिर दूधको पीवे तो वीर्यकी वृद्धिहो. देह पुष्टहो नामर्द मर्द होजावे ॥ १४ ॥

धात्रीफलोद्धवं चूर्णरसेनेक्षोः सुभावितम् ॥ विशुधो  
वहुधापश्चात्पेपयित्वापुनःपुनः ॥ १५ ॥ मधुश-  
र्करयायुक्तं समभागेन कारयेत् ॥ पुरुषाणां च नारी-  
णां प्रयाक्तव्यं सुतास्तये ॥ १६ ॥ शतावरीं तु नि-  
प्पीडयरस प्रस्थद्वयं हरेत् ॥ तैलं तेन पचेत्प्रस्थं क्षीरं  
दत्त्वा चतुर्गुणम् ॥ १७ ॥ तत्त्वैलं च पचेद्वीरः शनै-  
र्मृद्धग्निनाशुभम् ॥ औपधीनां ततो भागं दापयेत्कर्प  
मात्रकम् ॥ १८ ॥ शतपुष्पादेवदारुमांसीशैले-  
यकंवचा ॥ चंदनं तगरं कुप्रमेलाचांशुमतीवला ॥  
॥ १९ ॥ रासाचैवाश्वगंधाच विडंगं मरिचानिच ॥  
पीलुपर्णीचत्वर्कृपत्रं तथागंधर्वहस्तिका ॥ २० ॥

जिसके विसर्परोगहो, उनाँको यह तैल बडा हितकारीहै॥ २३॥ अंगसुकचरोगमें, संनिपातमें, वायुगांठमें, हृदयशूलमें, शिरके दर्दमें और शिरके भारीपनमें यह तैल बहुत बडा हितकारीहै ॥ २४ ॥ नेत्रकी शूलको और कानकी शूलको यह बहुत जलदी घालनेसे शमन कर देताहै और गलके अन्दरके जितने रोगहैं सबको नष्ट कर देताहै ॥ २५ ॥ जिनपुरुषोंका काम सूख जाताहै अर्थात् नपुंमक होजातेहैं और जिनोंके चित्तभ्रम होताहै और जिनोंकी इन्द्रिय कमताकत होजातीहैं और जो वृद्धअवस्थासे बिलकुल कमताकत हैं, उनको यह बड़ा हितकारीहै ॥ २६ ॥ जिन पुरुषोंकी बुद्धि कमहै और जिनको सुनता नहींहै. और जिसके भोजन किया हुआ हाज-मा नहीं होताहै और जिनोंका जठरायि मंदहै, उनाँके वास्ते यह तैल बडा हितकारी ॥ २७ ॥ जो छोटी बांझ होतीहै और जिन खियोंके एक संतान पुत्री होके फिर नहींहो और जिन खियोंके योनिरोगहैं. अथवा जो लौटी गर्भको नहीं व्रहण करतीहैं उनको यह तैल बडा हितकारीहै ॥ २८ ॥ संपुर्णप्रमेहोंमें, अंडवृद्धि रोगमें, भ्रममें, पीलियामें, और कमलबायमें, यह तैल बहुत हितकारीहै ॥ २९ ॥ मृगीको, वैलको, बाहरकर्को, फुनसियोंको, सर्वफुटोंको, दादको, पामाको, ब्योचीको और सब रकमके बुखारोंको यह तैल नष्ट कर देताहै ॥ ३० ॥ जो पुरुष एक मास इसको पीवे तो वह वृद्धभीहो परंतु फिरके जवान होजावै यह तैल कामको तेज करताहै. और बलवीर्योंको

भापा—पुनरुपायः ॥ सूखे आवलोंके चूर्णमें उखके रसकी भावना देवे, पीछे छायामें सुखाके फिर भावना देवे, इसतरह वैय ७ भावना दे बारबार ॥ १५ ॥ पीछे समान भाग शहद मिसरी मिलाके अबलेह पकाले फिर पुरुषको या नारीको खवावै तो शारीरमें बल बढे, धातु बढे, संतानहो ॥ १६ ॥ अब शतावरी तेलको कहते हैं । हरीशतावरको लेके कूटके, रस २ सेर निकाले फिर उस रसकरके तिलोंका तेल सेर १ पचावे और उसमें ४ सेर गौका दूध गेरे ॥ १७ ॥ फिर उस तेलको वैय मंदाग्निसे शनैःशनैःपकावे, और इन दवाइयोंको एक एक तोला लेके कल्क बनाके उसमें पचो समय घाल दे ॥ १८ ॥ सौंफ, देवदुवार, बालछड, छालछलीरा, वच, लालचंदन; तगर, कूट, इलायची, अंशुमती, खरैटी ॥ १९ ॥ रासना, असगंध, बायविडंग, स्थाहमिरच, पीलु-पर्णी, दालचीनी, पञ्ज, एरंडकी जड़की छाल, ॥ २० ॥ सेधानमक, सूठ यह सब दवा समान एक एक तोला लेनी चाहिये ॥ २१ ॥ इन दवाइयोंका कल्क करके बुद्धिमान वैय तेलको पकावै फिर अदरखका अर्क देके पकाना चाहिये जब पकजावे तब अग्निसे उतार लेवे, सुंदर पात्रमें छानके रखदेवे, अच्छा शुभ वारमे मालिश करना सुलकरे इतनी वीमारियोंको दूर करताहै ॥ २२ ॥ जो मनुष्य कूबडे हैं और बामनेहैं और पांगलेहैं और जिनोंके पैर रहगएहैं और महावात करके भग्न जो हैं, अर्थात् अर्द्धांगवात जिसके हो और

धीमें उनको पकाके जो पुरुष स्वावे तो वह शतस्त्रियोंको सेवन करने लगता है ॥ ३३ ॥ अन्योपायः ॥ बकराके अण्डों करके सिद्धकिया हुआ दूधमें सिद्धकिए हुए तिलोंको जो पुरुष स्वावे वह शतस्त्रियोंके संग गमनकर सकता है और ऐसी ताकतसे गमन करे मानो पहिले कियाही नहीं है ॥ ३४ ॥ पुनरुपायः ॥ विदारीकंदका चूर्ण कपड़छान करके और विदारीकंदके रसकी भावना ७ देके फिर वरावरकी मिसरी मिलाके धीमें मरकोइके रसदे जिसमेंसे १ तोला शहदमें चाटे तो वह पुरुष दश स्त्रियोंके संग रमण करने लगता है ॥ ३५ ॥ पुनरुपायः ॥ सूक्ष्म आवर्णोंका चूर्ण कपड़छान कर हरे आवर्णोंके रसकी भावना ७ देके छाया सूक्ष्म करके वरावरकी मिसरी मिलावे, फिर धीमें मरकोंके शहदमें तोला १ चाटे ऊपर गौँका दूध गरम भीठा गेरके पीवे, तो अस्सी वर्षका वृद्ध भी जवानोंकी तरह रमण करने लगता है ॥ ३६ ॥ पुनरुपायः ॥ कौंचके बीज, और तालमखाना, इनदोनोंका चूर्ण कपड़छानकरके वरावरकी मिसरी मिलाके तोला १ फंकी लेके ऊपरमे दूध पीवे तो उस पुरुषकी धातु क्षीण नहीं हो ॥ ३७ ॥ पुनरुपायः ॥ सफेद धुंघचीका चूर्ण कपड़छान कर दूधकी साथ पिया हुआ ताकत देनेमें बड़ा श्रेष्ठ है और शतावरी, सफेद धुंघची इन दोनोंका चूर्ण दूधकी साथ पिया हुवा निहायत उमदा है ॥ ३८ ॥ अन्योपायः ॥ मुलहटीका चूर्ण तोला १ धी मिलाके शहदमें चाटे और ऊपर दूध पीवे तो १०० स्त्रियोंके संग सौ बेगङ्करने लग जावे ॥ ३९ ॥

बढ़ावता है ॥ ३१ ॥ सूंवनेमें और पीनेमें और मालिश करने-में इस तेलको नित्य वर्तना चाहिये यह जो शतावरी तैल है सो पुरुष स्त्रीको सर्वथा हितका देनेवाला है ॥ ३२ ॥

इति शतादरीतैलम् ।

पिंपलीलवणोपेतोवस्तांडौक्षीरसर्पिंपा ॥ साधितौ  
भक्षयेद्यस्तुसगच्छेत्प्रमदाशतम् ॥ ३३ ॥ वस्तांड  
सिद्धेपयसिसाधितानसकृत्तिलान् ॥ यःखादेत्सपु-  
मान्गच्छेत्खीणांशतमपूर्ववत् ॥ ३४ ॥ चूर्णविदा-  
र्यारचितंस्वरसेनैवभावितम् ॥ सर्पिःक्षीद्रयुतंलीङ्घा  
दशगच्छेत्त्ररोंगनाः ॥ ३५ ॥ एवमामलकीचूर्णस्व-  
रसेनैवभावितम् ॥ शर्करामधुसर्पिभ्यांयुक्तंलीङ्घापयः  
पिबेत् ॥ एतेनाशीतिवपोंपियुवेव रमतेसदा ॥ ३६ ॥  
स्वयंगुतेक्षुरकजवीजचूर्णसशर्करम् ॥ धातोस्तेननरः  
पीत्वापयसानक्षयंवजेत् ॥ ३७ ॥ उच्चटाचूर्णमप्ये-  
वक्षीरेणोत्तममुच्यते ॥ शतावर्युच्चटाचूर्णपीतक्षी-  
रेणचोत्तमम् ॥ ३८ ॥ कर्पंमधुकचूर्णस्यघृतक्षीद्र  
समन्वितम् ॥ पयोनुपानंयोलिङ्घानित्यवेगशतोभ  
वेत् ॥ ३९ ॥ मुसलीकंदचूर्णचगुड्चीसत्त्वसंयुतम् ॥  
वानरीगोक्षुराभ्यांचशाल्मलीशर्करामलैः ॥ आलो-  
ड्यघृतदुधाभ्यांपाययत्कामवृद्धये ॥ ४० ॥

अब और न पुंसकका उपाय कहते हैं ॥

भापा—वकराके अंडकोश छेके पीपल नमक ढालके दूधऔर

धीमें जरा भूते फिर तेजपात, दालचीनी, लोंग, पीपल छोटी, केसर यह एक एक पल व्रहणकरे, फिर सबकी बराबरको मिसरी पल ७ लेके उसमें मिलादे फिर दृध दश गुणा पल ७० भैसका लेके उसमें स्वूव पकाके खोवा बनाले और उसकी गोली बनाले तोले दो दो की फिर काम तेजकरनेके बास्ते पुरुष नित्य खावे तो इन्द्री प्रबल हाँ और धातुवृद्धि हो ॥ ४२ ॥ इन गोलियोंको नित्य सेवन करनेसे वृद्ध पुरुष भी ज़वान हो जाता है और जवान पुरुष सेवन करे तो क्या कहना है ॥ ४३ ॥ पुनरुपायः ॥ छोटी सिंभलंकी मुसली और सफेद मुसली इनको कूट कपड़छान करके बराबर मिसरी मिलाके तोला ३ की फंकी लेके ऊपरसेग-रम दूधमें धी डालके पीवे तो पुरुष चिढ़ाकी माफिक कर्दृदफे विषय करे ॥ ४४ ॥ अन्योपायः ॥ बड़ी सिंभलकी मुसलियोंका रस तोले पूछेकर उसमें मिसरी तोला एक डालकर दिन ७ पीनेसे, वीर्यकी वृद्धि हो और कामदेवकी वृद्धि हो ॥ ४५ ॥

त्रैकक्षीरविदारिकाकुरबकशेताढकाढार्दकं प्रस्थं-  
शाल्मलिशूलजातरसतोनीत्वातथाग्नौपचेत् ॥  
चातुर्जातफलान्वितोमधुयुतःकार्यःपरंशुक्लोलेहो-  
यंपलितांतकोवलकरःख्यातोवलीनाशकः ॥ ४६ ॥  
शतावरीगोक्षुरकेचदर्भशृंगाटकेनागवलात्मगुस्ता ॥  
सितासमानंनिशिचूर्णमेपांदुग्धेनपीतंप्रकरोतिपुष्ट-  
म् ॥ ४७ ॥ विशदाफलबीजानांचूर्णपीतंनिशासु-  
खे ॥ पयसावर्षमात्रेणपंडत्वंनाशयेद्गुवम् ॥ ४८ ॥

अन्योपायः ॥ सफेद मुसलीका चूर्ण, और उसीके समान गिलोह सतं और कॉचके बीज, गोखरू, सिंभलकी मुसली, मिसरी, ऑ-बला, यह सर्वे समान लेके कूट कपड़छान करके धीरे मरकोइके दूधके संग पीनेसे कामवृद्धि हो इंद्री प्रबल हो धातु पुष्ट हो ॥ ४० ॥

गोशुरकःशुरकःशतसूलीवानरिनागवलातिवलाच ॥  
चूर्णमिदंपयसासहपेयंयस्यगृहेप्रमदाशतमस्ति ॥

॥ ४१ ॥ वाराहीकंदशुंगाटकपलयुगलंचूर्णितंकिं-  
चिदाज्येभ्रष्टजातीदलत्वसुरकुसुमकणाकेसरणां  
पलंच ॥ श्वेतांसर्वःसमानांपयसिदरागुणेसाधुपक्त्वा  
महिष्याःकामोदोधायकार्यास्तदनुचवटकाःकामु-  
कैःशुक्रवृद्धयै ॥ ४२ ॥ एनांसदासेव्यमानोवृद्धो-  
पितरुणायते ॥ तरुणीनांशतंया तितरुणस्यतुकाक-  
था ॥ ४३ ॥ लघुशाल्मलिमूलेनतालमूलींसुचू-  
र्णिताम् ॥ सर्पिष्पापयसापीत्वानरथटकवद्धवेत् ॥ ४४ ॥  
वृद्धशाल्मलिमूलस्यरसंशर्करयापिवेत् ॥

एतत्प्रयोगात्सप्ताहाच्छुकवृद्धिःप्रजायते ॥ ४५ ॥

भापा—गोखरू, तालमखाना, सफेद मुसली, कॉचके बीज, गं-  
गेरणकी छाल, सहदेहीकी जड़ इन दगड़योंको कूट कपड़छान क-  
रके बराबरकी मिसरी मिलाके फिर यह चूर्ण दूधके संग जिसको  
पीना चाहिये जिसके धरमें शत्रुघ्नी हो। आर्योदसौख्योंको सेवन  
करनेकी ताकत करता हे ॥ ४६ ॥ अन्योपायः ॥ वाराही  
कंद, सिंधाड़े यह दोनों पल २ ग्रहण करके कूट कपड़छान करके

कूट कपड़छान करके रात्रिकोद्दर्श से फाँक के ऊपर से दूध पीवे  
एक वर्षभर सेवन करने से नपुंसक पुरुष का नपुंसक पना दूर हो  
धातु बढ़े इंद्री प्रबल हो ॥ ४८ ॥ अब बैधेज का उपाय  
लिखते हैं ॥ पोस्तांके ढोडे और सूंठ तोला तोला लेके सोलह  
गुना पानी चढ़ाकर अष्टांश अवशेष करके मिसरी तोला ।  
डालके पीवे विषय करते समय वीर्यपात नहीं हो इतने स्थाई  
नहीं खावे ॥ ४९ ॥ पुनरुपायः ॥ जायफल, आककी जड़,  
अकर्करा, लौग, सूंठ, कंकोल, केसर, पीपल, कस्तूरी, इन  
सबकी वरावर अफीम अफीम की वरावर मिसरी, लेनी चाहिये ॥  
सबको कूट कपड़छान करके शहदमें गोली बना लेनी चाहिये  
॥ ५० ॥ रात्रिको २ मासे खायके ऊपर मैसका दूध भीड़ा  
गेरके गरम पीवे तो वीर्यपात पुरुष न करे और शियोंका चित्त  
प्रसन्न होजावे ॥ ५१ ॥

( आद्रेचरटीछत्रेनव्येकंदेसुदर्शनाख्यस्य ॥ साधित-  
मतसीतैलंविंदुजवनाभिलेपतोधत्ते ॥ १ ॥ इति  
त्र्यथान्तरस्य योगः ) ॥ कांचनस्यफलमूलदलानां-  
पूर्णवृण्डसहितेनरसेन ॥ लिंगलेपमसकृतप्रहरार्घ्विंदु-  
वेगधरणायनिवद्धम् ॥ ५२ ॥ अहिफेनंदुग्धशुद्धं  
रक्तिकात्रितयोन्मितम् ॥ विंदुवेगं ध्रुवं धत्तेसितयानि  
शिसेवितम् ॥ ५३ ॥ सूक्तरविशश्चमधुनालिंगले-  
पःकृतःसुरतावसरे ॥ द्रावयतिवारवनितावारंवार-  
मनेकधानियतम् ॥ ५४ ॥ चृणितैर्मधुसंयुक्तेर्महारा-

खसफलशुंठीकाथःपोडशरेपःसितायुतः पीतः ॥  
 कुरुतेरतौनपुंसोरेतःपतनंविनाम्लेन ॥ ४९ ॥  
 जातीफलार्ककरहाटलवंगशुंठीकंकोलकुद्धमकणा-  
 मृगनाभिजानि ॥ एतैः समानमहिफेनमनेनतुल्यां  
 श्वेतांनिवायमधुना वटकंविदध्यात् ॥ ५० ॥  
 मापद्योन्मितमसुनिशिभक्षयित्वा मिष्टंपयस्तदनु  
 माहिपमाशुपीत्वा ॥ कुर्वन्तुकासुकजनानतुविंदु-  
 पातंचेतांसितेनचकितानिकलावतीनाम् ॥ ५१ ॥

**भाषा—अन्योपायः॥** त्रिफला, क्षीरका कोली, विदारी कंद, कुरु-  
 वक वृक्षकी छाल, और मिसरी यह सर्व औपधी आधा आधा  
 आढ़क लेनी चाहिये और सिंभलकी मूसलियोंका रस सेर उलेके  
 अधिके ऊपर शनैःशनैःपकावै फिर जरा गाढ़ा होजावेतव उसमें  
 तज, पतरज, इलायची, नागकेसर, इन दवाइयोंका चूर्णकरके  
 बालि देना चाहिये फिर अब लेह पकजाने पर नीचे उतारकर हि-  
 साव माफिक शहद उसमें मिलादेवे, यह अब लेह बहुत ज्यादा  
 शुक पैदा करनेवाला है और सफेद बालोंको स्याह करदेता है  
 बलकारक यह अब लेह विस्थात है और शरीरकी गुलझटोंको  
 दूर करता है ॥ ४६ ॥ पुनरुपायः ॥ शतावर, गोखरु, डामकी  
 जड़, सिंघाड़, गंगेरणकी छाल, कर्मचके बीज, यह दवा समान  
 लेके कूट कपड़छान करके बराबरकी मिसरी मिलाकेतोला । चूर्ण  
 रातको फांकके ऊपर से दूध पीवे तो धातुपुष्ट हो इंद्री प्रवलहो  
 काम अधिक हो ॥ ४७ ॥ अन्योपायः ॥ शालममिसरीको

अन्योपायः ॥ हीराकसीस, फटकडी, माजूफल, इनको कूट  
कपड़छान करके फिर शहदमें रगड़के लिंगपै लेप करके विषय  
करे तो स्त्री द्रवजातीहै ॥ ५६ ॥ अवयोनिसंकोचन छिर-  
तेहै ॥ मोचरस, आंदलासूतका, तज, काकमाची, इन दवाइ-  
योंको कूट कपड़छान कर जलमें पीसके बत्ती बनावे फिर स्त्री  
अपनी योनिमें रखवे तो विषय समयमें पुरुषको बढ़ा आनंद  
प्राप्त होता है. योनि अत्यन्त संकोचको प्राप्त होजातीहै ॥ ५७ ॥  
और योनिसंकोचनका नुसखा कहते हैं ॥ जो स्त्री अपनी  
भगको गौकी छाँछकरके या ऑवलोंका काढ़ा करके नित्य  
धोवे तो उसकी भग निहायत तंग होजाती है और विषयमें  
ह स्त्री चालास्त्रीकी माफिक आनन्द देतीहै ॥ ५८ ॥

इति श्रीपंडितनन्दकुमारसैद्यकृतवालतंत्रभाषाटीकायां दृतीयः पटलः ३ ॥

गुद्धार्तवांदोपविमुक्तशुक्रः सुगंधलेपेः परिलिपतगत्रः ॥  
प्रशस्तनक्षत्रदिनेप्रहृष्टांनारीमुपेयादयितः सुतार्थी ॥  
॥ १ ॥ सेवेतवाजीकरणांश्चनित्यदुगंधपिवेच्छकर-  
याविमित्रम् ॥ दानेनमानेनचभूसुराणांमोदंविदध्या-  
द्विधिनोपयुक्तः ॥ २ ॥ दिनेषुयुग्मेषुपुमान्प्रादि-  
ष्टः प्रोक्तान्यथास्त्रीतदनल्पबुद्धिः ॥ विचार्यसवंसु-  
खितः प्रमत्तः प्रवृद्धशुक्रोदयितामुपेयात् ॥ ३ ॥  
अहाराचारेष्टाभिर्यादशीभिः समन्वितौ ॥ स्त्रीषु-

श्रीफलच्छदैः ॥ लिंगपेलेनसुरतेद्रवोभवतियोपिताम् ॥ ५६ ॥ कासीसंस्फाटिकामाजृफलंक्षीद्रेणवर्षयेत् ॥ तेनलिंगेकृताष्टेपाद्रुतोद्रवतिचांगना ॥ ५७ ॥ मोचरसामलकृत्वकाकमाचीभिरुनिशंसुभगा ॥ स्वभगेविवायवत्ति सुरते कांतसुखंकुरुते ॥ ५८ ॥ भगस्यक्षालनंकृत्वातकेणामलकृतौः ॥ रतेपि कामिनीकामंवालेवकुरुतेनिशम् ॥ ५९ ॥

इति श्रीकल्याणवैद्यकुरुते वालतंत्रे पुरुषवीर्यवृद्धिकथनं

नाम तृतीयः पटलः ॥ ३ ॥

भाषा—अब धातुवंधके वास्ते लेप कहते हैं, धतुरा वृक्षके फल जड़ पत्तोंके रसमें सुपारीका चूर्ण सूब वारीक पीसके लिमपर लेप करे चारवडी पीछे विषय करे धातुका वंधेजरहे चींका चिन प्रसन्न हो ॥ ५३ ॥ अन्योषायः ॥ अफी-मको दूधमें शोधले पीछे अफीप रनी ३ मिसरी तोला १ में रखके रात्रिको सेवन करके ऊपरसे दृथ पीवे तो वीर्यमा वेग स्थितहो अर्थात् वंधेजरहे पुरुषस्त्रीको आनंद प्राप्तहो ॥ ५४ ॥ अब श्रीको द्रवणेके लेप कहते हैं ॥ सूक्तरकी विष्टाको शहदमें मिलाके विषय करती दंकलिंग पर लेप करके विषय करे तो चीं वारंवार द्रवे और इंद्री रियिल न पड़े ॥ ५५ ॥ और टपाय द्रवके कहते हैं ॥ जलपीपली के फल; पत्ते उके सूब वारीक कूट कपड़ठान कर, शहदमें मिलाके इंद्रियपर लेपकरके विषय करनेमें चीं द्रव जारीहै द्रवे पीछे बलहीन होजारीहै ॥ ५६ ॥

और जैसा आचार और जैसी, चेटाओंकरके युक्त स्त्री पुरुष भोग करेंगे तो उनके पुत्रभी जैसाही आहार और वैसाहो आचार और वैसीही चेटावाला होगा ॥ ४ ॥ रजकी ज्यादती गर्भमें होनेसे लड़की होतीहै, और वीर्यकी अधिकता होनेसे लड़का होताहै, और रजवीर्य दोनों समान हों तब नर्पुत्रक अर्थात् हीजडा होताहै ॥ ५ ॥ और रजमें वीर्य पढ़े या वैसमयमें पढ़े तो वह वीर्य निष्फल होजाताहै गर्भस्थित नहीं हो, और पुरुष धातुहीन हो या नर्पुत्रकहो तबची गर्भवारण नहीं करे ॥ ६ ॥ बुद्धिमान ऐसे विचारकेवास्ते वाजीरण प्रयोगोंको इस मन्त्रसे मंत्रित करके सेवन करना चाहिये ॥ ७ ॥ मन्त्रका उद्धार करतेहैं यथम औंकार उसके पीछेकामबीज कुँौं यह उसके पीछे देवकीसु-त यह पद उसके पीछे गोविंद यह, पद और तिसके पीछे वासुदेव पद देना चाहिये ॥ ८ ॥ और उसके अगाढ़ी जगत्तते यह पद उच्चारण करना चाहिये और अगाढ़ी देहि ने तनयं यह पद और इसमें अगाढ़ी देव यह पद, इससे अगाढ़ी त्वामहं शरणं गतः यह पद देना चाहिये, वस मंत्र होगया ॥ अब समत्तमन्त्र-का स्वरूप लिखतेहैं ॥ “अँ कुँौं देवकीमुत गोविंद वासुदेवजग-त्तते देहि ने तनयं देव त्वामहं शरणं गतः” यह मन्त्र है इस क-रके मंत्रित करदेने चाहिये ॥ ९ ॥

अष्टोत्तररातंजस्त्वा औपवंचप्रदापयेत् ॥ औपधी-  
श्वर्गेमन्त्राः कव्यतेचमयाग्नुभाः ॥ १० ॥ गत्वी-  
पवीतमीपंतुमूले गृत्वासमंतुवः ॥ कीलकंखादिर्दं-

सौसमुपेयातांतयोः पुत्रोपिताहर्शः ॥ २ ॥ रक्ता-  
धिक्येभवेन्नारीशुक्राधिक्येभवेत्पुमान् ॥ रक्तशुक्र-  
समेनैवभवतीहनपुंसकम् ॥ ५ ॥ रक्तशुक्रमकाले  
चपतितंनिष्फलंभवेत् ॥ शुक्रक्षयेनरंपद्मेनारीग-  
र्भद्धातिन ॥ ६ ॥ विचार्येवंसुधीःपाञ्चात्प्रयोगा-  
न्करयेत्सदा ॥ गर्भार्थंचप्रदातव्यान्मंत्रेणानेनमं-  
त्रितान् ॥ ७ ॥ प्रणवःकामराजंचदेवकीसुतसंव-  
देत् ॥ गोविदेतिपदंश्रूयाद्वासुदेवपदंततः ॥ ८ ॥  
जगत्पतेसमुच्चार्यदेहिमेतनयंततः ॥ ततोदेवपदं  
चोक्तंत्वामहंशरणंगतः ॥ ९ ॥

भाषा—अब संवान उत्पत्ति करनेकी रीति लिखते हैं ॥  
निदोप वीर्यवाला पुरुष अच्छे २ सुगंधिके अतर लेपन लगाके  
शास्त्रोक्त दिन देसके बडे प्यारसे, शुद्धोप करके शुद्ध हुई  
बीको पुत्रकी इच्छा करताहुवा सेवन करे ॥ १ ॥ मीसेन-  
विधि करके युक्त हुवा पुरुष वाजीकरण योगोंको नित्य सेवन  
करे और भिसरी गेरके नित्य गरम टूथ पीवे, और ब्राह्मणोंको  
दानदे. और उसका मान करे, फिर चित्तमें आनंदको धारण  
करना चाहिये ॥ २ ॥ जिसदिन रजस्वला थीहो उस दिन  
युमरात्रियोंमें विषय करनेसे पुत्रकी संवान होतीहै, और अयु-  
म सात्रियोंमें विषय करनेसे पुत्रीकी संवान होतीहै ॥ इसी  
कारणसे बुद्धिमान् पुरुष सर्व वार्ताको विचारके वाजीकरण  
इन्होंसे वीर्य अधिक करके स्त्रीसे गमन करें ॥ ३ ॥ जैसा आहार

लेनी चाहिये ॥ फिर अगाड़ी जो मंत्र कहेगे उस मंत्रसे औपरी सानी चाहिये ॥ १५ ॥

ॐ्कुमारजननीयेस्वाहामंत्रोदशाक्षरः ॥ लक्ष्मणा-  
संग्रहःकार्यःप्रवृत्तेचोत्तरायणे ॥ संपूर्णमासपक्षेतु  
मागृहीयान्महोपधीः ॥ १६ ॥ चिह्नंतस्याः प्र-  
वक्ष्यामिज्ञायतेचभिपग्जनैः ॥ रत्नविंदुष्टुतैः पत्रै-  
र्वर्तुलाकृतिभिर्युता ॥ १७ ॥ पुरुषाकारसंक्षेत्र-  
लक्ष्मणासानिगद्यते ॥ आत्मच्छायांपरित्यज्यगृही-  
यात्पूर्व्यभेषुधीः ॥ १८ ॥ प्रणवोहदयंप्रोच्यव-  
लवर्द्धनिचोच्चरेत् ॥ शुक्रवर्द्धनिपुत्रेतिजननीवद्वि-  
वछमा ॥ १९ ॥ विशत्यणेनविधिनानिशिखानं  
प्रदापपयेत् ॥ नाड्यांतुदक्षिणायांतुवायोवहतिदाप-  
येत् ॥ २० ॥ ऋतुस्नानानंतरंतुवंध्यापिपुत्रमाप्नु-  
यात् ॥ २१ ॥ मृतवत्सातुयानागीदुर्मगाऋतुव-  
र्जिता ॥ या सूतेकन्यकांवंध्यास्नानंतासांविधीयते २२ ॥

भाषा—ॐ्कुमारजननीये स्वाहा, यह दशाक्षर मंत्रको १०८ वार जपके औपरी सानी चाहिये ॥ अब लक्ष्मणाजड़ीके ग्रहण करनेको विधि लिखते हैं. उत्तरायण सूर्यप्रवृत्तहो जब लक्ष्मणा जड़ीको ग्रहण करना चाहिये. मासांतरमें और पक्षांतरमें ग्रहण करनी नहीं चाहिये ॥ १६ ॥ अब उसके लक्षण कहते हैं. वैदजनोंने जानना चाहिये कि, लक्ष्मणाके पक्षोंपर लालविंदु होती हैं और गोल पने होते हैं ॥ १७ ॥ और पुरुषके आकार

आत्मंमंत्रेणनेनमंत्रितम् ॥ ११ ॥ हुँ नारायणाय स्वाहा  
प्रणवादिन्वाक्षरः ॥ उत्तराभिमुखोभूत्वावक्ष्यमाणे-  
नसंखनेत ॥ १२ ॥ प्रणवोभुवने शानीयेन त्वां ख-  
न्तेततः ॥ ब्रह्मावेन तु रुद्रोऽथ के शव अपदंततः ॥  
॥ १३ ॥ तेन आहं खन यिष्यामि सिद्धिं देहि महौपधि ॥  
वक्ष्यमाणे न मंत्रेण चोद्धरेदौपधीं ब्रुधः ॥ १४ ॥ सर्वा-  
र्थ साधनी स्वाहा प्रणवादिन्वाक्षरः ॥ वक्ष्यमाणे न मंत्रे-  
ण प्राशनं कारयेत् सुधीः ॥ १५ ॥

भाषा—एक सौ आठ १०८ मंत्र पढ़कर औपधी देना चाहिये  
औपधी के यहण करनेमें शुभ मंत्रों को कहते हैं ॥ १० ॥ प्रथा  
औपधी के पास जाके उसकी जड़के सभी पचारों तरफ समान  
स्थल करलेना चाहिये फिर सैरबुक्ष के काष्ठ की एक खूंटी बन-  
वावे इस मन्त्र से मंत्रित करे. और पूजन करके नालाकी ढोरी  
चारै ॥ ११ ॥ अँ हुँ नारायणाय स्वाहा. इस नव ९ अक्षर  
मन्त्र से सदिर की लकड़ी मंत्रित करके उत्तरकी तरफ मुख करके  
अगाड़ी मंत्र कहेंगे उस मन्त्र से औपधी की जड़को सोदना चाहिये  
॥ १२ ॥ “अँ हीं येन त्वां स्वनतेव ग्रा येन रुद्रोऽथ के शवः ॥ तेन आहं  
खन यिष्यामि सिद्धिं देहि महौपधि” ॥ इस मन्त्र से उस औपधी की  
जमीन सोदना चाहिये और अगाड़ी मन्त्र कहेंगे उस मन्त्र से  
औपधी पाढ़नी चाहिये ॥ १३ ॥ १४ ॥ “अँ सर्वार्थ साधनी  
स्वाहा” इस नवाक्षर मंत्र को १०८ बार जपके औपधी पाड़-

परि ॥ २७ ॥ .. लिखेदलेषु नंद्यादीं श्रुतु पुष्टि विधि पूर्व-  
कर्म ॥ देवीं विनाय कंचैव कार्तवीर्यं महाबलम् ॥ २८ ॥  
इंद्रादि लोक पालां श्रद्धला एसुततो लिखेत् ॥ ततः शे-  
पदलेष्वेव स्थापयेत तत्र पार्थिवान् ॥ २९ ॥ दधिदु-  
ग्धं घृतं पुष्पं धूपं दीपं युगा निच ॥ कञ्जानां विधिना  
द्वात्पुष्पाणि विधानिच ॥ ३० ॥

भाषा—अब रुद्रस्नानकी विधि लिखते हैं, अष्टमीको या  
चतुर्दशीको या रजस्वलाका रज शुद्ध होने से चौथे दिन, अथवा  
रविवारको वह स्त्री व्रत धारण करे यह कर्म रज से शुद्ध होके करे  
यह समझ लेना ॥ २३ ॥ यह कर्म किस जगे करना चाहिये  
सो कहते हैं नदियों का संगम जहाँ हो वहाँ करना चाहिये, अथवा  
गंगाके तटपर या शिवालयमें या गोशालामें या गृहके आंग-  
णमें परंतु अलैधा हो रास्तामें नहीं हो इतनी जगह यह कर्म  
करना उचित है ॥ २४ ॥ स्नान करने के बास्ते प्रथम ऐसे  
ब्राह्मण को बुलावे कि जो शांत हो धर्मका जाननेवाला हो, सत्य  
बोलनेवाला हो और शास्त्रमें वेदमें निपुण हो और शिव के  
पूजनादिक कर्मोंमें निपुण हो ऐसे ब्राह्मण को स्नान करने के  
बास्ते योजना करे ॥ २५ ॥ फिर उस जगहमें चक्रोरम्डप करना  
चाहिये उत्तराभिमुख मंडप का होना चाहिये फिर गोवर से लिपा-  
के चंदन से पुष्पों से सुगंधित करना चाहिये ॥ २६ ॥ फिर उस  
मंडप के मध्यमें बालू की वेदी बनारे वेदी भर गोधूम के चूर्णमें  
सहस्रदल का कमल लिखना चाहिये । उस कमल के

पञ्चोपर हों, उसको लक्ष्मणाजडी कहते हैं, बुद्धिमान् पुरुष अपनी छायाको वचाके पुष्पनक्षत्रमें जडीको अहण करना चाहिये ॥ १८ ॥ “अँ नमो वलवर्द्धनी शुक्रवर्द्धनी पुत्रजननी स्वाहा” ॥ १९ ॥ इस वीस अक्षरके मंत्रसे मंत्रितकरके लक्ष्मणाजडीको खूब वारीक पीसके फंकीलेके दूध गौका ऊपरसे पीवे, या दूधमें पीसके आनके पीवे, रात्रिको दहना स्वर चलता हो उस बेलामें पीना चाहिये किसी पुस्तकमें ‘‘नसिपानं प्रदापयेत्” ऐसा पाठ है, वहां पर ऐसा अर्थ करना—नासिकासे पीनी चाहिये ॥ २० ॥ कतुलान किये पीछे स्त्री विधिपूर्वक लक्ष्मणाजडीसे सेवन फुरे तो वंध्याकेभी पुत्र उत्पन्न हो ॥ २१ ॥ जो स्त्री मृतवत्सा है अर्थात् जिसके बच्चे मर जाते हों और जो स्त्री रंजस्त्वला नहीं होती हो, और जिसके कन्या होती हों अथवा वंध्या हो उन स्त्रियोंको स्नान कराना चाहिये ॥ २२ ॥

अएम्यांवाचतुर्दश्यामुपवासपरायणा ॥ ऋतौशुद्धा  
चतुर्थेत्तिप्रतिसूर्यदिनेऽथवा ॥ २३ ॥ नद्यास्तु सं  
गमेकुर्यान्महानद्यांविरोपतः ॥ शिवालयेऽथवागो-  
ऐविविक्तेवागृहांगणे ॥ २४ ॥ आदूयादौद्विजंशा-  
तंधर्मज्ञंसत्यशीलिनम् ॥ स्नानार्थंशास्त्रवेदेचनि-  
पुणंरौद्रकर्मणि ॥ २५ ॥ ततस्तुभंडपंकुर्या-  
त्तुरसमुद्दमुखम् ॥ तच्चचंदनमालयेनगोमयेनानु-  
लेपितम् ॥ २६ ॥ तन्मध्येश्वेतरजसासंपूर्णपद्म-  
मालिखेत् ॥ भद्रयेवजस्यमहादेवंस्थापयेत्कर्णिको-

परि ॥ २७ ॥ लिखेहलेपुनंद्यादीश्वरुषविधिपूर्व-  
कम् ॥ देवींविनायकंचैवकार्तवीयंमहावलम् ॥ २८ ॥  
इद्रादिलोकपालांश्वदलाष्टसुततोलिखेत् ॥ ततः शे-  
पदलेष्वेवस्थापयेत्तत्रपार्थिवान् ॥ २९ ॥ दधिदु-  
ग्धंचृतंपुण्पंधूपंदीपंयुगानिच ॥ कञ्जानांविधिना  
दद्यात्पुण्पाणिविधानिच ॥ ३० ॥

भाषा—अब रुद्रस्नानकी विधि लिखते हैं, अष्टमीको या  
चतुर्दशीको या रजस्वलाका रज शुद्ध होनेसे चौथे दिन, अथवा  
रविवारको वह स्त्री वत धारणकरै यह कर्म रजसे शुद्ध होके करे  
यह समझ लेना ॥ २३ ॥ यह कर्म किस जगे करना चाहिये  
सो कहते हैं नदियाँका संमम जहां हो वहां करना चाहिये, अथवा  
गंगाके तटपर या शिशालयमें या गोशालामें या गृहके आंग-  
णमें परंतु अलैधा हो रास्तामें नहां हो इतनी जगह यह कर्म  
करना उचित है ॥ २४ ॥ स्नानकरानेके बास्ते प्रथम ऐसे  
ब्राह्मणको बुलावे कि जो शांत हो धर्मका जाननेवालाहो, सत्य  
बोलनेवालाहो और शास्त्रमें वेदमें निषुण हो और शिवके  
पूजनादिक कर्मांमि निषुणहो ऐसे ब्राह्मणको स्नान करानेके  
बास्ते योजनाकरे ॥ २५ ॥ फिर उस जगहमें चक्रोरमंडप कराना  
चाहिये उनरामिश्र मंडपका होना चाहिये फिर गोवरसे लिपा-  
के चंदनसे उप्पोंसे सुगंधित करना चाहिये ॥ २६ ॥ फिर उस  
मंडपके मध्यमें बालूकी वेदी बनाये वेदीपर गोधूमके चूर्णमें  
सहस्रदलका कमल लिखना चाहिये । उस कमलके बी-

पत्तोंपर हों, उसको लक्ष्मणाजडी कहते हैं, बुद्धिमान् पुरुष  
अपनी छायाको बचाके पुष्यनश्वत्रमें जडीको व्रहण करना  
चाहिये ॥ १८ ॥ “ॐ नमो वलवर्द्धनी शुकवर्द्धनी पुत्रजननी  
स्वाहा” ॥ १९ ॥ इस वीस अक्षरके मंत्रसे मंत्रितकरके लक्ष्म-  
णाजडीको खूब वारीक पीसके फंकीलेके दूध गौका ऊपरसे  
पीने, या दूधमें पीसके छानके पीवे, रात्रिको दहना स्वर चलवा  
हो उस बेलामें पीना चाहिये किसी पुस्तकमें ‘‘नसिधानं प्रदाप-  
येत्” ऐसा पाठ है, वहां पर ऐसा अर्थ करना—नासिकासे पीनी  
चाहिये ॥ २० ॥ कतुस्तान किये पीछे स्त्री विधिपूर्वक लक्ष्म-  
णाजडीसे सेवनरूपे तो वंध्याकेभी पुत्र उत्पन्न हो ॥ २१ ॥  
जो स्त्री मृतवत्साहै अर्थात् जिसके बच्चे मरजाते हों और जो  
स्त्री रजस्वला नहीं होती हो, और जिसके कन्या होतीहों  
अथवा वंध्या हो उन स्त्रियोंको स्वान कराना चाहिये ॥ २२ ॥

अष्टम्यांवाचतुर्दश्यामुपवासपरायणा ॥ ऋतोशुद्धा  
तुर्थेत्रिप्रतेष्वर्यदिनेऽथवा ॥ २३ ॥ नद्यास्तु सं  
गमेकुर्यान्महानद्याविरोपतः ॥ शिवालयेऽथवागो-  
ष्टेविविकेवागृहांगणे ॥ २४ ॥ आहूयादोद्विजंशां-  
तंधर्मज्ञंसत्यशीलिनम् ॥ स्नानार्थशास्त्रवेदेचनि-  
पुणंरोद्रकर्मणि ॥ २५ ॥ ततस्तु मंडपंकुर्या-  
त्तुरस्त्रमुद्दमुखम् ॥ तच्च चंदनमाल्येनगोमयेनानु-  
लेपितम् ॥ २६ ॥ तन्मध्येष्वेतरजसासंपूर्णपद्म-  
मालिखेत् ॥ भद्र्येवजस्यमहादेवंस्थापयेत्कर्णिको-

परि ॥ २७ ॥ . लिखेद्दलेषुनंद्यादींश्चतुर्षुविधिष्ठृव-  
कम् ॥ देवींविनायकंचैवकार्तवीयंमहाबलम् ॥२८॥  
इद्वादिलोकपालांश्चदलाप्टसुततोलिखेत् ॥ ततः शे-  
पदलेष्वेवस्थापयेत्तत्रपार्थिवान् ॥ २९ ॥ दधिदु-  
र्घंघृतंपुष्पंघूपंदीपंयुगानिच ॥ कञ्जानांविधिना  
दद्यात्पुष्पाणिविधिनिच ॥ ३० ॥

भाषा—अब सूक्ष्मानकी विधि लिखते हैं, अष्टमीको या  
चतुर्दशीको या रजस्वलाका रज शुद्ध होते से चौथे दिन, अथवा  
रविवारको वह स्त्री व्रत धारण करै यह कर्म रज से शुद्ध होके करे  
यह समझ लेना ॥ २३ ॥ यह कर्म किस जगे करना चाहिये  
सो कहते हैं नदियों का संमम जहां हो वहां करना चाहिये, अथवा  
गंगाके तट पर या शिरालयमें या गोशालामें या गृहके आंग-  
णमें परंतु अलैथा हो रास्तामें नहीं हो इतनी जगह यह कर्म  
करना उचित है ॥ २४ ॥ स्नान करनेके बासे प्रथम ऐसे  
त्राह्णणको उलादे कि जो शांत हो धर्मका जाननेवाला हो, सन्द्य-  
वोलनेवाला हो और शास्त्रमें वेदमें निषुण हो और शिवके  
पूजनादिक कर्मोंमें निषुण हो ऐसे त्राह्णणको स्नान करनेके  
बास्ते योजना करे ॥ २५ ॥ फिर उस जगहमें चक्रोरमंडप करना  
चाहिये उत्तराभिमुख मंडपका होना चाहिये फिर गोवरसे लिपा-  
के चंदनसे पुष्पोंसे सुगंधित करना चाहिये ॥ २६ ॥ फिर उस  
मंडपके मध्यमें बालूकी वेदी बनादे वेदीपर गोधूमके चूर्णमें  
चूदलका कमल लिखना चाहिये । उस कमलके बीचसे

पत्तोंपर हाँ, उसको लक्षणाजड़ी कहते हैं, वुद्धिमान् पुरुष  
अपनी छायाको बचाके पुष्पनश्चत्रमें जड़ीको व्रहण करना  
चाहिये ॥ १८ ॥ “ॐ नमो वलवर्द्धनी शुक्रवर्द्धनी पुत्रजननी  
स्वाहा” ॥ १९ ॥ इस वीस अक्षरके मंत्रसे मंत्रितकरके लक्षण  
णाजड़ीको खूब वारीक पीसके फंकीलेके दूध गौका ऊपरसे  
पीवे, या दूधमें पीसके छानके पीवे, रात्रिको दहना स्वर चलता  
हो उस बेलामें पीना चाहिये किसी पुस्तकमें ‘‘नसिपानं प्रदाप-  
येत्” ऐसा पाठ है, वहां पर ऐसा अर्थ करना—नासिकासे पीनी  
चाहिये ॥ २० ॥ कतुल्लान किये पीछे स्त्री विधिपूर्वक लक्षण-  
णाजड़ी से सेवन करे तो वंध्याकेभी पुत्र उत्पन्न हो ॥ २१ ॥  
जो स्त्री मृतवत्सा है अर्थात् जिसके बच्चे मरजाते हों और जो  
स्त्री रजस्वला नहीं होती हो, और जिसके कन्या होती हों  
अथवा वंध्या हो उन विशेषोंको स्नान कराना चाहिये ॥ २२ ॥

अष्टम्यांवाचतुर्दश्यामुपवासपरायणा ॥ ऋतोऽगुद्धा  
चतुर्थेन्त्रिप्रतेसूर्यदिनेऽथवा ॥ २३ ॥ नद्यास्तु सं  
गमेकुर्यान्महानद्यांविरोपतः ॥ शिवालयेऽथवागो-  
ऐविविक्तेवागृहांगणे ॥ २४ ॥ आहूयादोद्दिजंशा-  
तंधर्मज्ञंसत्यशीलिनम् ॥ सानाथंशास्त्रवेदेवनि-  
पुणंरोद्रकर्मणि ॥ २५ ॥ ततस्तु मंडपं कुर्यां-  
चतुरस्समुद्दमुखम् ॥ तच्च चंदनमाल्येन गोमयेनानु-  
लेपितम् ॥ २६ ॥ तन्मध्येश्वेतरजसा संपूर्णं पद्म-  
मालिखेत् ॥ भध्येवजस्य महादेवं स्थापयेत्कर्णिको-

तामर्कपत्रपुटाम्बुना ॥ चतुःपष्ठिङ्गचाचैवरुद्देष्यैका-  
दशेनतु ॥ ३८ ॥ वर्णानामितिङ्गचांतासांचतुष्पयेषि-  
संख्यानामेकादशत्वंपतितानामियंसंख्या ॥

भाषा—चारों कोनोंमें, यज्ञस्तंभ वहुत सुन्दर करने चाहिये  
और वहुत सुन्दर अग्निकुण्ड करना चाहिये उसमें कांसी फलके  
वर्वनसे अग्नि लाके स्थापनकरना चाहिये ॥ ३१ ॥ नमक घृतकी  
या घृत सहतकी आहुती देनी चाहिये और प्रथम घर्होंकी आहु  
ति देके पीछे हवन करना चाहिये ॥ ३२ ॥ और दूसरा अप-  
ना कार्यका करनेवाला ब्राह्मण होना चाहिये वह ब्राह्मण मृत्ति  
काका रुद्र बनाके सपेद चन्दनसे पूजन करे ॥ ३३ ॥ सफेद  
वस्त्र शिवपर चढावे और सपेद फूलोंकी माला चढावे. और रुद्र  
को सोनाके कंकणोंसे कर्णभूपणोंसे अँगूठीसे शोभित करे ॥  
॥ ३४ ॥ मंडपके समीप वैठके मत्सरता, क्रोध, लोभ, काम,  
भोग सबको दूर करके मन स्थिर कर रुद्रमंत्रका जपकरे उस  
ब्राह्मणने १ ३ रुद्री करना चाहिये १ १ रुद्री करके फिर रुद्रका जप  
करना चाहिये ॥ ३५ ॥ ऐसे मांगलिक कर्म करके दूसरा मंडप  
चढा सुन्दर करना चाहिये । उस मंडपके बीचमें उस स्त्रीकी सपेद  
फूलोंकी मालापहनाके और सपेद वस्त्रको पहनाके सपेद चंदनको  
लगाके सुखपूर्वक आसनके ऊपर बैठाना चाहिये और आचा-  
र्यको ऊंचा आसनके ऊपर बैठाना चाहिये ॥ ३६ ॥ ३७ ॥  
फिर आचार्य ब्राह्मण आकके पत्ताका दोना करके उसमें

शोंके जलसे उस स्त्रीको स्नान करावे ॥ ४२ ॥ जलसे परिपुरित हुए आठ ८ कलश पीपल वृक्षके पत्तोंसे आच्छादित हुये अष्ट दिशाओंमें स्थित हुये ऐसे जो अक्षत कलसे हैं उनसे स्त्रीको स्नान करना चाहिये ॥ ४३ ॥

स्नात्वैवस्त्रापकायैवद्याद्रांकांचनन्तथा ॥ हेतुरेवात्र  
निर्दिष्टोदक्षिणागौः पयस्त्वनी ४४ ॥ ब्राह्मणानप्यथा-  
न्यांश्चस्वशत्त्यासाधुपूजयेत् ॥ गोवस्त्रकांचनादी-  
निदत्त्वासर्वान्क्षमापयेत् ॥ ४५ ॥ कृतेनानेनस्ना-  
नेननरोवानायिकापिवा ॥ सुभगाकांतिसंयुक्ता वहु-  
पुत्राचजायते ॥ ४६ ॥ सर्वेष्वपि हिमासेपुत्राह्मणानु-  
मतेशुभम् ॥ तस्मादवश्यं कर्तव्यं पुत्रं स्त्रीमुखमृच्छ-  
ति ॥ ४७ ॥ यास्नानमाचरति रुद्रमिति प्रसिद्धं अद्वा-  
न्वितादिजवरानुमतेनतांगी ॥ दोपान्निहत्यसकला-  
न्स्वशरीरभाजान्भर्तुः प्रिया भवति पुत्रजनिव्यसास्त्री ४८  
इति श्रीकल्याणवैयक्ते वालतंत्रे गर्भाधानकाले रुद्र-  
स्नानकथनं नाम चतुर्थः पठलः ॥ ४ ॥

भाषा—ऐसे विधिपूर्वक स्नानकरके वह स्त्री स्नान  
बाले ब्राह्मणको गौका दान देवे और छुर्णका दान दे-  
इसमें यह हेतु है, दक्षिणा और दूधवाली  
ब्राह्मणोंको साधुवोंको अत्यागताओंको  
पूजन करना चाहिये और अपनी  
सुवर्ण, उनके देके प्रसन्न करें और ..

भरके ३४ कचाका पाठ करके रुद्री महिमन् पठंगका पाठ १३  
वार पठन करके उस द्वीको अभिषेक करे ॥ ३८ ॥

शतानिसतपर्णानांचतुर्भिरधिकानिच ॥ अच्छिद्राणि  
चमंत्रेणस्नानायेविनिवेशयेत् ॥ ३९ ॥ अथस्थाना-  
द्वजस्थानाद्रुमीकात्संगमाद्वदात् ॥ वेश्यांगणाच्च-  
तुष्पयाद्वोषादानीयवैमृदम् ॥ सर्वोपधीत्रिंचनाच्च  
नदीतीयोदिकानिच ॥ ४० ॥ एतत्संक्षिप्यकलशे  
शिवसंज्ञेषुपूजिते ॥ आपादतलकेशांतंकुशिदेशविशे  
षतः ॥ ४१ ॥ सर्वांगंलेपयेद्वत्यासुशीलाकाचिदंगना  
रुद्रमंत्रंजपन्विप्रःस्नापयेत्कलशेत्वताम् ॥ ४२ ॥  
तोषपूर्णाष्टकलशेरथत्थदलपूरितेः ॥ सर्वतोदिविस्थ-  
तेःपञ्चात्स्नापयेत्कलशाक्षतेः ॥ ४३ ॥

भाषा—शातनके पत्र १०४ विगर्छिद्रके लेके रुद्रमंत्रपठके  
स्नान करानेके कलशमें घालदेने चाहिये ॥ ३९ ॥ अथशा-  
लासे, हाथी खानासे, सर्पकी बैबईसे, नदियोंके संगमसे, सरोवरसे  
वेश्याके आंगनसे, चौराहासे, गोशालासे, मृत्तिका व्रहण करे,  
और सर्वोपधी गोरोचन, और नदीका या तीर्यका जल यह सब  
द्रव्य पुजन किया हुआ शिवसंतक कलशमें घालदे, फिर वह  
स्त्री चरणसे केराँतक उस जल मृत्तिका औपविचोंसे समूर्णे  
अंगको लेपन करे. और कुशिदेशको विरोपताकरके लेपन  
करे ॥ ४० ॥ ४१ ॥ सुशीलको धारण करके भक्तिसहित  
अंगको लेपन करे पीछे ब्राह्मण रुद्रका मंत्र जपता हुवा कल-

णालोडचततिपञ्चेत् ॥ एवंनपुततेगर्भःशूलंचैवविन-  
श्यति ॥ ७ ॥ मंजिष्ठंचंद्रंकुष्ठंतगरंसमभागिकम् ॥  
पिष्ठाक्षीरेणसंपेयमौपधंसमुदाहृतम् ॥ ८ ॥

इति प्रथममासे गर्भिणीगर्भरक्षा ॥ ८ ॥

भाषा—अब गर्भमें स्थित हुए बालककी रक्षाके वास्ते बलि कहते हैं और अनेक रकमकी औपधी मन्त्र जाप भी कहते हैं ॥ १ ॥ गर्भिणी स्त्रीकी गर्भकी रक्षाके वास्ते पहिले मासमें प्रजापतिको लक्ष्य करके अर्थात् ब्रह्माकी मूर्ति मृत्तिकाकी वनाके मृत्तिकाके पात्रमें स्थित करके उसके अगाढ़ी सर्वद्रव्यधरके मंत्रका जाननेवाला पुरुष २१ बार मंत्र पढ़के बलि देवे ॥ २ ॥ सपेद वस्त्र, खीर, गौका दूध, घृत, सपेद छत्र, सपेद चंदन, रत्नकी जड़ी अङ्गूठी ॥ ३ ॥ जलका कलश उसमें सोना डालदेना यत्किञ्चित् धूप, दीपक, यह सर्ववस्तु एकं पात्रमें रखके २१ बार मंत्र पढ़क जहाँ गौ दोहीजाती है उस स्थानमें रख आवे ॥ ४ ॥ यह पांचवाँ श्लोक है यह सर्व मंत्र है इसीको २१ बार जापना चाहिये ॥ ५ ॥ और जो पहिले महीनामें गर्भमें कुछ वेदना हो तब नीलोफर, कँवल, ककड़ी सिंघाड़ा, कसेठ ॥ ६ ॥ इनको ठंडे जलमें पीसके गौके दूधमें छानके पीवे ऐसे करनेसे गर्भ गिरे नहीं और शूल जाती रहे ॥ ७ ॥ अन्य औपधी लिखते हैं, मँजीठ, लालचन्दन, कूट, तगर; यह सब समानलेके दूधमें पीसके दूधहीमें छानके पीवे यह औपधी भी गर्भकी वेदनाको दूर करती है ॥ ८ ॥

यह पहलेमासका बलिविधान है ॥ १ ॥

इस स्नानके करनेसे पुरुष या स्त्री अच्छी ऐश्वर्यवाली कांति-  
वाली बहुपुत्रवाली होजातीहै ॥ ४६ ॥ तब महीनोंमें ब्राह्मण-  
के अनुमत होके यह स्नान कर्म शुभकारीहै इसवास्ते अवश्य करना चाहिये इससे स्त्री पुत्रको सुख प्राप्त होजाता है ॥  
॥ ४७ ॥ जो स्त्री इस प्रसिद्ध रुद्रस्नानको थङ्गा करके ब्राह्मण  
के अनुमत होके करतीहै वह स्त्री शरीरके संपूर्ण दोपाँको नष्ट  
करके पुत्रकी उत्पत्ति करतीहै जिससे भर्ताकी बड़ी प्यारी  
होजातीहै ॥ ४८ ॥

इति श्रीपीटतंत्रनंदकुमारवैद्यकृतबालतंत्रभाषार्थीकार्यां  
चतुर्थः पठलः ॥ ४ ॥

गर्भस्थितस्यवालस्यरक्षार्थकथ्यतेवलिः ॥ औप-  
वानिविचित्राणिकथ्यतेमंत्रजापकम् ॥ १ ॥ गर्भि-  
णीगर्भरक्षार्थमासेतुप्रथमेवलिः ॥ प्रजापतिंसमुद्दिश्य  
देयोमन्त्रेणमन्त्रिणा ॥ २ ॥ श्वेतवस्त्रंपायसंचगव्यंक्षीरं  
तथाघृतम् ॥ श्वेतच्छब्दंचंदनंचसरलंचांगुलीयकम्  
॥ ३ ॥ पूर्णकुंभोहेमयुक्तोधूपदीपावयंवलिः ॥  
स्थानेगवांदोहनस्यनिःक्षेत्रव्यःप्रशांतये ॥ ४ ॥  
तत्रमंत्रः ॥ एह्येहिभगवन्त्रक्षमन्प्रजाकर्तःप्रजापते ॥  
वालायागर्भरक्षार्थरक्षरक्षकुमारकम् ॥ ५ ॥ यदि च  
प्रथमेमासिगर्भेभवतिवेदना ॥ नीलोत्पलंसनालंच  
शुंगारंकंकसेरुकम् ॥ ६ ॥ शीततोयेनसंपिण्डाक्षीरे-

अश्वशालामें या गोशालामें रख आवे और उम् जगेभी मन्त्र पढ़ना चाहिये ॥ १० ॥ ११ ॥ यह वारंहवाँ श्लोकहै यह सर्व मंत्र है इसी को २१ बार जपके गर्भवती द्वीके ऊपर वारके बलि देना चाहिये ॥ १२ ॥ और जो दूसरे महीनेमें गर्भमें कुछ वेदना हो तब तगर, केसर, वेलगिरी, कपूर ॥ १३ ॥ यह सर्व समान लेके वकरीके दूधमें पीसे और वकरीके दूधमें छानके पीवे ऐसा करनेसे गर्भपात नहीं हो और शूल जाता रहे ॥ १४ ॥ अन्योपायः ॥ सालमिसरी, नीलोफर, कसेह; अदरख, यह सब समान लेके जलमें पीसके गौके दूधमें छानके पीवे ॥ १५ ॥ अन्योपायः ॥ सिंचाडा, कशेह, जीरा सफेद, बेलपत्र; छुहारा यह सर्व समान लेके ठंडेपानीमें पीसके दूधमें छानके पीवे ॥ १६ ॥

यह दूसरे महीनेकी गर्भरक्षाविधि है ॥ २ ॥

गर्भिणीगर्भरक्षार्थं बलिमासेतृतीयके ॥ रुद्रानेकाद-  
शोद्दिश्यदेयो मंत्रेण मंत्रिणा ॥ १७ ॥ वृत्तमन्त्रं च  
लाजाश्वध्वजः श्वेतोथचंदनम् ॥ श्वेतपुष्पाणिवस्त्रं  
च श्वेतं धूपं प्रदापयेत् ॥ १८ ॥ श्वेतपंकजयुक्तश्व  
पूर्णकुंभः सकांचनः ॥ इत्येवं प्रथमस्थाने ईशान्यां  
दिशिनिक्षिपेत् ॥ १९ ॥ अयं मंत्रः ॥ महादेवः  
शिवो रुद्रः शंकरो नीललोहितः ॥ ईशानो विजयो भी  
मोदेव देवो जयो द्वः ॥ २० ॥ कपालीश श्वक व्यंते  
तथैकादशमूर्तयः ॥ रुद्राएकादशमोक्ताः प्रणह्नीत

गर्भिणीगर्भरक्षार्थद्वितीयेमासिवेवलिः ॥ समुदि-  
 श्याऽश्विनौवैद्योदेयोमंत्रेणमंत्रिणा ॥ १ ॥ दध्यन्तपा-  
 यसंलाजापिण्याकंकुंसुमानिच ॥ गंधश्वधूपदीपीच  
 वस्त्रांपूर्णघटस्तथा ॥ १० ॥ हेम्नायुतोऽश्वशालायाः  
 समीपेनिःक्षिपेद्वलिम् ॥ गोदोहस्थानकेन्यस्यमंत्र-  
 मेतंपदेत्सुधीः ॥ ११ ॥ मंत्रः ॥ भगवंतौप्रभावं-  
 तौप्रगृह्णीतंवलिंत्विम् ॥ सुखपौदेवभिपजौरक्षतंग-  
 र्भिणीश्वाम् ॥ १२ ॥ यदिचद्वितीयेमासिगर्भंभ-  
 वतिवेदना ॥ तगरुकुंकुमविलवक्षूरेणसमन्वितम् ॥  
 ॥ १३ ॥ अजाक्षीरेणसंपिद्वाक्षीरेणालोड्यतत्पि-  
 वेत् ॥ एवंनपततेर्गर्भःशूलंचैवविनश्यति ॥ १४ ॥  
 शालूकमुत्पलंनीलिंकशेरु शृंगवेरकम् ॥ समंपि-  
 द्वोदकेनैवक्षीरेणसहसंपिवेत् ॥ १५ ॥ शृंगाटकं  
 कशेरुंचजीरकविलवपत्रकम् ॥ खर्जूरंशीततोयेन  
 पिद्वाक्षीरेणसंपिवेत् ॥ १६ ॥

इति द्वितीयमासे गर्भरक्षा ॥ २ ॥

भाषा—गर्भिणी स्त्रीके गर्भकी रक्षाके बास्ते इत्तरे मात्र  
 अश्विनीकुमार देवताके वैयोंके प्रति मंत्रका जानेवाला पुरु  
 मंत्रके वलि दे ॥ १ ॥ दही, भाव, खीर, धानकी सील, तिल  
 सही, फूल, इतरका फौया, धूप, दीपक, वस्त्र, जलका भरा व  
 उसमें यत्किंचित् सौना बाल देना चाहिये ॥ यह स  
 वस्तु एक मृत्तिकाके पात्रमें एक जगे रखके मंत्र २१ वार पढ़

और सस, संपदचंदन, नागरमोथा, पश्चास्व, कंवलककड़ी, शीतल  
जलमें पीनके गौके दूधमें छानके पीवे तो गर्भपात नहींहो ॥

॥ २५ ॥ यह तीसरे महीनेकी गर्भरक्षाविधि है ॥ ३ ॥

गर्भिणीगर्भरक्षाथं लिम्नसेचतुर्थके ॥ उद्दिश्य  
द्वादशादित्यानेशान्यां दिशिवत्ततः ॥ २६ ॥  
आरक्तान्नं गुडात्रं चरक्तगंधध्वजेतया ॥ रक्तपुष्पं  
धूपदीपोरक्तवस्त्रञ्चकांचनम् ॥ २७ ॥ कलशः  
सलिलापूर्णः क्षिपेच्चैव जलाशये ॥ वक्ष्यमाणेन मंत्रेण  
मंत्रिणेति समन्वितः ॥ २८ ॥ मंत्रः ॥ यमो वै वस्त्रत-  
स्त्रवष्टावसु श्वसविताचृगः ॥ २९ ॥ त्रिष्णु स्तथा मधुर्मिंशः  
खगः सूर्यो थता पनः ॥ २३ ॥ आदित्याद्वादशप्रोक्ताः  
प्रगृहीत वर्लित्विमम् ॥ शूर्यं वै तेजसां वृद्धयानि त्यं रक्षत  
गर्भिणीम् ॥ ३० ॥ शृंगाटं कदलीपञ्चद्राक्षं च दाडिमो-  
द्वम् ॥ वीजं तु कदलीकं दर्शीत तोयेन प्रेपयेत् ॥ ३१ ॥  
अजाक्षीरण संलोब्य पित्रेनार्ची सुखासये ॥ उशीरं कद-  
ली मूलं तथा वै पद्मनालकम् ॥ ३२ ॥ शीततोयेन सं-  
पिष्य छागीक्षीरण संपित्रेन ॥ एवं न पतते गर्भः शूलं  
चैव विनश्यति ॥ ३३ ॥

इति चतुर्थं मासि गर्भरक्षा ॥ ४ ॥

भाषा—गर्भिणी छाके गर्भकी रक्षाके वास्ते चौथे महीनेमें  
द्वादश आदित्योंके प्रति ऐशानी दिशामें जतनसे बलिदान देवे  
॥ २६ ॥ मसूरकी दाल, गुड, चावल, लालचंदन, लालध्वजा

वलित्विमम् ॥ २१ ॥ युध्माकंतेजसांवृद्धचार्गर्भ-  
रक्षतुगर्भीणीम् ॥ यूयंमंत्राववोयाहिनित्यरक्षतगर्भी-  
णीम् ॥ २२ ॥ अथचेत्वितयेमासिगमेभवतिवेदना ॥  
पद्मकंचंदनोशीरंतगरंसमभागिकम् ॥ २३ ॥  
शीततोयेनसंपिद्वाअजाक्षीरेणपाययेत् ॥ एवंनपतते  
गर्भः शूलंचैवविनश्यति ॥ २४ ॥ उशीरंचंदनंमु-  
स्तापद्मकंपद्मनालकम् ॥ शीततोयेनसंपिष्यक्षी-  
रेणालोड्यततिपवेत् ॥ २५ ॥

इति तृतीये माति गर्भरक्षा ॥ ३ ॥

भापा—गर्भवती स्त्रीके गर्भकी रक्षाके बान्ते तीसरे मही-  
नेके विषय एकादश रुद्रांके प्रति मंत्रका जाननेवाला वलिको  
मंत्रितकरकेदे ॥ १७ ॥ घृत, चावल, धानकी खील, सपेद धजा, स-  
पेद चंदन, सपेद, पुष्पसपेदबन्ध, धूप ॥ १८ ॥ सपेद कमलके फूल  
और यत्किंचिद् सोना, जलका भराहुआ कलशामें वालके यह  
सब वस्तु एक सहनकमें रखके २१ बार मन्त्र पढ़के ७ बार स्त्री  
के ऊपर धागके गोशालामें ईशान दिशाकी तरफ धर आवे ॥ १९ ॥  
बीसका श्लोक और इक्कीसका श्लोक और बाईसका श्लोक इन  
तीन श्लोकोंका मंत्र है इसको २१ बार पढाना चाहिये ॥ २० ॥  
॥ २१ ॥ २२ ॥ और जो तीसरे महीनेमें गर्भमें वेदना हो  
तब पदमास, सपेदचंदन, सस, तगर, यह सब समान लेके  
॥ २३ ॥ ठंडे पानीमें पीसके बकरीकेदूधमें छानके पीवे ऐसे  
करनेमें गर्भपात नहींहो और शूल शमन होजावे ॥ २४ ॥

लाजान्वसुपञ्चतिलपिष्टकम् ॥३८॥ इक्षवस्तद्रसञ्चै- ;  
वमाध्वीयैषीगुडोद्भवा ॥ येषुयानिनिपिद्वानितानि  
त्यजवालिहरेत् ॥ ३९ ॥ मत्स्यास्तत्रसमानीयसह-  
कारतलेक्षिपेत् ॥ अथवान्यस्यवृक्षस्यमूलेमंत्रेण  
मंत्रवित् ॥ ४० ॥ मंत्रः ॥ एकदंतोविकापुत्रद्विनो-  
त्रोगणनायकः ॥ रक्तांवरधरः श्रीमात्ररक्तमाल्यानु-  
लेपनः ॥ ४१ ॥ विनायकोगणाध्यक्षःशिवपुत्रोमहा-  
वलः ॥ प्रगृह्णीप्यवलिचेमंसापत्यांरक्षगर्भिणीम् ॥ ४२ ॥  
वलिप्रदायकंमत्यमायुपाचायिवद्य ॥ अलक्ष्मीं  
वामयंपापंश्रहंविन्दविनाशय ॥ ४३ ॥ वक्तुंडमहा-  
वीर्यमहाभागमहावल ॥ शिरसात्वामहंवंदेसापत्यां  
रक्षगर्भिणीम् ॥ ४४ ॥ अथचेत्पञ्चमेमासिगर्भेभव-  
तिवेदना ॥ नीलोत्पलंमृणालंचपद्मकेसरसंयुतम् ४५  
अजाक्षीरेणसंपिष्टाक्षीरेणालोड्यतत्पिवेत् ॥ एवंनप-  
ततेर्गर्भःशूलंचैवविनश्यति ॥ ४६ ॥ नीलोत्पल-  
स्यमूलंतुकाकमाचीसनालकम् ॥ शीततोयेनसं-  
पिष्यक्षीरेणालोड्यतत्पिवेत् ॥ ४७ ॥ पुनर्नवासर्प-  
पाश्वदरीदीजमाहरेत् ॥ शीततोयेनसंपिष्यअजा-  
क्षीरेणसंपिवेत् ॥ ४८ ॥

इति पंचममातर्गर्भरक्षा ॥ ५ ॥

भाषा—गर्भिणी क्षीके गर्भकी रक्षाके वास्ते पांचवें महीनेहें  
गणेशके प्रति चिन्तको रोकके पुरुष वलि दे ॥ ३६ ॥ चकोरस्थल

लालफूल, शूप, दीपक, लालकपड़ा, यत्किञ्चित् सुवर्ण कलशामें  
गेरके जलसे पूर्णकरके यह सर्व वस्तु एक मिट्टीकी सहनकर्में  
खके अगाड़ी जो मंत्रकहेंगे उस मंत्रको २१ वार जपके नदीके  
षा गालावके किनारे ईशान दिशाकी तरफ धर आवे ॥ २७ ॥  
॥ २८ ॥ उनतीसका श्लोक और तीसका श्लोक यह दोनोंका  
मंत्र है इसको २१ वार जपके ७ वार खीके ऊपर वारके बलि-  
देना कहिये ॥ २९ ॥ ३० ॥ और चौथे महीनेमें सीके वे-  
दनाहो तब सिंधाडा, केलाके पत्ते, दास, अनारकी कली, केला  
का कंद यह वस्तु शीतल जलसे पीसे ॥ ३१ ॥ फिर बकरीके  
दूधमें छानके पीनेसे वेदनां नष्टहो सुखकी प्राप्ति हो ॥ अन्योपायः  
वस, फेलाकी जड, कमलककड़ी ॥ ३२ ॥ शीतल जलसे  
यह द्रव्य तीसक बकरीके दूधमें छानके पीसे, ऐसा करनेसे गर्भ  
शात नहीं हो शूल नष्ट होजावे ॥ ३३ ॥

यह चौथे महीनेके गर्भरक्षाविधि है ॥ ४ ॥

गर्भिणीगर्भरक्षार्थं पञ्चमेमासिदैवलिः ॥ विनायकं  
समुद्दिश्य देयः संयतचेतसा ॥ ३४ ॥ विनायकं गो-  
मयेन्द्रकुर्यात्पिण्डेन वापुनः ॥ चतुरस्त्रेणुभेलिसेस्था-  
पयेत्तंगणाधिपम् ॥ ३५ ॥ अभ्यर्च्यगंधपुष्पाद्यैर्व-  
लितपुरतः क्षिपेत् ॥ अन्नं पक्तं थाऽपकं नां संपक्तम-  
यक्तकम् ॥ ३६ ॥ पावसंमधुकं द्राक्षागुडक्षीरफलां-  
निच ॥ कदलीफलपिण्डालमधूकानिचमूलकम् ३७  
पुरुषं नालिके रंचकं दमूला निसर्पपा: ॥ सर्ववान्यानि

गर्भिणीगर्भरक्षार्थपष्टेमासितथावलिः ॥ वस्त्रनएस-  
मुद्दिश्यदेवोमंत्रेणमंत्रिणा ॥ ४९ ॥ धृतान्नंचहरि-  
द्रान्नंतंडुलांश्चैवपायसम् ॥ पीतवर्णप्रसूनानितथा  
नीलोत्पलानिच ॥ ५० ॥ सकांचनंपूर्णकुंभंसद्यो  
नद्यास्तटेक्षिपेत् ॥ वक्ष्यमाणेनमंत्रेणसावधानोभवे-  
त्सुधीः ॥ ५१ ॥ मंत्रः ॥ प्रवासः पावनः सौम्यः  
प्रत्यूपः पावकोऽनलः ॥ धरोध्रुवद्वित्तिहेतेवसवोष्टोप्र-  
कीर्तिताः ॥ प्रगृह्णतुवलिंचेमंनित्यंरक्षंतुगर्भिणीम् ॥  
॥ ५२ ॥ पष्टेमासियदास्त्रीणांगर्भेभवतिवेदना ॥  
तदावचैलामृद्गीकाचोत्पलंकेसरंपिवेत् ॥ ५३ ॥  
पिष्पलीपिष्पलीमूलमुत्पलंतुसकेसरम् ॥ शीततो-  
येनसंपिष्ठाक्षीरेणालोडयतत्पिवेत् ॥ ५४ ॥ रामठं  
निवपत्रंचमहिपीशृंगसर्पणः ॥ कपिविष्टाधूपकंतुद-  
द्यादेपांमहोत्तमम् ॥ ५५ ॥ गजपिष्पलिकंचैवतथा  
नागरमुस्तकम् ॥ भाङ्गीचजीरकेद्वैचपद्माक्षरक्त-  
चंदनम् ॥ ५६ ॥ वचाछागलदुग्धेनपिवेन्नारीसु-  
खातये ॥ एवंनपततेगर्भःशूलंचैवविनश्यति ॥ ५७ ॥

इति पष्टमासगर्भरक्षा ॥ ६ ॥

भाषा—गर्भिणी स्त्रीके गर्भकी रक्षाके बास्ते उठे महीनेमें  
अष्टवस्तुओंके प्रति मंत्रका जाननेवाला पुहुप घलिको मंत्रित  
करके देवे ॥ ४९ ॥ वृतके चूमांकी पिंडी, चणाकी दाल,  
चावल, सीर, पीलेरंगके फल, नीले कमलके फूल ॥ ५० ॥ जलका

कीपके उसपे गोवरका या आटाका गणेश बनाके स्थापन कर देना चाहिये ॥ ३५ ॥ फिर उनका गंधपुज्जादिकोंसे पूजन करके उनके अगाड़ी बृलिदान दे ॥ पके हुये मूँगभात और कच्छा मूँगभात पकामांस और कच्छामांस ॥ ३६ ॥ खीर, सहत, दास, गुड, दूध, फल, केलाकीजड़, पिंडालकंद, नहुवा, मूली ॥ ३७ ॥ फालसा, नारियल, कंदमूलफल, सिरसम, सर्वधान्य, धानकी खील दाल, तिल, पीठी ॥ ३८ ॥ इसका रस, मदिरा यह समस्त द्रव्य एकपात्रमें स्थित करना चाहिये जो वस्तु इनमें निषेध हैं वह त्यागकर देना चाहिये ॥ ३९ ॥ और मच्छीभी बलिमें तामिल करनी चाहिये, यह बलि २१ बार बंत्रसे मंत्रित करके ७ बार सीपर वारके गणेशसहित आव्रवृक्षके तले रख आवे आग्रवृक्षका अभाव हो तब और वृक्षके तले रख आवे ॥ ४० ॥ इकत्तालीसके श्लोकसे, लेके चैंबालीसके श्लोकपर्यंत मंत्र है इसीको जपना चाहिये ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ और जो पांचवें महीनेमें गर्भमें पीड़ा हो तब नीलोफर, कमल-ककड़ी, कृमलगड़ा, नागकेशर यह औपधी बकरीके दूधमें पीसके छानके पीवे ऐसा करनेसे गर्भपात नहींहो और शूल निकृत होजावे ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ अन्योपायः ॥ नीककमलकी जड़, काकमाची, कमलककड़ी यह औपधी ठण्डे जलसे पीसके दूधमें छानके पीवे गर्भपातोपद्रव शांत हो ॥ ४७ ॥ अन्योपायः ॥ सांठीकी जड़, सिरसम, वेरकी गोरी यह दत्तार्त्त्व शीतलजलसे पीसके बकरीके दूधमें छानके पीनेसे गर्भपातोपद्रव शांत होजावे ॥ ४८ ॥ यह पांचवें महीनेकी गर्भरक्षाविधि है ॥ ५ ॥

चेमंसापत्यांरक्षगर्भिणीम् ॥ ६९ ॥ कपित्थंचप्रवा-  
लंचलाजाः शक्यवान्विताः ॥ पिष्टादुग्धेनदातव्यं  
गर्भिणीसुखहेतवे ॥ ६० ॥ कपित्थंशालुकंलाजाः  
शकंचतोयपेपितम् ॥ क्षीरेणालोडचदातव्यंगर्भि-  
णीसुखहेतवे ॥ ६१ ॥ अथत्थवटमूलेचभृंगराजस्त-  
थेवच ॥ सूर्यमुख्याः पुनर्नव्यामूलं चरक्तचन्दन  
म् ॥ ६२ ॥ अजादुग्धेन संपिप्यछागीदुग्धेन संपि-  
वेत् ॥ एवं नपतते गर्भस्तस्याः शूलं विनश्यति ॥ ६३ ॥

इति सप्तमे मासि गर्भरक्षा ॥ ७ ॥

भाषा—गर्भिणी द्वीके गर्भकी रक्षाके वास्ते सप्तम महीनेमें स्वामिकातिकृके प्रति बलि देवे, जो बलि छठेमहीनेमें जिस विधिसे दर्द जातोहै उसी विधिसे देनी चाहिये. परंतु मंत्र यह जपना चाहिये ॥ ५८ ॥ यह जो उनसठका श्लोकहै यह सप्तम मंत्रहै इसको २१ बार पढ़के ७ सातबार बारकरके जलके किनारे पुरुष धर आवे ॥ ५९ ॥ और जो सातवें महीनेमें गर्भमें कुछ पीड़ा हो तो कैथकी गीरी, मूँगाकी शाख, धानकी सील, इंद्रजौ यह सर्व समानलेके पीसके गौके दूधसे पीनेसे गर्भवती द्वीको सुखप्राप्तिहो शूल शांतहो ॥ ६० ॥ अन्योपायः ॥ कैथवृक्षके फलकी गीरी, सालमधिश्ची, धानकी सील; इंद्रजौ यह सर्व समान लेके जलमें पीसकै गौके दूधमें छानके पीनेसे गर्भिणी द्वीको सुखप्राप्तिहोवे ॥ ६१ ॥ अन्योपायः ॥ पीपलकी जड, वडकी जड, जलभृंगरा,

कलश उसमें यात्किचित् सोना डालदेना चाहिये, यह सर्व वस्तु एक पात्रमें रखके मंत्रसे मंत्रित करके सावधान हाँके नदीके किनारे या जलके किनारे बलिको रख आवे ॥ ५१ ॥ और जो यह वावनका श्लोकहै यह डेढ़ श्लोकका मंत्र है इसीको २ १ बार जपके ७ बार वारके बलिको दे आवे ॥ ५२ ॥ और छठे महीनेमें गर्भमें पीड़ा हो तो वच, इलायची, छोटी मुनक्का, नीलोफर, नागकेसर, इनको दूधमें पीस छानके पीवे ॥ ५३ ॥ अन्योपायः ॥ पीपल, पीपलामूल, कमलका फूल, कमलकी केसर यह औपधी रीतल जलमें पीसके बकरीके दूधमें छानके पीवे तो गर्भपीड़ा मिटे ॥ ५४ ॥ और धूप लिखतेहैं—हींग, नीमके पत्ते, भैसके सींगका छिलका, शिरसम, बंदरकी बीट इनको समान लेके गर्भवतीके शरीरको और योनिको धूप देवे तो पेटकी शूल मिटे यह धूप बहुत उत्तमहै ॥ ५५ ॥ अन्योपायः ॥ गजपीपल, नागरमोथा, भारंगी, सफेद जीरा, स्थाहजीरा, पञ्चाख, लालचंदन ॥ ५६ ॥ वच यह औपधी सर्व समान लेके पीसके बकरीके दूधमें छानके सुखकी प्राप्तिके बास्ते स्त्री पीवे ऐसा करनेसे गर्भपात नहींहो और शूल शमन होजावे ॥ ५७ ॥

यह छठे महीनेकी गर्भरक्षाविधि है ॥ ६ ॥

गर्भिणीगर्भरक्षार्थसप्तमेमासिवेश्लिः ॥ स्कंदमुदि-  
श्यदातव्यःपूर्वोक्तविधिनेवहि ॥ ५८ ॥ मंत्रः ॥ स्क-  
दपष्ठुखदेवेशशिवप्रीतिविवर्द्धन ॥ प्रगृह्णीप्यवचलि

भाषा—गर्भिणी स्त्रीके गर्भकी रक्षाके बास्ते आठवें महीनेमें  
दुर्गादिवीके प्रति वलि देना चाहिये जिससे गर्भिणीकों सुख प्राप्ति  
हो और रीति करनेसे आनंद प्राप्ति न हो ॥ ६४ ॥ खीर, खांड,  
धानकी खील, तृणधान्यकाभात, वृत, पोली, सौचड़ी, भैंसका दही,  
मुली ॥ ६५ ॥ उडदके बाकले, चौले, किसी रकमका कंद,  
फाले रंगके फूल, निलोफर, तिल, जलका कलश उसमें यत्किं-  
चित् सोना धाल देना चाहिये ॥ ६६ ॥ यह सब एक  
पात्रमें रखके मन्त्रसे मंत्रित करके नदीके किनारे या जलके  
किनारे वलिको रख आवे ॥ ६७ ॥ और अडसठका श्लोक  
उन्हन्तरका श्लोक सन्तरका श्लोक यह तीन श्लोकोंका मंत्र है  
इसको २१ बार जपके ७सातवार स्त्रीपर वारके वलिको धर  
आवे ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ और जो आठवें महीनेमें  
गर्भमें पीड़ा उत्पन्न हो तो पझास, गजपीपल, कमलका फूल,  
कमलगट्ठाकी गीरी, धनियां, यह सर्व द्वार्द्द समान लेके शीतल  
जलसे पीसके गायके दृधर्में छानके पीनेसे गर्भका उपद्रव शांत  
होवे ॥ ७१ ॥ अन्योपायः ॥ सांठीकी जड़, सिंचाड़, वेलपत्र,  
करोल, अजुनबृक्षका फल, पझास, लालचंदन यह सर्व समान  
लेके कूटके कपडछान करके वकरीके दृधर्के संग फक्की मासे द  
नित्य दिन ७ साव लेनेसे गर्भपात नहीं हो और शूल शांत हो  
जावे ॥ ७२ ॥ ७३ ॥

यह आठवें महीनेकी गर्भरक्षाविधि कही है ॥ ८ ॥

गर्भिणीगर्भरक्षाधर्मसेपिनवमेवलिः ॥ देवानांमातु-

खीकी जड़, साँठाकी जड़, लालचंदन ॥ ६२ ॥ यह औपधी  
सर्व समान लेके वकरीके दूधमें पीसके वकरीके दूधमें छानके  
गर्भिणी पोवे ऐसे करनेसे गर्भपात नहींहो और शूल शमनहो  
जावे ॥ ६३ ॥ यह सातवें महीनेकी गर्भरक्षाविधि है ॥ ७ ॥

गर्भिणीगर्भरक्षार्थवलिमासेपिचाष्टमे ॥ दुर्गामुदिश्य  
दातव्यःसुखंभवतिनान्यथा ॥ ६४ ॥ पांयसंशर्क-  
रालाजास्तृणधान्योदनोघृतम् ॥ पूषिकाकृशराचैव  
माहिपंदधिमूलकम् ॥ ६५ ॥ मापानिप्पावकाःकंदः  
श्यामानिकुसुमानिच ॥ नीलोत्पलतिलादीनिपूर्ण-  
कुर्म्भःसकांचनः ॥ ६६ ॥ वलिःक्षिपेन्द्रीतीरेभंत्रेणाः  
नेनमंत्रितः ॥ सलिलेवाक्षिपेन्मंत्रीसुखंभवतिनान्य-  
था ॥ ६७ ॥ मंत्रः ॥ कात्यायनि महादेविज्येष्टेविद्येनि-  
शाप्रिये ॥ दुर्गदेविमहाकालिसिंहशार्दूलवाहिनि ॥  
॥ ६८ ॥ धनुः खड्डधरेदेवि दुष्टदत्यविनाशिनि ॥  
नदीशोलप्रियेदेवि कुमारि सुभगे शिवे ॥ ६९ ॥  
अष्टहस्तेचतुर्वक्रेपिंगलेशुमनासिके ॥ प्रगृह्णीप्वव-  
लिंचेमंसाप्त्यारक्षगर्भिणीम् ॥ ७० ॥ पद्मकंह-  
स्तिपिप्पल्यउत्पलंपद्मधान्यकम् ॥ शीततोयेन  
संपिद्वाक्षीरेणालोडचतत्पिवेत ॥ ७१ ॥ पुनर्नवाच  
शुंगाटंबेलपत्रंकशेरुकम् ॥ अर्जुनफलपद्माक्षंरक्त-  
चंदनमेवच ॥ ७२ ॥ छागदुर्घसमंपेयंदिनानिस-  
तकंतथा ॥ एवं नपततेगर्भःशूलंचैवविनश्यति ॥ ७३ ॥

इत्यष्टमे मासि गर्भरक्षा ॥ ८ ॥

बलि दे ॥ ७७ ॥ और जो नौमें महीनेमें कुछ गर्भमें पीड़ा हो तो अरंडकी जड़, काकोली, पलासपापड़ा यह सब औपधी समान लेके कूट कपड़छान करके जलके साथ पीनेसे और पुराणा अन्न खानेसे स्त्रीको सुखकी प्राप्ति हो ॥ ७८ ॥ अन्योपावः ॥ पलासका बीज, काकोली, चीताकी जड़, सस, जलमें पीसके पीवे और पुराना अन्नका भोजन करे ॥ ७९ ॥ अन्योपायः ॥ सूँठ, ढाकके पत्ते, इलायची, वायविडंग, जीरा सपेद, गजपीपल यह सब द्वार्ड समान लेके पीसके बकरीके दूधमें छानके पीवे, ऐसे करनेसे नवमें महीनेमें स्त्रीका गर्भपाव नहीं हो ॥ ८० ॥

यह नवमें महीनेकी गर्भरक्षाविधि है ॥ ९ ॥

गर्भिणीगर्भरक्षार्थमासेऽथदशमेवलिः ॥ उद्दिश्यनिर्झंतिंदेवीदेयोमंत्रेणमंत्रिणा ॥ ८१ ॥ पक्वान्नंकृशरालाजाःपक्वाऽपक्वाश्चमत्स्यकाः ॥ पक्वापक्वंचपलल्लुसुराचेक्षुरसस्तथा ॥ ८२ ॥ कृप्णंवस्त्रंकृप्णगंधःकृप्णानिकुसुमानिच ॥ धूपदीपोहिरण्येनयुक्तःपूर्णवटस्तथा ॥ निक्षिपेद्वक्षिणस्यावेदिशिनीलपटावृतः ॥ ८३ ॥ मंत्रः ॥ पितृदेविपितृज्येष्ठेमहादेविमहाबले ॥ प्रेतासनेदिशावासनेर्झतेशोणितप्रिये ॥ ८४ ॥ प्रगृह्णीप्ववलिंचेमंसापत्वांरक्षगर्भिणीम् ॥ ८५ ॥ शर्करांचोत्पलंचैवमधुक्मुद्रमेवच ॥ शीततोयेनसंपिङ्गाकीरणालोडयतत्पिवेत् ॥ ८६ ॥

रुदिश्यसुखं भवति नान्यथा ॥ ७४ ॥ दध्यव्रन्दिधि  
 सुद्धान्नं लाजा अकृश रातथा ॥ श्वेतपंकजगंधो च श्वे-  
 तानि कुसुमानि च ॥ ७५ ॥ धूपो वस्त्रं हिरण्येन युतः  
 पूर्णघटस्तथा ॥ वक्ष्यमाणेन मंत्रेण वलिदेयो जला-  
 शये ॥ ७६ ॥ मन्त्रः ॥ प्रगृह्णीत वर्लिंचे मंयूयं च देव-  
 मातरः ॥ यूयं रक्षत संतुष्टाः सापत्यां गर्भिणी मिमाम् ॥  
 ॥ ७७ ॥ एरं डमूली काकोली पाला शंवी जकंतथा ॥  
 पिङ्गाजले न संपेयं जीर्णान्नं भक्षयेत् सुखी ॥ ७८ ॥  
 पलाश वीजं काकोली चित्रमूले न संयुतम् ॥ उर्धी-  
 रमुद के पिप्पजीर्णान्नं चैव भोजयेत् ॥ ७९ ॥ ना  
 गरं त्रपत्रं च एलं चैव विडंगकम् ॥ जीरकं गजपि प्प-  
 ल्याद्यागदुग्धे न तत्पिवेत् ॥ एत वृत्ते कृते नारी  
 गर्भं पातं न विद्धति ॥ ८० ॥

इति नमने मासि गर्भरक्षा ॥ ९ ॥

भाषा—गर्भिणी खीके गर्भर्का रक्षाके वासी नौवं महीनमें देव-  
 तानकी माताओं के प्रति वलि दे, जिते मुख प्रान्तिहो, अन्य  
 रीतिसे नहींहो ॥ ७४ ॥ दही, चापल, मूँग, धानकी खील,  
 खिचड़ी, तफेदकमलके फल, रोली, सरेद सुगंधके फूल ॥ ७५ ॥  
 धूप, वन्न, जलका कलग उसमें यत्किंचित् सोना याल देना  
 चाहिये ॥ अगाड़ी मंत्र लिखेंगे उस मन्त्र करके वलि देना चाहिये  
 जलके किनारे ॥ ७६ ॥ यह जो मतचरका र्लोक है यह मंत्र है  
 इससे २३ बार जपके गर्भवती खीके ऊर ७ बार वारके

नहीं हो शूल शांत होजावे ॥ ८८ ॥ यह दशवें महीनेकी  
गर्भरक्षा विधि है ॥ १० ॥

गर्भिणीगर्भरक्षार्थमासेचैकादशेवलिः ॥ वासुदेवसमु-  
द्दिश्यदेयश्चायंविधिः स्मृतः ॥ ८९ ॥ पायसंपूपपैष्टेच  
गुञ्जालाजाश्रसत्त्वः ॥ श्यामध्वजाश्यामगन्धः  
श्यामानिकुसुमानिच ॥ ९० ॥ धूपदीपोपूर्णकुंभः  
सनीलोत्पलकांचनः ॥ अश्वत्थस्यतुमूलेवावासुदे-  
वालयेऽथवा ॥ निक्षिपेत्प्रयतोभूत्वातत्रामुंमंत्रमुच्चरे-  
त् ॥ ९१ ॥ पांचजन्यः प्रभाव्यक्तः कौस्तुभोद्योतभा-  
स्करः ॥ प्रगृह्णीप्ववलिंचेमंसापत्यारक्षगर्भिणीम् ॥ ९२ ॥  
यद्योत्पलं च मधुकं नालकेनापि संयुतम् ॥ शीततो-  
येन पिद्वातुक्षीरेणालोडयतत्तिपिवेत् ॥ ९३ ॥ त्रिफ-  
लाकर्कटशृङ्गीत्रिकटुश्च पुनर्नवा ॥ नागरं भृंगराज-  
श्छागीदुग्धेन संपिवेत् ॥ ९४ ॥ मंजिष्ठं चन्दनोशीरं  
शृङ्गाटं चंकरोरुकम् ॥ गुडूचीपद्मकंचैव अजादुग्धेन  
संपिवेत् ॥ ९५ ॥

इत्येकादशे भासि गर्भरक्षा ॥ ११ ॥

भाषा—गर्भिणी स्त्रीके गर्भकी रक्षाके वास्ते ग्यारहवें महीनेमें  
वासुदेवके प्रति वलिको दे इसविधिसे ॥ ८९ ॥ खीर, पुडे, कचौरी,  
बुँधची, धानकी खील, सत्तू, काढीध्वजा, कस्तूरी, काले सुरंधीके  
फूल ॥ ९० ॥ धूप, दीपक, जलका कलश उसमें नीलोकर  
सुवर्ण घालदेना चाहिये पीछलकृशके तले या नारायणके मंदिरमें

चेवउत्पलंचसनालकम् ॥ शीततोयेनसंपिप्यक्षीरे-  
णालोडथतत्पवेत् ॥ ८७ ॥ नागरावचशुंठीचतगरं  
कुंकुमंतथा ॥ गोरोचनाचरंभाचअजाक्षीरेणपाययेत् ॥ ८८  
इति दशमे मासि गर्भरक्षा ॥ १० ॥

भाषा—गर्भिणी स्त्रीके गर्भकी रक्षाके वास्ते दशवें महीनेमें  
निर्झर्ति देवीके प्रति मंत्रका जाननेवाला बलिको मंत्रित करके  
देवे ॥ ८१ ॥ पकाहुआ भात, सिंचडी, धानकी सील, कच्छी  
मच्छी, पकीहुई मच्छी, कच्छ मांस, पका मांस, शराब, ईखका  
सस ॥ ८२ ॥ कालावध, कसूरी, कालेफूल, धूप, दीपक, जल-  
का कलश उसमें यत्किञ्चित् सुवर्ण वालदेना चाहिये यह सर्व वस्तु  
एक पात्रमें धालके नीला वन्द ओढ़के २३ वार मंत्र पढ़के ७ वार  
जपर वारके दक्षिणदिशामें धर आवे ॥ ८३ ॥ और चौरासी  
श्लोकसे पचासीके श्लोकतक डेढ श्लोकका मंत्र है इसीको  
जपना चाहिये ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ और जो दशवें महीनेमें  
गर्भमें पीडा उत्पन्न हो तो मिश्री, कमलके फूल, मुलहटी, मूँग यह  
सर्व समान लेके शीतल जलसे पीसके गौके दूधमें छानके पीनेसे  
गर्भपातका उपद्रव शांत होजावे ॥ ८६ ॥ ॥ अन्योपायः ॥  
मुलहटी, कमलगट्टा, कमलयुष्य, कमलककड़ी यह सब समान लेके  
शीतल जलमें पीसके गौके दूधमें छानके पीवे ॥ ८७ ॥ अन्योपायः  
नागरमोथा, वच, सोंठ, तगर, केसर, गोरोचन, केलाकी जड यह  
सब समान लेके पीसके बकरीके दूधमें छानके पीनेसे गर्भपात

चाहिये और उसी देवताके प्रति देनी चाहिये और वही मंत्र पढ़ना चाहिये ॥ ९६ ॥ और जो बारहवें महीनेमें गर्भमें पीड़ा उत्पन्न हो तो कमलगड्ठा, सिंधाड़े, कमलका फूल, कमल-नाल यह औपधी सर्व समान लेके शीतल जलसे पीसके गौके दूधमें छानके गर्भवती स्त्री पीवे तो गर्भपातोपद्धत शांत होजावै ॥ ९७ ॥ यह बारहवें महीनेकी गर्भरक्षाविधि कही है ॥ १२ ॥ इति श्रीपंडितनंदकुमारैद्यकृतवालतंत्रभाषाटीकायां पञ्चमः पटलः ॥ ५ ॥

अतः परं प्रवद्यामि सुख प्रसव सिद्धये ॥ स्त्रीणां सुखा-  
य कर्तव्या उपाया अतिगोपिताः ॥ १ ॥ करंकी भू-  
त गो मूर्द्धा सूति का भवनोपरि ॥ तत्काल निहितं ना-  
र्याः सुख प्रसव कारकम् ॥ २ ॥ करंज पत्र वीजानां  
कल्के नव भिपग्वरः ॥ तेलं पक्त्वा ह्यजाक्षीरे योनिं लिं-  
पेत् प्रसूतये ॥ ३ ॥ लेपनं गंत्रः ॥ हिमवत्युत्तरे पा-  
श्चं शर्वरीना मय क्षिणी ॥ तस्या नूपुरशब्देन विश-  
र्या भवन गर्भिणी स्वाहा ॥ ४ ॥

भाषा—अब इसके उपरांत श्रियोंके सुखसे प्रसव होनेके  
लिये छठा पटल कहतेहैं. श्रियोंके सुखके बास्ते अतिगुन यह  
उपाय जनोने करना चाहिये ॥ १ ॥ गौके या बैलके शिरका  
करंक बालक दद्य करनेवाली श्रीके मकानकी उषपै धर  
देवं तो उसी समय उस नारीके सुखसे बालक होवे ॥ २ ॥  
अन्योपायः ॥ करंजुवाके पत्तोंका और बीजोंका कल्क करके

२१ वार मन्त्र पढ़के ७ वार स्त्रीके ऊपर वारके पुरुष जतनसे बलि  
धर आवे ॥ ९१ ॥ यह वानवेंका जो श्लोक है यह मंत्र है  
इसीको जपना चाहिये ॥ ९२ ॥ और जो ग्यारहवें महीनेमें  
कुछ गर्भमें पीड़ा हो तो पश्चात्, कमलगट्ठा, मुलहटी, कमलकी  
नाल यह सर्व समान लेके शीतल जलमें पीसके गौके दूधमें  
ठानके पीवे तो गर्भपातका उपद्रव शांत होजावे ॥ ९३ ॥ अन्यो-  
पायः ॥ हरडेकी छाल, बहेडा, आंवला, काकडासाँगी, सोंठ,  
मिर्च, पीपल, सांठीकी जड, नागरमोथा, जलभंगरा यह सर्व समान  
लेके पीसके बकरीके दूधमें ठानके पीवे ॥ ९४ ॥ अन्यो-  
पायः ॥ मंजीठ, चन्दन, खस, सिंघाड़, कशेरु, गिलोय, पश्चात् यह  
सब समान लेके पीस ठानके बकरीके दूधसे पीनेसे गर्भपात  
नहीं हो शुल शांत हो ॥ ९५ ॥

यह ग्यारहवें महीनेकी गर्भरक्षाविधि है ॥ ९१ ॥

गर्भिणीगर्भरक्षार्थमासेवैद्रादशेवलिः ॥ एकादशो-  
क्तविधिनादेयोमंत्रेणमंत्रिणा ॥ ९६ ॥ पञ्चशूद्धन-  
टकंचैवउत्पलंतुसनालकम् ॥ शीततोयेनपिष्टातु  
क्षीरेणालोडयतत्पिवेत् ॥ ९७ ॥

इति द्वादशो मासि गर्भरक्षा रामाता ॥ ९२ ॥

इति श्रीकल्याणवैद्यकुते वालतंत्रे गर्भिणीगर्भरक्षाक-

थनं नाम पंचमः पट्ठः ॥ ५ ॥

भापा—गर्भिणी स्त्रीके गर्भकी रक्षाके वास्ते चारहवें महीनेमें  
जिस विधिसे ग्यारहवें महीनेमें बलि दई है उसी विधिसे देनी

भाषा—उसी वक्त कटालीकी जड़, उत्तरके, तरफकी हाथसे उखाड़के ल्यावे उसको जलसे पीसके योनिमें लेपनकर देवे तो सुखसे श्री वालकको पैदाकरे इसमें संदेह नहीं ॥ ५ ॥ अन्योपायः ॥ सूर्यके ममुख होके धतूराकी जड़को ग्रहण करे उस जड़को शिरपे श्री धारण करे तो सुखसे वालकको पैदा करे इसमें संदेह नहीं ॥ ६ ॥ अन्योपायः ॥ पश्चिमदिशाकी तरफ मुख करके चिरभट्टीकी जड़को उखाड़के ल्यावे गूगलकी धूप देके कटवाली श्रीके कंठिमें बांधे तो सुखसे वालक उदय करे इसमें संदेह नहीं ॥ ७ ॥ अन्योपायः ॥ पूर्वको मुख करके ऊंगाकी जड़को तात्काल उखाड़के ल्याके फिर जलसे पीसके योनिमें लेप करे तो श्री सुखसे वालकको पैदा करे और कटरहित होजावे ॥ ८ ॥ अन्योपायः ॥ सांपकी कांचली लाके भस्म बनावे फिर नहतमें पीसके कटवाली श्रीके नेत्रामें आंजे तो सुखसे प्रसूत होजावे ॥ ९ ॥ अन्योपायः ॥ विधानपूर्वक सपेद शरणुखाकी जड़को ग्रहण करके कटवाली श्रीके कंठिमें बांध दे तो बहुत शीघ्र सुखसे श्री वालकको उत्पन्न करे ॥ १० ॥ अन्योपायः ॥ गूगल सांपकी कांचली दोनोंको कूटके कटवाली श्रीके योनिको धूप देवे तो सुखसे वालक उत्पन्न करे कट निवृत्तहो ॥ ११ ॥ अन्योपायः ॥ इंद्रायणकी जड़को योनिमें रखवे तो शीघ्र सुखसे श्री वालकको पैदाकरे इसमें संदेह नहीं ॥ १२ ॥ अन्योपायः ॥ कलिहारी दूटीकी जड ल्याके उसको पीसके योनिमें लेपकर देवे तो सुखसे कटवाली श्री संतानको पैदाकरे ॥ १३ ॥

बकरीके दूधमें तिलोंके तेलको पकाके योनिको उस तेलसे लेपन कर दे वो सुखसे बालक उत्पन्न हो ॥ ३ ॥ और यह चौथा श्लोकहै यह तेल लगानेका नंत्रहै इस श्लोकको पढ़वाजावे ॥ ४ ॥

तत्कालेकंटकामूलमुत्तरस्यांदिशिस्थितम् ॥ उ-  
त्पाटच्चैवहस्तेनजलेनसहपेपयेत् ॥ योनोलिखा  
तुसानारीसुखंसूतेनसंशयः ॥ ५ ॥ मूलंधन्त्ररक-  
स्यैवगृहीत्वासूर्यसम्मुखम् ॥ धत्तेशिरसियानारी  
सुखंसूतेनसंशयः ॥ ६ ॥ पश्चिमाभिसुखोमंत्रीयु-  
जामूलंसमुद्धरेत् ॥ कटौवद्धासुखंसूतेकामिनीना-  
त्रसंशयः ॥ ७ ॥ अपामार्गस्यमूलन्तुतत्कालो-  
त्पाटितंसुधीः ॥ पूर्वाशाभिसुखःपञ्चादुदकेपिष्य  
लेपयेत् ॥ योनोसुखंप्रसूतेसानारीरहितवेदना ॥  
॥ ८ ॥ सर्पकंचुकमादायभस्मकृत्वाविधानवित् ॥  
मधुनासहसंपिष्यचांजनेनप्रसूयते ॥ ९ ॥ शेता-  
याःशरणुखायामूलंगृद्यविधानवित् ॥ कटौवद्धासु-  
खंसूतेनारीनात्रविलभ्वितम् ॥ १० ॥ गुग्गुलुंसर्प-  
निमोक्तंचूर्ण्यधूर्पंप्रदापयेत् ॥ योनोसासुपुवेनामीवि-  
दनारहितासती ॥ ११ ॥ इन्द्रवारुणकामूल  
निक्षिपेयोनिमंडले ॥ तेनसासुपुवेनारीशीघ्रमेवन  
संशयः ॥ १२ ॥ मूलंचैवसमाहत्यकलिहार्याःप्रय-  
न्तः ॥ संपिष्ययोनिसंलिप्यसुखंसूतेतुर्गर्भिणाः ॥ १३ ॥

भाषा—अन्योपायः ॥ पुष्प नैश्चत्रमें जब सूर्य होतव विधान-  
 पूर्वक धतूराकी जड लावे. उमको कट्टवाली स्त्री कटिमें वांधे  
 तो सुखसे संतान उदय करे इममें संदेह नहीं ॥ ३४ ॥ अन्यो-  
 पायः ॥ सम्भालुके पञ्जे या निर्गुडीके पञ्जे शीतल जलमें पीसके  
 योनिमें लेप करे तो सुखसे संतान उत्पन्नहो ॥ ३५ ॥ अन्यो-  
 पायः ॥ वांसके जडको शीतल जलमें पीसके नाभिके नीचे लेप  
 करनेसे या पित्तपापडाके पञ्जांका रस नाभिके नीचे लेप, करनेसे  
 सुखसे बालक उत्पन्न हो ॥ ३६ ॥ अन्योपायः ॥ लांगलीके  
 जडको कांजीके जलमें पीसके नाभिमें लेपकरे अथवा काक-  
 माचीके जड़ीकूँ कांजीमें पीसके नाभिमें लेपकरनेसे शीत्र बाल-  
 कको उत्पन्न करै इसमें संदेह नहीं ॥ ३७ ॥ अन्योपायः ॥  
 अरंडकी गीरी, पीपल, वच, इन्होंको भीठे तेलमें पीसके नाभिमें  
 लेपकरे तो कैसाही कष्टहो सो निवृत्तहो जावे. सुखसे संतान  
 उदयहो ॥ ३८ ॥ अन्योपायः ॥ मोरशिखाकी जड, विजयसार  
 सहिंजनेकी जड, पाठा, कटाली, खरेंटो यह सब द्वार्द्द समान  
 लेके कांजीसे पीसके नाभिमें लेप करतो नारीके सुखसे बालक  
 उत्पन्नहो ॥ ३९ ॥ अन्योपायः ॥ शालपर्णीकी जडको चावलोंके  
 पानीमें पीसके नाभिये बस्ति देशपे और भगपे लेप करनेसे सुखसे  
 बालक उत्पन्न करे ॥ २० ॥ धूपमाह ॥ सांपकी कांचली, मनुष्यके  
 माथाके केश, सिरसम, कडवीतुंबी, अमलतास यह औषधी सब  
 समान लेके कड़े तेलमें मरकोयके धूपदेवे तो उसी समय मुखसे  
 बालक उत्पन्नहोवे ॥ २१ ॥ अन्योपायः ॥ ॥ चिरमठीकी जड-  
 को लाके दरा टुकड़े करके फिर सप्ततारकी लालडोरीमें उनको

पुष्याकेंमूलमाहृत्यकनकस्यविधानतः ॥ कटौव-  
 छ्वासुखंसूतेगर्भणीनात्रसंशयः ॥ १४ ॥ पत्रकंसि-  
 दुवारस्यनिर्गुण्डीपत्रकन्तुवा ॥ जलेनसहसंपिण्ठ  
 योनिंलिपेत्प्रसूतये ॥ १५ ॥ वृपस्यमूलंहिमतो-  
 यपिष्टंरसोथवापर्षटपत्रजातः ॥ नाभेरधोलेपन-  
 तोऽगनानांसुखेनगर्भप्रसवंकरोति ॥ १६ ॥ लां-  
 गल्याः परिलेपः कांजिकयोगेन काकमाच्यावा ॥  
 नाभौसहसाकुरुते गर्भप्रसवंनसंदेहः ॥ १७ ॥ तैले-  
 नपिष्टारुबुकञ्चकृष्णंवचांप्रलित्वाखलुनाभिदेशे ॥  
 सुखप्रसूतिंकुरुतेऽगनानांप्रपीडितानांवदुभिः प्रमदैः  
 ॥ १८ ॥ मयूरमूलासनशियुपाठाव्याघ्रीवलाला-  
 ङ्गलिकासमेताः ॥ पिष्टारनालेनविलिप्यनाभौसु-  
 खेननारीः प्रसवं करोति ॥ १९ ॥ शालिपण्या  
 भवंमूलंपिष्टंदुलवारिणा ॥ नाभिवस्त्तिभगेलेपा-  
 त्प्रसूतेप्रमदासुखम् ॥ २० ॥ सर्पकंचुकनृकेश-  
 सर्पपेस्तित्ततुंविकृतवेषनान्वितेः ॥ धूपनात्कुट-  
 कतोलसंयुतेस्तत्क्षणंखलुसुखंप्रसूयते ॥ २१ ॥  
 कृत्वा दशधाखण्डंगुंजामूलंनिवध्यकटिदेशे ॥ सूत्रे-  
 स्तसतभीरक्तेःसुखप्रसूतिहिभामिनीलभते ॥ २२ ॥  
 मातुलेगस्यमूलानिमधुकेमधुसंयुतम् ॥ वृत्तेनस-  
 हदातव्यंसुखंनारीप्रसूयते ॥ २३ ॥

मर्भवती स्त्रीको हितकारी है ॥ २४ ॥ यह तैल मालिस करनेसे कानमें डालनेसे सब रोगोंका नाश करताहै; तथा गर्भकी पुष्टि करताहै, शरीरको बलवान् करताहै, अग्निको बढ़ाताहै, और सचिको बढ़ाताहै ॥ २५ ॥ पीपल वृक्षकी उत्तरके तरफकी जड लेके चावलोंके पानीसे पीसके जो गर्भवती स्त्री पीवे तो मूढगर्भवाली हो तोभी तात्काल कट्टरहित होजावे, सुखसे संतान उत्पन्नहोवे इसमें संदेह नहीं करना चाहिये २६ ॥ बहुत श्रेष्ठ प्रसूता स्त्रीका स्थान प्रमाण करे और चतुर हितकारी लियां उम जगह नियुक्त करनी चाहिये फिर रक्षामंत्रसे प्रसूता स्त्रीकी रक्षा करनी चाहिये ॥ २७ ॥ अँहोंहीं स्मरस्मर श्रींश्रीं रक्ष रक्ष स्वाहा ॥ यह पञ्चदशाक्षर मंत्र रक्षाविधिवास्ते कहाहै ॥ २८ ॥ लालसूतका ढोरा स्त्रीके प्रमाणमाफिक करना चाहिये परंतु सात तारका होना चाहिये फिर उसमें सात ७ गांठ लगाये पुर्वोक्त कहे दुए मंत्रमें १०८ वार मंत्रित करना चाहिये ॥ २९ ॥ सूतिकाके भवनके दरवाजेपे बांध देना चाहिये. सब लियोंके हितके बास्ते यह रक्षाविधि कहीहै ॥ ३० ॥

अबलांरुधिरस्तावादबलांसमुपाचरेत् ॥ स्नेहाभ्यं-  
गेनमतिमात्रिवातस्थानरक्षणेः ॥ ३१ ॥ पैषिकीं  
मागधींवापिमदिरामपिपाययेत् ॥ एवंद्वित्रिदिनंतं-  
ज्ज्ञेः कर्तव्यास्तुहिताःकियाः ॥ ३२ ॥ ववागृंसघृ-  
ताविद्यःकृशराम्बावलादिकम् ॥ सातम्यंकालंवयोर्वा-  
क्ष्यत्रिरात्रंभोजयेत्तथा ॥ ३३ ॥ यवकोलकुलित्या-  
नांजांगलस्यरसोत्तमेः ॥ ३४ ॥ ओदनंभोजयेत्सात्म्यंकृ-

अलेधा र वांधके कष्टवाली श्रीके कटीमे वांधे तो सुखसे  
संतान उत्पन्नहो ॥ २५ ॥ अन्योपाधः ॥ विजौराकी जट  
मुलहठी, शहद, यह वस्तु जलसे पीसके जलमें छानके गरम  
करके धी उसमे डालके पीवे तो कष्टवाली श्रीको सुखसे नवान  
हो कष्ट दूरहो ॥ २६ ॥

वालंबलाचांशुमर्तीवृहत्योपाठनिशादारुनिशागुड-  
ची ॥ एभिस्सुपिैः खलुगम्भिणीनांतैलंविपकंपय-  
साप्रशस्तम् ॥ २७ ॥ अभ्यंगकणांतरपूरका-  
भ्यांसर्वामयानांप्रलयंविधत्ते ॥ गर्भस्यपुष्टिसबलं  
शरीरंकुशानुवृद्धिरुचिरांरुचिच ॥ २८ ॥ अथ-  
त्थोत्तरमूलंतंडुलपयसानिवृष्ट्यापिवति ॥ सद्यो  
भवतिविशल्याविमूढगर्भापिनात्रसंदेहः ॥ २९ ॥  
प्रशस्तेरक्षतुदक्षितस्त्रीभिरलंकृतं ॥ प्रसूतांसूति-  
कागारेरक्षामन्त्राभिमंचिताम् ॥ २७ ॥ प्रणवोभुवने-  
शानिस्मरथ्रीरक्षयुग्मकम् ॥ वह्निजायावधिर्मन्त्रः  
प्रोक्तःपञ्चदशाक्षरैः ॥ २८ ॥ दोरकंरक्षमूत्रेणस्त्री-  
प्रमाणतुकारयेत् ॥ सत्यंथिसमायुक्तंसततंतुविनि-  
र्मितम् ॥ २९ ॥ सृतिकाभवनद्वारिवर्धीयान्मंत्रमन्त्रि-  
तम् ॥ रक्षामन्त्रःसमाख्यातःसर्वासांहितकाम्यवा ॥ ३० ॥

भाषा—नेत्रवाला, खंरटी, चादवेल, रुटालीकी जट, पाढर  
हलदी, दारुहलदी, गिलोप यह सब दवाईं शीनके कल्क बनाके  
वेलसे चौगुना दूध डालके कल्क उसमें डालके पकाले यह वेल

र्भवती स्त्रीको हितकारी है ॥ २४ ॥ यह तैल मालिस करनेसे कानमें डालनेसे सब रोगोंका नाश करताहै; तथा गर्भकी पुष्टि करताहै, शरीरको बलवान् करताहै, अधिको बढ़ाताहै, और सूचिको बढ़ाताहै ॥ २५ ॥ पीपल वृक्षकी उत्तरके तरफकी जड लेके चावलोंके पानीसे पीसके जो गर्भवती स्त्री पीवे तो मूढगर्भवाली हो तोभी तात्काल कष्टरहित होजावे, सुखसे संतान उत्पन्नहोवे इसमें संदेह नहीं करना चाहिये ॥ २६ ॥ बहुत श्रेष्ठ प्रसूता स्त्रीका स्थान प्रमाण करे और चतुर हितकारी वियां उस जगह नियुक्त करनी चाहिये फिर रक्षामंत्रसे प्रसूता स्त्रीकी रक्षा करनी चाहिये ॥ २७ ॥ अँहींहीं स्मरस्मर श्रीश्रीं रक्ष रक्ष स्वाहा ॥ यह पंचदशाश्वर मंत्र रक्षाविधिवास्ते कहा है ॥ २८ ॥ छालसूतका ढोरा स्त्रीके प्रमाणमाफिक करना चाहिये परंतु सात तारका होना चाहिये फिर उसमें सात ७ गांठ लगाये पुर्वोक्त कहे हुए मंत्रसे १०८ बार मंत्रित करना चाहिये ॥ २९ ॥ सूतिकाके भवनके दरवाजेपे बांध देना चाहिये. सब वियोंके हितके बास्ते यह रक्षाविधि कही है ॥ ३० ॥

अबलांरुविरत्वावादबलांसमुपाचरेत् ॥ स्नेहाभ्यं-  
गेनमतिमात्रिवातस्थानरक्षणौः ॥ ३१ ॥ पैष्ठिकीं  
नामां च एवं द्वितीयां द्वितीयां द्वितीयां द्वितीयां द्वितीयां ॥ ३२ ॥ ववागूंसधृ-  
तांविद्यः कृशराम्बावलादिकम् ॥ सातम्यंकालंवयोर्वी-  
क्ष्यत्रिरात्रंभोजयेत्तथा ॥ ३३ ॥ यवकोलकुलित्था-  
नांजांगलस्यरसोत्तमैः ॥ ओदनंभोजयेत्सात्म्यंकृ-

शानुंरक्षयेत्ततः ॥ ३४ ॥ अनेनविधिना दक्षःप्रशस्ताभिःसुरक्षिताम् ॥ प्रदक्षिणगर्भजननेष्वियस्तांसमुपाचरेत् ॥ ३५ ॥ कोष्णेनपयसास्नेहैःसुस्तिनग्धां स्नापयेत्ततः ॥ यथायुक्तिविधानज्ञःपश्चादानानि कारयेत् ॥ ३६ ॥

इति श्रीकल्याणवैद्यकृते वालतंत्रे सुखप्रसवोपायकथनं  
नाम पष्ठः पट्ठः ॥ ६ ॥

भापा—हधिरके वहनेसे निर्वलहुई श्रीका तैलादिकोंसे मर्दन करके वगैर हवाके मकानमें रख करके रक्षामंत्र करके उपाचरण करे अर्थात् बुद्धिमान् वैद्य चिकित्सा करे ॥ ३१ ॥ पैष्टिकी-संज्ञक मदिराको और मागधीसंज्ञक मदिराको वैद्य प्रसूता श्रीको प्यावे ऐसे प्रसूताकी विधिके जाननेवाले वैद्यने दो तीन रोजतक हितकारी किया करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ बलको सात्म्यताको समयको अवस्थाको देखके तीन रात्रि पर्यंत वृत्तसहित यवागूका भोजन करावे अथवा खिचडी वी सहित खवावे ॥ ३३ ॥ जौका कोलका अथवा कुलित्थके रसके संग अथवा जंगलके पशु पक्षियोंके मांसके सोरुवाके संग भात खानेको वैद्य बलमाफिक देवे अग्रिकी रक्षा रक्खते अर्थात् मंदायि नहीं होनेदे ॥ ३४ ॥ इस विधि करके अच्छी श्रेष्ठ हितकारी कियाओंसे चतुर वैद्य प्रसूताकी रक्षा करे या वहुत चतुर दाई औंग प्रसूताकी प्रतिक्रिया करे ॥ ३५ ॥ प्रथम तैलादिकोंकी मालिस् सर्व शरीरको

करके पीछे गरमजलसे स्नान करावे, फिर युक्तिपूर्वक सर्व विधानका जाननेवाला वैद्य दान पुण्य करावे ॥ ३६ ॥

इति श्रीपंडितर्नदकुमारवैद्यकृतवालतंत्रभाषाटीकायांषष्टःपटलः ॥ ६ ॥

अतः परं प्रवक्ष्यामि वालरक्षांयथाक्रमम् ॥ प्रथमेदिव सेनानीनं दिनीक्रमते शिशुम् ॥ १ ॥ तद्वहीतस्य वालस्य ज्वरः स्यात्प्रथमं ततः ॥ गात्रशोपस्तथा स्वेदो नाहारे प्रभिनन्दनम् ॥ २ ॥ छर्दिमूर्च्छां चक्रं पञ्चशोषो दीनस्वरस्तथा ॥ विधानं तत्र वक्ष्यामि येन सुंचति नं दिनी ॥ ३ ॥ कूलद्रव्यमृदाकुर्यात्पुत्तिकां सुमनो हगम् ॥ शुक्लोदनं शुक्लगंधं तथा गंधानुलेपनम् ॥ ४ ॥ शुक्लपुण्याणि पंचैव ध्वजाः पंचप्रदीपकाः ॥ स्वस्ति कापं च पूर्वाङ्गेषु वस्यां दिशि संयुतः ॥ ५ ॥ वर्लिद्वादथो राजसं पौशीरमेव च ॥ शिवनिर्माल्यमाजारनुकेशानिं वपत्रकम् ॥ ६ ॥ गव्यं घृतं ततोऽनेन धूपयै चैव वालकम् ॥ एवं दिनत्रयं कृत्वा चतुर्थं मन्त्रवारिणा ॥ ७ ॥ स्नापयेद्वालकं पञ्चाद्राह्मणं वापि भिक्षुकम् अरिणभोजयेदेवं स्वस्थो भवति वालकः ॥ ८ ॥ स्नापने पूजने चैव वलिदाने च मार्जने ॥ वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण कर्तव्यो विधिरुत्तमः ॥ ९ ॥ मंत्रः ॥ प्रणवो भुवने शानिखंखः स्वाहा पठक्षरः ॥ एवं कृतेन वालस्य सुखं भवति नान्यथा ॥ १० ॥

इति प्रथमदिवसे वालकस्य यहनिवारणविधिः समाप्तः ॥ १ ॥

भाषा—अब इसके उपरांत क्रमपूर्वक बालरक्षाको कहते हैं- पहिलेदिन नंदिनी नाम देवी बालकको ग्रहण करती है॥ १॥ उस बालकको प्रथम ज्वर हो गात्र सूखेप्रसीना आवे त्वन ले नहीं ॥ २॥ दूधकी छर्दि करे मूच्छी हो कंप हो मुखशोप हो क्षीण स्वर हो यह लक्षण नंदिनीदेवीकरके गृहित बालकके होते हैं । अब जिस विधानसे वह बालकको छोड़दे सो विधान कहते हैं॥ ३॥ नदीके दोनों किनारेकी मट्टी लाके उसकी सुन्दर मूर्ति बनाके एक सहनकमें रखके उसके अगाड़ी सपेद भात गकाके रखसे सपेद फूल सपेद चन्दन शिसके रखें कपूर रखें ॥ ४॥ सपेद चमेलीके फूल पांच, ५ सपेद ध्वजा पांच दीवे पांच आटाके दिये यह सब एक जगह रखके २१ बार मंत्र पढ़के ७ बार बालकपर बारके ४ घड़ी दिन चढ़े पूर्व दिशामें धर आवे॥ ५॥ ऐसे बलिको दे और बली दिये पछे राई खस आकके फूल बिछुके बाल मनुष्यके गिरके बाल नीमके पने ॥ ६॥ गोंका बीं यह सब द्रव्य एकत्र करके बालकको धूप देवे ऐसे तीन दिन यह विधान करे ॥ ७॥ फिर चौथे दिन जलमंत्रित करके बालकको स्नान करावे फिर ब्राह्मणको और अयागतोंको दूधका भोजन करावे ऐना करनेमें बालक निरोग हो जाता है ॥ ८॥ स्नान करनेमें पूजनमें बलिका देनेमें मार्जनमें अगाड़ी कहेंगे उस मंत्रसे उनम विधि करनी चाहिये ॥ ९॥ अँहीं खं सः स्वाहा ॥ यह छः अक्षरके मंत्रको जपना चाहिये, इसीकरके बलि देना चाहिये, इनी करके स्नान करना चाहिये ॥ १०॥

इति प्रथमदिवसे नालयहग्राविधिः ॥ १॥

द्वितीयेदिवसेवालंगृह्णातिचसुनंदना ॥ ततोभवे-  
ज्ज्वरः पूर्वसंकोचोहस्तपादयोः ॥ ११ ॥ दंतान्खाद-  
तिश्वसिति निमील्यतिचक्षुषी ॥ आहारं चनगृह्णाति  
दिवारात्रौचरोदति ॥ १२ ॥ अक्षिरोगं छर्दनं च भ-  
वेद्धीतिः पुनः पुनः ॥ कृशत्वं जायते ऽत्यन्तं चिह्नमेत-  
त्प्रकीर्तिम् ॥ १३ ॥ तं दुलप्रस्थपिष्ठेन विनिर्मा-  
याथ पुत्तिकाम् ॥ त्रयोदशध्वजादीपाः स्वस्ति-  
काधवलोदनम् ॥ १४ ॥ सिद्धांशं सर्षपं मापं पकाप-  
कं तिलं तथा ॥ मांसं चेता निसंहत्यवालिवाल सुखा-  
तये ॥ १५ ॥ पश्चिमायां च संध्यायामेवं द्वादिन ब्रयम् ॥  
धूपं मंत्रजपं स्नानं कुर्यात् पूर्वकमेण वै ॥ १६ ॥

इति द्वितीयदिवसेवालक्यहनिवारणविधिः ॥ २ ॥

तृतीयेऽह्निचगृह्णातिधंटालीवालं गृही ॥ तयास्यात्कं-  
पमुद्रेगं कासं धासं चरोदनम् ॥ १७ ॥ गजदन्तञ्च  
गोदन्तं तथां जन्या स्तुकोशकम् ॥ अजाक्षीरेण संपि-  
ष्यत तोवालं प्रलेपयेत् ॥ १८ ॥ धूपयेत्रिवपत्राणि न-  
खसर्पपराजिकाः ॥ लेपितो धूपितो वालः सुखमाप्नो-  
ति निश्चितम् ॥ १९ ॥ प्रथमोक्तप्रकारेण शेषमन्यद्वका-  
रयेत् ॥ एवं कुते तु सादेवीवालं मुंचति स्फुटम् ॥ २० ॥

इति तृतीयदिवसेवालक्यहनिवारणविधिः ॥ ३ ॥

भाषा—दूसरे दिन मुनंदनानाम देवी वालकं को ध्रुण करती है  
उसके यह लक्षण होते हैं—प्रथम ज्वर उत्पन्न हो, हाथ पेरांको तकुच

रखे ॥ ११ ॥ दांतोंको चावे, श्वासको जाजती रहे, नेत्रोंको मिचारक्खे स्तन चूखेनहीं, दिनरात्रि रोयाकरे ॥ १२ ॥ नेत्रोंमें रोगहो अर्थात् दूखे धूधकी छर्दि हो और चम्पके वारबार शरीर दुर्घट होजावे इन लक्षणोंसे सुनंदना देवीका दोप होताहै ॥ १३ ॥ इसका उपाय कहते हैं—सेरभर चावल पीसके देवीकी मूर्ति बनाके उमको एक सहनकमें रखके १३ ध्वजा पंचरंगी १३ दीपक १३ आटाके दीपक धोले चावल पकेहुए ॥ १४ ॥ गेहूंका दलिया सिरसम उड्ड वाकले, मांस यह संपूर्णवस्तु अगाड़ी रखके पात्रमें ॥ १५ ॥ २१ बार मंत्र पढ़के ७ बार बालकपर वार- के संभ्यासमय पश्चिमदिशामें धर आवे ऐसे तीन दिन करनेसे बालकको आनंद होजावै और धूप मंत्र स्नान कराना यह सब प्रथम दिनकी विधिके क्रमसे करें ॥ १६ ॥ इति द्वितीयदिवसे बालव्रहरक्षाविधिः ॥ २॥ तीसरेदिन घंटालि नामदेवी बालकको अहण करती है उसके लक्षण कहते हैं—प्रथम बालकका शरीर कं- पे उद्देमहो खॉसीहो श्वासका हकारा हो और बहुत रोवे इन लक्षणोंसे घंटाली देवीका दोप जानना ॥ १७ ॥ हाथीदांत गाँका दांत कुम्हारी जानवरके वरकी मट्टी यह भव वकरीके दृधर्में पीसके बालकके शरीरपे लेपकरे ॥ १८ ॥ नर्विंक पत्ते नस सिरसन राई इनकी धूपदं पेसे करनेमें बालकनिश्चय मुस्त- को प्राप्त होताहै ॥ १९ ॥ और दृमरं दिनकी बलिविधान करे प्रथम दिनकी रीविसे स्नान कराने उभी मंत्रका जप करे

सबकर्म पूर्वदत् करे ऐसे करनेसे बंगली देवी बालकको छोड़ देतीहै ॥ २० ॥

इति तृतीयदिवसे बालकयहरक्षाविधिः ॥ ३ ॥

चतुर्थेत्तिर्णचण्डा॒तिकट्कोली॒यही॒शिशुम् ॥ तच्चेष्टा॑-  
ऽरुचिरुद्रेगः॒फेनोद्भारौ॒दिगी॒क्षणम् ॥ २१ ॥ गज-  
दन्ताऽनिनिर्मोक्तराजिकाश्चप्रलेपयेत् ॥ धूपयेत्सर्प-  
पारिष्टकेरौमुच्चतिसाग्रही ॥ २२ ॥ मंत्रस्नानादिकं  
सर्वबलिदानादिकंतथा ॥ प्रथमोक्तप्रकारेणशेषम-  
न्यत्समापयेत् ॥ २३ ॥ इतिचतुर्थदिनेवालयहनि-  
वारणविधिः ॥ ४ ॥ पञ्चमेऽहन्यहंकारित्रही॒गृह्णा॒तिबा-  
लकम् ॥ तच्चेष्टाजूंभणश्वासमुष्टिर्वधो॒धर्ववी॒क्षणम् ॥  
२४ ॥ शिलातालवचालो॒ध्रमेपश्चृंगैः॒प्रलेपयेत् ॥  
लश्चुनंनिंवपत्राज्यसिद्धार्थैर्धूपयेत्ततः ॥ २५ ॥ एवं  
मुच्चतिसावालंबलिदानादिशेषतः ॥ अवशिष्टंतुय-  
त्सर्वपूर्वरीत्याप्रकारयेत् ॥ २६ ॥ इतिपंचमदिने  
वालयहनिवारणविधिः ॥ ५ ॥ पष्ठेचदिवसेनाम्नाख-  
द्वांगीकमतेशिशुम् ॥ तच्चेष्टागात्रविक्षेपोहास्यरोदन-  
मोहनम् ॥ २७ ॥ कुष्ठशुग्गुलुसिद्धार्थगजदन्ते॒र्षुता-  
न्वितैः ॥ धूपयेष्टेपयेच्चापिततोमुञ्चतिसाग्रही ॥ २८ ॥

इति पष्ठदिवसवालयहरक्षाविधिः ॥ ६ ॥

भाषा—चौथे दिन कट्कोलीनाम देवी बालकको व्रहण करतीहै उसके लक्षण कहतेहैं—स्तन चुसे नहीं उद्देगहो मुँहमें जाग आवे

डकार ले रोवे दश दिशाओंकी तरफ आंख फेरके देखै ॥ २१ ॥  
 अब इसका उपाय लिखते हैं—हाथीदांत, सांपकी कांचली, राई,  
 यह तीनों बराबर लेके पानीमें पीसके शरीरपर लेप करे शिरसम  
 नाँचिके पत्ते मनुष्यके माथाके बाल इनकी धूनी देनेसे घटाली  
 देवीका दोप दूर हो बालक चंगाहो ॥ २२ ॥ और भंत्र जाप  
 स्नान कराना बलिदान यह सब वस्तु पहिले दिनके माफिक  
 करे ॥ २३ ॥ इति चतुर्थदिनगृहीतबालरक्षा विधिः ॥ ४ ॥  
 पांचवें दिन अहंकारी देवी बालकको व्रहण करती है उसके लक्षण  
 कहते हैं—जंभाई बहुत अवैभासका हकारा हो मुँछी वैधी रक्से  
 ऊपरको देखे यह लक्षण होनेसे अहंकारी देवीका दोप कहना  
 ॥ २४ ॥ अब इसका उपाय लिखते हैं—मनसिल, हरताल, वच,  
 लोध, मेडासिंगी, यह औपधी सब समान लेके पानीमें पीसके  
 बालकके लेपन करे और लहसन नाँचिके पत्ते वीरा राई इनकी  
 धूनी बालकको दे ॥ २५ ॥ ऐसा करनेसे अहंकारी देवी बालक  
 को छोड़ देती है और शेष रहे बलिदान स्नान भंत्रजपादिक कर्म  
 है सो पहिले दिनके माफिक करे बालक चंगाहो ॥ २६ ॥  
 इति पंचमदिनगृहीतबालकरक्षाविधिः ॥ ५ ॥ छठे दिन स-  
 द्वांगी देवी बालकको व्रहण करती है इमके लक्षण कहते हैं—प्रथम  
 बालकके अचैनीरहे और हँसे कदाचित् रोवे मोह हो अर्थात्  
 गफलत रहे स्तन चूखे नहीं इन लक्षणोंसे सद्वांगी देवीका दोप  
 कहना ॥ २७ ॥ अब इसका उपाय लिखते हैं—कूट, गुगुल, राई,  
 हाथीदांत, मौका वी, इके बालकको थूपदे और यही

इव्य जलमें पीसके बालकको लेपन करे और दान बलिदान मंत्र जाप स्नान यह सब पहिले दिनकी माफिक करे बालक चंगा हो खद्वांगी देवीका दोप दूर हो ॥ २६ ॥

इति पष्ठदिवसगृहीतबालकरक्षाविधिः ॥ ६ ॥

सतमेदिवसेनाम्नाहिंसिकाकमतेशिशुम् ॥ तच्चेष्टा  
जृभणंश्वासोमुष्टिवंधस्तथैव च ॥ २९ ॥ मेषशृं-  
गीवचारोव्रंहरितालंमनःशिला ॥ एतच्छुरुचिरंपि-  
श्वाततोवालंप्रलेपयेत् ॥ ३० ॥ वलिंदद्यात्तुप्रा-  
श्रीत्याततोमुंचतिसाग्रही ॥ मंत्रस्तानादिकंसर्वप्रथ-  
मोक्तकमेणतु ॥ ३१ ॥ इति सप्तमदिवसगृहीत-  
बालकरक्षाविधिः ॥ ७ ॥ अष्टमेदिवसेनाम्नाभीष-  
णीक्रतेमशिशुम् ॥ कासतेश्वसतेचैवगात्रंसंकोच-  
तेभृशम् ॥ ३२ ॥ अपामार्गमुशीरंचपिष्पलीचि-  
त्रकंतथा ॥ अजामूत्रेणसंपिष्यततोवालंप्रलेपयेत् ॥  
॥ ३३ ॥ गोशृंगनखकेरौस्तुधृपयेद्रालकंतः ॥  
मंत्रस्तानादिकंसर्वप्रथमोक्तकमेणवे ॥ ३४ ॥ इत्य-  
एमदिनगृहीतबालकरक्षाविधिः ॥ ८ ॥ नवमेदि-  
वसेवालंमेपागृह्नातिवेशिशुम् ॥ तच्चेष्टात्रासनोद्दे-  
गः स्वमुष्टिद्रियखादनम् ॥ ३५ ॥ वचाचंदनकुष्ठो-  
ग्रासपंपास्तत्रलेपयेत् ॥ नस्वानरोमाभ्यांधृपना-  
न्मुञ्चतिश्रही ॥ ३६ ॥

इति नवमदिनगृहीतबालप्रहरक्षाविधिः ॥ ९ ॥

भाषा—सातवें दिन हिंसिकानाम देवी बालकको ग्रहण कर्ती है उसके लक्षण कहते हैं—जँभार्ड आवे, श्वासहो मूठी खोलेनहाँ स्तनपान करे नहाँ ॥ २९ ॥ अब इसका उपाय कहते हैं, मेढासींगो वच लोध हरिताल मनसिल यह सब समानलेके पानीसे बारीक पीसके बालकके शरीरको लेपन करे ॥ ३० ॥ और बलिदान मंत्रजप स्थान कराना यह पहिले दिनकी माफिक सब कर्म करे बालक चंगाहो हिंसिका देवीका दोप दूर हो ॥ ३१ ॥ इति सत्यमदिवसगृहीतबालरक्षाविधिः ॥ ७ ॥ आठवें दिन भीषणी नाम देवी बालकको ग्रहण कर्ती है इसके लक्षण कहते हैं—क्षासश्वास हो, अंगको संकोच रसे ज्वर हो आंख खोले नहाँ इन लक्षणोंसे भीषणी देवीका दोप जानना ॥ ३२ ॥ अब इसके उपाय कहते हैं—चिरचिरा स्वस पीपल चित्रक यह सब दवा समानलेकर वकरीके मूत्रम् पीसके बालकके लेपन करे ॥ ३३ ॥ गौका सींग नस मरु-प्यकेबाल इन्हाँकी धूप बालकको देवे और मंत्रजापस्थान कराना बलिदान देना यह सब कर्म प्रथम दिनकी माफिक करे ॥ बालक चंगाहो भीषणी नाम देवीका दोप दूर हो ॥ ३४ ॥ इत्यष्टमदिवसगृहीतबालरक्षाविधिः ॥ ८ ॥ नवमें दिन मेषा नाम देवी बालकको ग्रहण करती है तिसके लक्षण कहते हैं ॥ प्रथम बालक चमक चमक पडे और अचैनीरहे अपने हाथकी मूँठीको काट २ साथ इन लक्षणोंमे मेषा नाम देवीका दोप जानना ॥ ३५ ॥ इसका उपाय कहते हैं—वच चन्दन कूट राई

यह सब दवा समानलेके जलमें पीसके बालकके शरीरको लेपन करे, नख बंदरके रोम इन्होंकी धूनी दे और बलिदानादिक सब कर्म पहले दिनकी माफिक करे बालक चंगा हो मेपानाम देवीका दोप दूर हो ॥ ३६ ॥

इति नवमदिनगृहीतवालकरक्षाविधिः ॥ ९ ॥

दशमेदिवसेनाम्नारोदनाकमतेशिशुम् ॥ तच्चेष्टा  
कासनं चेवरोदनं मुष्टिवंधनम् ॥ ३७ ॥ कुष्ठोग्रा-  
सर्जसिद्धायैलिपेत्तिवेन धूपयेत् ॥ मत्स्यमांससुरा-  
युक्तनिशायां वलिमाहरेत् ॥ ३८ ॥ अपामार्गा-  
कुरोशीरचन्दनकाथवारिणा ॥ मंत्रमष्टशतं जस्वात्रिसं-  
ध्यं परिपिंचयेत् ॥ ३९ ॥ एवं कृते तु सादेवी  
बालं मुंचति रोदना ॥ प्रथमोक्तप्रकारेण शैपमन्यज्ञ  
कारयेत् ॥ ४० ॥

इति दशमदिनगृहीतवालकरक्षाविधिः ॥ १० ॥

इति श्रीकल्याणवैयक्ते वालतंत्रे दिनगृहीगृहीत-  
वालकरक्षाकथनं नाम ममः पटलः ॥ ७ ॥

भाषा—दशवेंदिन रोदना नाम देवी बालकको ग्रहण करती है उसके लक्षण कहते हैं—सांसी हो रोवे बहुत चिढ़ीमारे मुठीबैधी रस्से स्तनपान नहीं करे ॥ ३७ ॥ इन लक्षणोंसे रोदना नाम देवीका दोप जानना अब इसका उपाय कहते हैं । कूट बच राल गड़ यह मध दबाई लेके पानीमें पीसके बालकके शरीरको लेपन करे और नीचके पक्काँकी धूनी दे और

पहिले दिनकी माफिक बलिदान संध्या समयमें देना चाहिये परंतु पत्स्यका मांस, मदिरा यह और बलिमें सामिलकर देना चाहिये ॥ ३८ ॥ ऊंगाके वृक्षके अंकुर, खस, लालचंदन, इन द्रव्योंका काथ बनाके फिर काथ जलको एक सौ आठ बार मंत्रितकरके निकाल बालकको स्नान करावे ॥ ३९ ॥ और मंत्र जपादिक शेष कर्म पहिले दिनकी माफिक करे ऐसे करनेसे रोदना देवीका दोष दूर हो बालक चंगा हो ॥ ४० ॥

इति दशमदिनगृहीतबालकरक्षाविधिः ॥ १० ॥

इति श्रीर्णितनदकुमारवैद्यकृतबालतंत्रभाषाटीकायां सप्तमःपटलः॥७॥

अथमासगृहीतस्यबालकस्यविमुक्तये ॥ वर्लिव-  
क्ष्यामिसुखदंसर्वतंत्रेषुगोपितम् ॥ १ ॥ प्रथमेमा-  
सिगृह्णातिकुमारीनामयोगिनी ॥ उद्देगज्वरशोपा-  
दिचेष्टितंत्रजायते ॥ २ ॥ नैऋतींदिशमात्रित्यसं-  
ध्याकालेवर्लिहरेत् ॥ नदीतटद्वयात्कृष्णमृदादेवी-  
स्वरूपकम् ॥ ३ ॥ कृत्वा पूजाप्रकर्तव्यापुष्पधूपा-  
दिभिस्ततः ॥ वटकामुष्टिकापूपाअग्रभक्तंगुडोद-  
धि ॥ ४ ॥ चतुर्वर्णपताकाश्चप्रदीपाःपुष्पचंदनम् ॥  
अपराह्नेऽथवादद्यान्मंत्रेणानेनमंत्रवित् ॥ ५ ॥ अङ्गमो  
भगवतेचरावणायचबालकम् ॥ मुंचयुगंवह्निजाया  
मंत्रोविंशतिवर्णकः ॥ ६ ॥ इति प्रथममासग्रहगृहीत  
बालकरक्षाविधिः ॥ १ ॥ द्वितीयेमासिगृह्णाति

वालकं मुकुटाय ही ॥ श्रीवानिवृत्तिर्निष्पदो वपुषः  
यीतशीतता ॥ ७ ॥ वक्तसंशोषणो द्वारारोचका-  
नितदात्रयम् ॥ क्षीरान्त्रकृशरापूपतिलतं डुलसंयु-  
तम् ॥ ८ ॥ कृष्णपुष्पांशुकाले पैस्त्रमात्रेव-  
लिहरेत् ॥ कुसुंभंलशुनं निवं संचृण्यधूपयेच्छशुम् ॥  
॥ ९ ॥ इति द्वितीयमासे वालरक्षा ॥ २ ॥

भाषा—अब दिनरक्षा कहनेके अनंतर महीनोंमें गृहीत हुए  
वालकोंकी रक्षाके वास्ते बड़े गुत मुखके देनेवाले बलिदानादिक  
प्रयोग कहते हैं ॥ १ ॥ पहिले महीनोंमें कुमारी नाम योगिनी  
वालक को घ्रण करतीहै. उसके लक्षण कहते हैं—प्रथम वालकके  
उद्देश्यों, ज्वरहो गात्रशोषहो रोधे बहुत स्वनपान करे नहीं इन  
लक्षणोंसे कुमारी नाम देवीका दोष कहना ॥ २ ॥ अब इसका  
उपाय कहते हैं । नैऋत्य दिशामें संध्याकालमें बलिदे. नदीके  
दोनों किनारोंकी मिट्ठीलाके उसकी देवीकी मूर्ति बनाके एक  
सहनकमें स्थापन करे ॥ ३ ॥ फूल धूप इन्हों करके पूजन करे. बड़े  
मुठीये पढ़े भात गुड दही चार रंगकी ४ घजा ४ दीपक फूल  
चढ़न यह सब वस्तु उसी पात्रमें मूर्तिके अगाढ़ी रस्तके फिर  
मंत्रका जाननेवाला मंत्र पढ़के बलिको देवै ॥ ४ ॥ ५ ॥ अँ  
नमो भगवते रावणाय वालकं मुच मुच स्वाहा इसमंत्रको २ १ कार  
पढ़के ७ बार वालकके ऊपर वारके दे वालक निरोग हो ॥  
॥ ६ ॥ इति प्रथममासरक्षा ॥ १ ॥ दूसरे वालकके पीड़ा उत्तम  
होनेमें मुकुटा देवीका दोष जानना इनके लक्षण कहते हैं—श्रीवा-

दीली गेरदेअंगकपैशरीरपीला होओर महिनामें शीतलरहे॥७॥  
 मुख सूखा रहे स्तन पीवे नहीं, डकार बहुत आवें. अब  
 इसका उपाय कहतेहैं, मिट्टीकी देवीकीमूर्ति बनाके एक सहन-  
 कर्म रखके फिर खीर सिचड़ी पूड़े तिल चावल॥८॥ कालेफूल,  
 कालावस्त्र काली कस्तूरीका विसाहुआ चंदन यह सब वस्तु  
 देवीके अगाड़ीधर निवेदन करे, फिर प्रथम लिखे हुए मंत्रको २१  
 बार पढ़के ७ बार बालकपर वारके पूर्वादिशाकी तरफ बलिको  
 धर आवे. संध्या समयमें फिर कुसुंभ लहस्तन नीवके पते इन्हों  
 का चूर्ण करके बालकको धूपदे बालक निरोगहो ॥ ९ ॥

इति द्वितीयमास रक्षा ॥ २ ॥

तृतीयेमासिगृह्णातिवालकंगोमुखीग्रही ॥ तच्चेष्टारो-  
 दनंनिद्रावहुमूत्रपुरीपकम् ॥ १० ॥ निमीलयति  
 नेत्राणिगोगंधोमधुकंधवा ॥ प्रियंगुतिलकुलमापं  
 चतुःपिंडयमोदकैः ॥ ११ ॥ जपाकुसुमसंयुक्तं  
 मध्याह्नेबलिमाहरेत् ॥ धूपयेत्तिलसिद्धायेस्ततोमुं-  
 चतिसाग्रही ॥ १२ ॥ इति तृतीयमासे बालरक्षा ॥  
 ॥ ३ ॥ चतुर्थेमासिगृह्णातिवालकंपिंगलाग्रही ॥  
 पद्यःपानारुचिःशैत्यंभजस्पदास्यशोपणे ॥ १३ ॥  
 पूतिगन्वस्तुतवेष्टातवनास्तिप्रतिक्षिया ॥ नमंत्रनौ-  
 पद्यंतत्रवलितत्रनकाग्रयेत् ॥ १४ ॥ इति चतुर्थ-  
 मासे बालरक्षा ॥ ४ ॥ पंचमेमासिगृह्णाति वालकं  
 इडवाग्रही ॥ तच्चेष्टारोचकंकासोमुखशोपणे-

दने ॥ १६ ॥ सीदंतिसर्वगत्राणिविश्रांतोन्नपिदे-  
त्पयः ॥ ओदनंपोलिकाशाकंमत्स्यमांसानिदाए-  
येत् ॥ १६ ॥ भक्ष्याणिलप्सिकाचैवस्वस्तिकाःपद्मकं  
तथा ॥ दक्षिणांदिशमात्रित्यमध्याहेवलिमाहरेत् ॥  
॥ १७ ॥ इति पञ्चममासे वालरक्षा ॥ ६ ॥

माषा—तीसरे महीनेमें गोमुखी नाम देवी वालकको व्रहण  
करती है, उसके लक्षण कहते हैं। वालक विलक विलक रोगे नींद  
बहुत आवे, बारबार मूत्रकरे, बारबार दस्त जावे ॥ १० ॥  
नेत्र बंद राखे, गाँके समान गंध आवे। इसका उपाय लिखते हैं  
महुवाके फूल, धायके फूल, मेहँदी, तिल, बाकले, पिंडी चूर्माकी  
४ मोदक, जयाके फूल इन सब द्रव्योंको एक पात्रमें रखके पूर्ण  
कहा हुवा मंत्र २१ वार पढ़के ७ वार वालकके ऊपर वारके  
मध्याह्न समयमें जलके किनारे दक्षिण दिशामें घर आवे वालक  
चंगा हो। तिल राई इनोंकी वालकको धूपदे। गोमुखी देवीका  
दृष्ण दूर हो ॥ ११ ॥ १२ ॥ इति तृतीयमासरक्षा ॥ ३ ॥  
चौथे महीनेमें वालकको पीडा उत्पन्न हो उसको पिंगलादेवी  
व्रहण करती है इसके लक्षण कहते हैं—स्तनपान नहीं करे, शरीर  
सपेद होजाय, भुजा फरके, मुख सूखा रहे ॥ १३ ॥ शरीरमें  
दुर्गंध आवे, इन लक्षणोंसे पिंगला देवीका दोप जानना।  
चतुर्थमासमें चिकित्सा मंत्र औषधी वलिदान यह वस्तु दैद  
नहीं करे ॥ १४ ॥ इति चतुर्थमासविचारः ॥ ४ ॥ पांचवें  
महीनेमें वालकको बड़वादेवी व्रहण करती है। उसके लक्षण

कहते हैं—पथम अरुचिहो, खांसीहो, मुख सूखा रहे, रोवे बहुत ॥ १५॥ सब शरीरमें तकलीफ रहे, श्वयुक्त रहे, स्तन ज्ञान नहीं करे. अब इसका उपाय कहते हैं, भात, पुर्णपोली, आक, मच्छोका मांस, लड्डु, लपसी, आटाके दीवे ५, धजा ५, कमलके सफेद फूल, मिट्टीकी देवीकी मूर्ति बनाके सहनकमें स्थापन करके यह वस्तु उसके अगाढ़ी रखदे पूर्वकथित मंत्र २१ बार पढ़के ७ बार वालकके ऊपर वारके नध्याह्न समयमें दक्षिण दिशामें बलि धर आवे, वालक चंगाहो, वडवादेवीका दोष दूरहो ॥ १६॥ १७॥ इति पंचममासवालरक्षा ॥ ५ ॥

पष्टेमासिगृह्णातिपद्मानामग्रहीशिशुम् ॥ तच्चेष्टारो-  
दनंशूलस्वरञ्चशस्तथैव च ॥ १८॥ शिखीकुकुटमे-  
पाणांमांसमापोदनंसुरा ॥ कुलित्यंचेतिसंप्रोक्तवलि-  
नामुच्चतिग्रही ॥ १९ ॥ इति पष्टमासेवालरक्षा ॥ ६ ॥  
सप्तमेमासिगृह्णातिवालकंपृतनाग्रही ॥ क्षीरंपिवति  
विसृष्टाकृशोरोदतिर्घर्दिवान् ॥ २० ॥ कृशराचौद-  
नंमासंमत्स्यंक्षीरंसुरासवः ॥ कुरुमापास्तिलचूर्ण-  
ञ्चगन्धपुण्पाणिचेवहि ॥ २१ ॥ पूर्वांदिशंसमाग्रि-  
त्यसध्याह्नेवलिमादरेत् ॥ अन्यतसवंप्रकर्तव्यंपूर्वों-  
क्तंतत्कमेणवे ॥ २२ ॥ इति सप्तममासे वालरक्षा ॥ ७ ॥  
अष्टमेमासिगृह्णातिवालकंचाऽर्जिंकाग्रही ॥ गात्रभंगो  
ज्वरोक्षीरुक्तप्रलापश्यर्दिरेव च ॥ २३ ॥ उत्तरांदि-  
त्तु

शमाथित्यवलितस्यैप्रदापयेत् ॥ प्रथमोत्तप्रकारे-  
णशेषमन्यत्समापयेत् ॥ २४ ॥

इत्यष्टममासे वालरक्षा ॥ ८ ॥

भाषा—छठे महीनेमें पञ्चानाम देवी वालकको ग्रहण करती है उसके लक्षण कहते हैं। प्रथम रोवे बहुत शूलहो गला बैठ जाय राल बहुत मुखमें पडे ॥ १८ ॥ अब इसका उपाय लिखते हैं, मधूरका मांस, मुर्गाका मांस, मेढ़ेका मांस, उड्डके बाकले, भात दारु, कुलथी यह सब वस्तु एक सहनकमें देवीकी मूर्तिके अगाड़ी रखदे मंत्रजाप स्नानविधि बलिदानविधि यह शेष कर्म प्रथम मासके क्रमसे करे ॥ १९ ॥ इति षष्ठमासरक्षा ॥ ६ ॥

सातवें महीनेमें पूतनानाम देवी वालकको ग्रहण करती है उसके लक्षण कहते हैं. ढीलापनसे दूध पान करे स्तनपान समयमें मुखसे दुग्ध गिरे शरीर कुरा होजाय दिन दिन प्रति सूखे रोवे बहुत छर्दि करे ॥ २० ॥ अब इसका उपाय कहते हैं, जलके किनारेकी मिट्टी लाके एकमूर्ति बनाके सहनकर्म रखके उसके अगाड़ी स्त्रीचढ़ी, भात, मच्छीका मांस, दूध, मदिरा, आसव, बाकले तिलकुट, सुगंधके फूल सब वस्तु उसी पात्रमें रखदे ॥ २१ ॥ पूर्व मंत्रको २१ बार जपके ७ बार वालकपर वारके मध्याह्न समयमें पूर्वदिशाकी तरफ धर आवे और सब विधान प्रथम मासकी रीतिके अनुसार करने चाहिये ॥ २२ ॥ इति सप्तममा-सबालरक्षा ॥ ७ ॥ आठवें महीनेमें अर्जिका नाम देवी वालकको ग्रहण करती है उसके लक्षण कहते हैं, सर्व शरीरमें हड्डियोंहो

ज्वरहो नेत्रमें पीड़ा हो वरडवा करे छर्दि करे ॥ २३ ॥ इसका उपाय प्रथम मासके क्रमसे सब करना चाहिये, परंतु बलिदान उत्तरदिशामें देना चाहिये और मंत्रजापस्नानादि कर्म सब प्रथम मासके अनुसार करने चाहिये ॥ २४ ॥ इत्यष्टममासवालरक्षा ॥

नवमेमासिगृह्णातिवालकंकुभकर्णिका ॥ तच्चेष्ट-  
रोचकंच्छर्दिर्जर्वरःपातालगन्धता ॥ २५ ॥ कुलमाप-  
पललक्षीरमत्स्यमांसकृतेनच ॥ ऐशान्यांदिशिमध्या-  
हेवलिनामुंचतिश्रही ॥ २६ ॥ इति नवममासेवाल-  
रक्षा ॥ ९ ॥ दशमेमासिगृह्णातिवालकंतापसीश्रही ॥  
तच्चेष्टगात्रविक्षेपःक्षीरद्वेषोऽक्षिमीलनम् ॥ २७ ॥  
पीतंरक्तंतथामुंपंमत्स्यमांससुरासवम् ॥ कुलमापंति-  
लपिष्टंचगंधपुष्पाणिचैवहि ॥ २८ ॥ स्वस्तिकाःपा-  
ष्टिकंभक्तंदिश्युदीच्यांसमाहरेत् ॥ मध्याह्नसमयेन्द्र-  
नंततोमुंचतिसाश्रही ॥ २९ ॥ इति दशममासेवा-  
लरक्षा ॥ १० ॥ मासिचैकादशेनाम्नागृह्णातिसुश्रही  
शिशुम् ॥ तयागृहीतमात्रस्तुसस्वस्थोनप्रजायते ३०  
नमंत्रनौपधंतस्यवलिंचापिनदापयेत् ॥ क्रियतेचेद्व-  
लिस्तवप्रथमोक्तक्षमेणवै ॥ ३१ ॥ इत्येकादशमा-  
से वालरक्षा ॥ ११ ॥ द्वादशेमासिगृह्णातिवालकंवा-  
लिकाश्रही ॥ तच्चेष्टरोदनंछर्दिःथासस्तृणापुनः-  
पुनः ॥ ३२ ॥ दध्यन्नतिलकुलमापमोदकाम्नैर्वर्लिह-  
रेत् ॥ मध्याह्नसमयेप्राच्यांततोमुंचतिसाश्रही ॥ ३३ ॥

शीरवुकपायेणस्नापयेत्तप्रशांतये ॥ प्रथमोत्कप्र-  
कारेणशेषमन्यत्समापयेत् ॥ ३४ ॥

इति श्रीकल्याणवैद्यकुवे बालतंत्रे मासगृहीत-  
बालरक्षा नामाष्टमः पट्टलः ॥ ८ ॥

भाषा—नौवें महीनेमें कुंभकर्णिका देवी बालकको ग्रहणकर-  
ती है ॥ उसके लक्षण कहते हैं, प्रथम स्तनपानमें अरुचिहो,  
ज्वर हो, छर्दिहो और जमीन खोदते दफे जैसी सुंगध आती है  
वैसा बालकके अंगमें गन्ध आवे आंख मीची रखते ॥ २५ ॥  
अब इसका उपाय कहते हैं, बाकले मांस दुग्ध मत्स्यमांस इनद्र-  
व्योंसहित प्रथम मासकी बलिदे, परंतु मध्याह्न समयमें ऐशान  
दिशामें दे और मन्त्रजापादिक सब कर्म प्रथम मासकी रीति  
माफिक करे बालक चंगा हो कुंभकर्णिका देवीका दोष दूर हो  
॥ २६ ॥ इति नवममासबालरक्षा ॥ ९ ॥ दशवें महीनेमें वापसी नाम  
देवी बालकको ग्रहण करती है उसके लक्षण कहते हैं, हाथ पैर  
देंदे मारे, स्वन पीवे नहीं, नेत्र मीवे रखते, पेट बन्द रहे ॥ २७ ॥  
अब इसका उपाय कहते हैं, चणाकी दाल, मसूरकी दाल, मछली-  
कामांस, मदिरा, बाकले, तिलकुट, सुगन्धके फूल ॥ २८ ॥ आठा  
के दीवे ५ साँठी चावलोंका भात यह सब वस्तु एक सहनकमें  
मिहीकी देवीके आगे रखके मध्याह्न समयमें उत्तर दिशाकी वरफ  
बलिदान दे और मन्त्र जाप स्नानधूप इत्यादिक कर्म प्रथम मासके  
अनुसार करे बालक चंगा हो तापसी देवीका दोष दूर हो ॥ २९ ॥  
इति दशममासबालरक्षा ॥ १० ॥ म्यारहवें महीनेमें सुभहीनाम

ज्वरहो नेत्रमें पीड़ा हो वरडवा करे छर्दि करे ॥ २३ ॥ इसका उपाय प्रथम मासके क्रमसे सब करना चाहिये, परंतु बलिदान उत्तरदिशामें देना चाहिये और मंत्रजापस्नानादि कर्म सब प्रथम मासके अनुसार करने चाहिये ॥ २४ ॥ इत्यष्टममासवालरक्षा ॥

नवमेमासिगृह्णातिवालकंकुभकर्णिका ॥ तच्चेष्टा-  
इरोचकंच्छर्दिर्जर्वरःपातालगन्धता ॥ २५ ॥ कुलमाप-  
पललक्षीरमत्स्यमांसकृतेनच ॥ ऐशान्यांदिशिमध्या-  
हेवलिनामुंचतिग्रही ॥ २६ ॥ इति नवममासेवाल-  
रक्षा ॥ ९ ॥ दशमेमासिगृह्णातिवालकंतापसीग्रही ॥  
तच्चेष्टागात्रविक्षेपःक्षीरद्वेषोऽक्षिमीलनम् ॥ २७ ॥  
पीतंरक्तंतथासुपंमत्स्यमांससुरासवम् ॥ कुलमापंति-  
लपिष्टंचगंधपुष्पाणिचैवहि ॥ २८ ॥ स्वस्तिकाःपा-  
ष्टिकंभकंदिश्युदीच्यांसमाहरेत् ॥ मध्याह्नसमयेन्त-  
नंततोमुंचतिसाग्रही ॥ २९ ॥ इति दशममासेवा-  
लरक्षा ॥ १० ॥ मासिचैकादशोनाम्नागृह्णातिसुग्रही  
शिशुम् ॥ तयागृहीतमात्रस्तुसस्वस्थोनप्रजायते ३०  
नमंत्रंनौपधंतस्यवलिंचापिनदापयेत् ॥ क्रियतेचेद्व-  
लिस्तत्रप्रथमोक्तकमेणवे ॥ ३१ ॥ इत्येकादशमा-  
से वालरक्षा ॥ ११ ॥ द्वादशोमासिगृह्णातिवालकंवा-  
लिक्षण्यही ॥ तच्चेष्टारोक्तंचर्दिःश्यासत्पृष्णायुनः-  
पुनः ॥ ३२ ॥ दध्यन्नतिलकुलमापमोदकाम्बर्वलिह-  
रेत् ॥ मध्याह्नसमयेप्राच्यांततोमुंचतिसाग्रही ॥ ३३ ॥

शीर्खुकपायेणस्नापयेत्तत्प्रशांतये ॥ प्रथमोक्तप्र-  
कारेणशेषमन्यत्समापयेत् ॥ ३४ ॥

इति श्रीकल्याणवैद्यकुते बालतंत्रे मासगृहीत-  
बालरक्षा नामाण्टमः पटलः ॥ ८ ॥

भाषा—नौवें महीनेमें कुंभकर्णिका देवी बालकको यहणकर-  
ती है ॥ उसके लक्षण कहते हैं. प्रथम स्तनपानमें अरुचिहो,  
ज्वर हो, छर्दिहो और जमीन खोदते दफे जैसी सुगंध आवी है  
वैसा बालकके अंगमें गन्ध आवे आंस मीची रखते ॥ २५ ॥  
अब इसका उपाय कहते हैं, बाकले मांस दुग्ध मत्स्यमांस इन द्र-  
व्यों सहित प्रथम मासकी बलिदे, परंतु मध्याह्न समयमें ऐशान  
दिशामें दे और मन्त्रजापादिक सब कर्म प्रथम मासकी रीति  
माफिक करे बालक चंगा हो कुंभकर्णिका देवीका दोष दूर हो  
॥ २६ ॥ इति नवममासबालरक्षा ॥ ९ ॥ दशवें महीनेमें तापसी नाम  
देवी बालकको यहण करती है उसके लक्षण कहते हैं. हाथ पैर  
देदे मारे, स्वन पीवे नहीं, नेत्र मीवे रखते, पेट बन्द रहे ॥ २७ ॥  
अब इसका उपाय कहते हैं, चणाकी दाल, मसूरकी दाल, मछली-  
कामांस, मद्दिरा, बाकले, विलकुट, सुगन्धके फूल ॥ २८ ॥ आटा  
के दीवे ५ सांठी चावलोंका भात यह सब वस्तु एक सहनकर्म  
मिट्ठीकी देवीके आगे रखके मध्याह्न समयमें उत्तर दिशाकी तरफ  
बलिदान दे और मन्त्र जाप स्नान धूप इत्यादिक कर्म प्रथम मासके  
अनुसार करे बालक चंगा हो तापसी देवीका दोष दूर हो ॥ २९ ॥  
इति दशममासबालरक्षा ॥ ३० ॥ ग्यारहवें महीनेमें सुग्रहीनाम

देवी वालकको ग्रहण करती है उसका ग्रहण किया वालक अच्छा नहीं होता है॥ ३० ॥ नवो उस वालककी औपधी है न मंत्र है न वलिदान है कदाचित् वलिदान देनाही हो तो प्रथम मास के क्रम से कर दें॥ ३१ ॥ इत्येकादशमासवालरक्षा॥ ११ ॥ वारहवें महीने में वालिका नाम देवी ग्रहण करती है उसके लक्षण कहते हैं. रोवे बहुत, छर्दिकरे, श्वास हो, प्यास वारवार लगे॥ ३२ ॥ इसका उपाय लिखते हैं—दही, चावल, पके तिल, वाकले, लड्डू यह सब वस्तु मिट्ठी की देवी की मूर्ति के अगाढ़ी पात्र में रखके मध्याह्न समय में पूर्व दिशा में धर आवे ॥ ३३ ॥ दूध वाले वृक्षों के घक्कल को उवाल के वालक को स्नान करावे और वाकी सब मन्त्र-जपादिक कर्म प्रथम मास के माफिक करे वालक चंगा हो वालिका देवी का दोप दूर हो ॥ ३४ ॥

इति श्रीपंडितनन्दकुमारकृतवालतंत्रभापाटीकायामष्टमःपठः ॥ ८ ॥

अथवपेण्यहीतस्यवालकस्यविमुक्तये ॥ वलिवक्ष्या-  
मिसुगमयेनसंपद्यतेसुखम् ॥ १ ॥ प्रथमेन तसरे  
वालं ग्रहीयत्वा तिनं दिनी ॥ अरोचकाक्षिविक्षेपगात्र-  
दाह प्ररोदनम् ॥ २ ॥ यतनं च सदाभूमां चेष्टितं-  
त्रलक्षयेत् ॥ गुडान्दधिकुलमापपोलिकामत्स्य-  
कासवम् ॥ ३ ॥ तिलचूर्णमिपेचेव तिलतेलेन  
दीपकम् ॥ पूर्वादिशं समाग्रित्यविराचनं वलिमाहरेत् ॥ ४ ॥

केशगोखुरगोदन्तैर्बालकं धूपयेत्ततः ॥

स्नापयेत्पंचगव्येन तदासामुंचतिग्रही ॥ ५ ॥

इति प्रथमवर्षे बालरक्षा ॥ १ ॥

भापा—महीनेकी रक्षाविधि कहनेके अनंतर वर्षमें गृहीत हुए बालकके छुटानेके वास्ते सुगम उपाय कहतेहैं जिससे बालकको सुखप्राप्ति हो ॥ १ ॥ पहिले वर्षके विषय नंदिनी-नामदेवी बालकको व्रहण करतीहै उसके लक्षण कहतेहैं, अरुचिहो, नेत्र बंदरकसे, शरीरमें दाह हो, जलाकरे, रोवे बहुत ॥ २ ॥ सदा पृथ्वीमें पडारहे अर्थात् शब्द्या गोदीमें नहीं ठहरे ऐसे लक्षण देखके नंदिनी नाम देवीका दोष कहना । अब इसका उपाय कहतेहैं—गुडके मालपूडे, दही, उडदके बाकले, पूर्णपोछी मदिरा ॥ ३ ॥ तिलकुट, मांस, तिलोंके तेलके दीपक ५, ध्वजा पंचरंगकी ५ यह सब वस्तु एक पात्रमें रखके ३ नमो भगवते रावणाय बालकं मुंच मुंच स्वाहा, इस मंत्रको २१ बार पढ़के ७ बार बालकके ऊपर बारके पूर्वदिशामें धर आवे तीन रात्रि पर्यंत बलिदान दे ॥ १ ॥ पीछे मनुष्यके शिरके बाल, गौका खुर, गौका दांत इनोंकी धूप बालकको दे पश्चात् पंचगव्यसे बालकको स्नान करावे फिर ब्राह्मणोंको भोजन करावे ऐसे करनेसे नंदिनी देवी बालकको छोड देतीहै बालक चंगाहोता है ॥ ५ ॥ इति प्रथमवर्षबालरक्षा ॥ १ ॥

द्वितीयेवत्सरेवालं ग्रही गङ्गातिरोदिनी ॥ रक्तमूत्रं  
ज्वराध्मानं पद्मकेशरवर्णता ॥ ६ ॥ स्फुरते दक्षि-

णंहस्तंरोदनंचपुनःपुनः ॥ तिलपूपककुलमापगु-  
जाग्रदधिमोदकैः ॥ ७ ॥ सफलंसप्रतिच्छादंप्राच्यां  
दिशिवालिहरेत् ॥ धूपयेत्सर्पनिमोकगजीभ्यांमुं-  
चतिग्रही ॥ ८ ॥ इति द्वितीयवर्षे वालकरक्षा ॥  
॥ २ ॥ तृतीयेवत्सरेवालंगृह्णातिधनदाग्रही ॥ अवी-  
क्षणमनाहारंज्वरःशोपांगसादने ॥ ३ ॥ स्फुरणं  
वामपादस्यच्छर्दनंतत्रचेष्टितम् ॥ दधिमांससुराम-  
स्यसप्ताग्रतिलपिष्टकैः ॥ १० ॥ प्रतिमयाफले-  
दीपैःसहोदीच्यांवालिहरेत् ॥ पिच्छैर्मयूरसंभौतेधू-  
पितोमुंचतिग्रही ॥ ११ ॥ इतितृतीयवर्षे वाल-  
रक्षा ॥ ३ ॥ चतुर्थे वत्सरेवालंग्रहीगृह्णातिचंचला ॥  
चेष्टितंतत्रविज्ञेयंज्वरःशासांगसादने ॥ १२ ॥ तिल-  
कृप्णाग्रवासोभिःसार्घंतत्रवालिहरेत् ॥ मेपगृगस्य  
धूपेनततोमुंचतिसाग्रही ॥ १३ ॥

इति चतुर्थवर्षे वालरक्षा ॥ ४ ॥

भाषा—दूसरे वर्षमें रोदिनी नाम देवी वालकको व्रहण  
करती है उसके लक्षण कहते हैं—लाल पेशाव आवे ज्वर हों  
अफराहो कमलकी केसरके माफिक शरीरका वर्ण होजावें  
॥ ६ ॥ दहना हाथफेरके वारवार रोवे अथ इनका उपाय  
कहते हैं—तिल, पुड़े, चाकले, गुडका भात, दही, लद्दू ॥ ७ ॥  
कल किसीरकमका, यह नम वस्तु पूर्व नहनकर्म इसके ऊपर  
दाढ़ रुपड़ा छकके २३ बार नम पढ़के ७ बार वालकके

ऊपर वारके पूर्वदिशामें बलि धर आवे और सांपकी कांचली  
राई इन्होंकी धूप बालकको दे और सब कर्म पहिले वर्षकी  
माफिक करे बालक चंगाहो रोदिनी देवीका दोष दूर हो  
॥ ८ ॥ इति द्वितीयवर्षबालरक्षा ॥ २ ॥ तीसरे वर्षमें धन-  
दानाम देवी बालकको ग्रहण करतीहै उसके लक्षण कहते हैं—  
समीप नहीं देखे, भोजन नहीं करे, ज्वरहो, कंठशोपहो, शरीरमें  
तकलीफहो ॥ ९ ॥ यामा पैर फरके छर्दिकरे इन लक्षणोंसे  
धनदादेवीका दोष जानिये इसका उपाय कहते हैं—दही, मांस,  
मदिरा, मच्छी, सातनाज, तिलकुट ॥ १० ॥ मिट्ठीकी मूर्ति,  
फल दीपक ५, ध्वजा ५, यह सब वस्तु सहनकमें रखके  
२१ बार मंत्रपटके ७ बार बालकपर वारके उत्तर दिशाकी  
तरफ बलि धर आवे और मोरके पंखोंकी धूप देवे और  
कर्म प्रथम वर्षके माफिक करे बालक चंगा हो देवीका दोष  
शांत हो ॥ ११ ॥ इति तृतीयवर्षे बालरक्षा ॥ ३ ॥ चौथे  
वर्षमें चंचलादेवी बालकको ग्रहण करतीहै उसके लक्षण कहते हैं—  
ज्वरहो, श्वासहो, अंग भड़के, अचैनीरहे, आंख भारीरहें, रोवं  
बहुत ॥ १२ ॥ इसका उपाय कहते हैं—तिल काले, गुड, पुडे  
चावल उड्ड, पोली, दीप ७, ध्वजा ५, राई सिरसम, मिट्ठीकी  
पीढ़ी यह सर्व वस्तु एक पात्रमें धत्के काले कपड़ेसे ढकके  
बलि पूर्व दिशामें धर आवे बलि दिन ३ तक करे । मेंढाके  
सींगकीबालकको धूपदे और अन्य कर्म प्रथम वर्षके माफिक  
करे बालक चंगा हो देवीका दोष शांत हो ॥ १३ ॥

इति चतुर्थवर्षे बालरक्षा ॥ ४ ॥

पंचमेवत्सरेवालंग्रहीगृह्णातिनर्तकी ॥ उद्देजनंमुहुर्मू-  
ञ्गात्रस्फुरणसादनम् ॥ १४ ॥ मुखशोपणवैवर्ण्य  
चेष्टितंत्रलक्षयेत् ॥ मत्स्यमूलकमांसानिपक्वाव्रंकु  
शरापयः ॥ १५ ॥ पायसंचसुरामद्यंतिलंचोक्तवालि  
तथा ॥ सफलंसप्रतिच्छन्नंसप्तरात्रंवलिहरेत् ॥ १६ ॥  
राजिकाकेशगोदंतलशुनैरपिधूपयेत् ॥ त्रिसंध्यंसंनि-  
धानेनततोमुंचतिसाग्रही ॥ १७ ॥ इतिपंचमवर्षे  
वालकरक्षा ॥ १ ॥ पष्ठेचवत्सरेवालंगृह्णातियमुना  
ग्रही ॥ तज्जेष्टारोदनोद्धारज्जुभाशोपांगदाहकम् ॥  
॥ १८ ॥ मत्स्यमांसंसकृशरंपोलिकापायसंदधि ॥  
सुरामोदकसंमित्रंप्रक्षिपेचत्वरेवलिम् ॥ १९ ॥ गोरो-  
मखुरश्चैवधूपयेन्मुंचतिग्रही ॥ स्नानंपंचदलेःकार्य  
सुखंभवतिनान्यथा ॥ २० ॥

इति पष्ठवर्षे वालरक्षा ॥ ६ ॥

भाषा—पांचवें वर्षमें नर्तकीनाम देवी वालकको ग्रहण  
करती है उसके लक्षण कहते हैं, कूलहे बहुत वास्तवार मूत्र करे  
गात्र फरके गात्रमें पीड़ा रहे अर्थात् अचैर्नी रहे ॥ १४ ॥  
मुख सूखारहे शरीरका वर्ण विवर्ण हो जावे यह लक्षण  
देखके नर्तकी देवीका दोष जानना। अब इसका, उपाय लिखते हैं  
मिट्टीकी नर्तकी देवीकी मूर्ति बनाके एक सहनकमें रखके  
उसके अगाड़ी यह वस्तु रखें। मच्छी, मूली, मांस, पक्वान्न,  
ग्निचडी, दूध ॥ १५ ॥ सीर, वारुणी भविरा, तिल और प्रथम

बलिमें लिखी हुई वस्तु, आटके दीवे ५, ध्वजा पंचरंगी ५  
 शर्वतकी कुलिहया, पुडे बालके यह सब वस्तु उसी पात्रमें रखने  
 कलभी कुछ रखदेने चाहिये और लाल कपड़ासे ढकके २१  
 बार मंत्र पढ़के ७ बार बालकके ऊपर वारके पश्चिमदिशाकी  
 तरफ धर आवे यह उतारा दिन ७ ताई करे ॥ ३६ ॥ राई,  
 मनुष्यके शिरके बाल, गौके दांत, लहसन इनाँकी धूप बालकको  
 ३ बक्त दिया करेबालक चंगा हो देवीका दोष शांत हो ॥ १७ ॥  
 इति पञ्चमवर्षेवालरक्षा ॥ ५ ॥ छठवें यमुना देवी बालकको यहण  
 करतीहै अब उसके लक्षण कहते हैं—रोवे बहुत, डकार बहुत आवे  
 ज़ैभाई आवें, शरीर सूखता जाय, पेट बंध रहे, अंगमें दाह रहे  
 ॥ १८ ॥ अब इसका उपाय लिखतेहै मिट्ठीकी या आटकी यमुना  
 देवीकी मूर्ति बनाके एक सहनकम्में रखके उसके अगाड़ी मच्छी  
 का मांस, खिचडी, पुरणपोली, खीर, दही, मदिरा, लड्डू, पांच दीपक  
 ५ ध्वजा यह सब रखदे फिर २१ बार मंत्रपढ़के ७ बार बाल-  
 कके ऊपर वारके चुराहामें बलि संध्यासमय धर आवे ऐसे  
 ३ दिनतक करे ॥ १९ ॥ गौके रोम खुर सींग इनकी बाल-  
 कको धूपदेओ और पांच बृक्षोंके पत्तोंकरके बालकको स्नान करावे  
 ब्राह्मणभोजनकरावे बालक चंगा हो यमुना देवीका दोष दूर  
 हो ॥ २० ॥ इति पष्ठवर्षे वालरक्षा ॥ ६ ॥

सप्तमेवत्सरेऽनंताग्रहीगूद्ळातिवालकम् ॥ तयागृही-  
 तमात्रेणत्वंधीभवतिवालकः ॥ २१ ॥ सीदंतिसर्वगा-  
 न्नाणिमुखंचपरिशुष्यति ॥ मूत्रंचक्षवतेनित्यमुद्रेगंच

पुनःपुनः॥२२ ॥ पायसंकृशरामन्त्रं च तिलपिण्डं सुरासव-  
म् ॥ पक्षान्त्रमत्स्यमांसानिदधिभूलं च कंदकम् ॥२३ ॥  
सिद्धार्थं लग्नुने धूपं तिलतैलेन दीपकम् ॥ स्नापनं पंचग-  
व्येन सप्तरामन्त्रं वलिहरेत् ॥ २४ ॥ इति सप्तमवर्षेवाल-  
रक्षा ॥ ७ ॥ अंष्टमेवत्सरेवालं गृह्णाति च कुमारिका ॥  
तयागृहीतमात्रस्तु ज्वरेण परिदद्यते ॥ २५ ॥ सीदं-  
ति सर्वं गात्राणिकं पयंति पुनःपुनः ॥ कृशराचोदनं चै-  
वगंधमालयं तथैव च ॥ २६ ॥ मेषशृंगस्य धूपोऽत्र पूर्व-  
स्यां दिशिचाहरेत् ॥ अयं सिद्धवलिः प्रोक्तो वालकानां  
सुखावहः ॥ २७ ॥

इत्यष्टमवर्षे वालरक्षा ॥ ८ ॥

भापा—सातवेंवर्षमें अनन्ता नाम देवीवालकको व्रहणकरती है  
उसको व्रहणकरनेही से तत्काल वालक अन्धा हो जाता है ॥ २१ ॥  
सर्वशरीरमें पीड़ा हो और दुबला हो जावे मुख सूखा रहे पेशाव  
बहुत आवे, चित्तको उद्रेग रहे आलस्य हो अंग तोड़े ॥ २२ ॥ अब  
उपाय लिखते हैं, चूनकी या मिठीकी देवीकी मूर्ति बनाके, सहनकमें  
रखते उसके अगाढ़ी सीर, खिचड़ी, भात, तिलकूट, मदिरा, पक्षान्त्र  
मत्स्यमांस, दही, मूली, किसी रकमका कंद, जौका आटाके ८,  
दीपक ५, धजा यह सब वस्तु उसी पात्रमें रखके २१ बार मंत्र  
पढ़के ७ बार वालकपर बारके पूर्वदिशा की तरफ जलके  
किनारे धर आवे ॥ २३ ॥ राई तथा लहसनकी वालकको धूपदं  
और वलिमें तिलाँके तेलका दीपक जलाना चहिये और पंच

गव्यसे बालकको स्नान करावे बलिविधान किये पीछे ब्राह्मण-  
भोजन करावे ऐसे बलिविधान ७ दिनतक करना चाहिये  
बालक चंगाहो अनंतादेवीका दूषण दूर हो ॥ २४ ॥ इति  
सप्तमवर्षे बालरक्षा ॥ ७ ॥ आठवें वर्षमें कुमारिका नाम  
देवी बालकको ग्रहण करतीहै उस करके ग्रहणहुए बालकके  
प्रथम ज्वर बहुत बेगसे होय ॥ २५ ॥ सर्व गात्रमें पीड़ा हो,  
कंपे, वारबार छर्द करे, पेट बंद रहे यह लक्षणहो । अब इसका  
उपाय कहते हैं आटाकी या नदीके किनारेकी मट्टीकी मूर्ति देवी-  
की बनाके सहनकमें रखके उसके अगाढ़ी स्थिचढी, चावल, दही,  
सुगंधके फल, पुड़ी पापडी, पूर्णपोली, पकान्न, धजा ५, दीपक  
५, यह सब वस्तु इसके अगाढ़ी रखके २१ बार मंत्र पढ़के,  
७ बार बालकके ऊपर वारके पूर्वदिशामें बलि रख आवे यह  
बलिविधान ३ दिन तक करना चाहिये ॥ २६ ॥ मेडासीगी-  
की बालकको धूप देनी चाहिये पीछे स्नान और ब्रह्मोज्य  
करावे बालक चंगाहो कुमारिकादेवीका दोष दूर होय ॥ २७ ॥

इत्यष्टमवर्षे बालरक्षा ॥ ८ ॥

गृह्णातिनवमेवपेकलहंसाग्रहीशिशुम् ॥ तयागृहीत-  
मात्रेणस्यादाहोज्वरताकृशः ॥ २८ ॥ पोलिकापूर्प-  
दध्यन्त्रेः पंचरात्रिबलिहरेत ॥ १ कुष्ठोग्राराजिलशुनै-  
लेपयेदपिधूपयेत ॥ २९ ॥ स्नापयोग्निवकाथेन  
बालं मुंचतिसाग्रही ॥ इति नवमवपेकलरक्षा ॥ ९ ॥  
गृह्णातिदशमेवपेदैवद्वृतीग्रहीशिशुम् ॥ तच्चेष्टातत्रज्ञात-

व्यानर्त्तनं च प्रधावनम् ॥ ३० ॥ विवद्धं व मनं की-  
 डा हसनं स्वगृहेक्षणम् ॥ यामिया मीति वचनं नेत्रो-  
 गोऽगसादनम् ॥ ३१ ॥ सदापाना सन अद्वा विधुरा-  
 लापनं तथा ॥ कोद्रवौदन कुलमा पापो लिकादधिमो-  
 दकम् ॥ ३२ ॥ प्रणवं सुंच सुंचे ति वियोजय वियो-  
 जय ॥ आगच्छ द्वितयं वालिके स्वाहे ति प्रकीर्ति-  
 तः ॥ ३३ ॥ रक्तान्त्रक पुष्पे श्वत्रिरात्रं वालिमा हरेत ॥  
 तिलैश्वजुहुयात्पञ्चादप्ते तरशतं सुधीः ॥ ३४ ॥

इति दशमवर्षेवालरक्षा ॥ १० ॥

**भाषा—** नौवें वर्षमें कलहंसा नाम देवी बालकको ग्रहण करती है उसके ग्रहण करने से प्रथम बालकके दाहो ज्वरहो दुबला हो जावे औंगमें पीड़ा हो दस्त मूत्र वारंवार आवे छर्दी करे हाथ पैर भढँके ॥ २८ ॥ अब इसका उपाय कहते हैं— पूर्णपोली, पूड़े, दही, भाव, चुर-  
 माकी पीड़ी, खीर, बड़े, सुहाली, दीवे ५ घजा ५ यह सब वलु  
 एक पात्रमें मिट्टी की देवी के अगाढ़ी रखके २१ वार मंत्र पढँके ७  
 वार बालकके ऊपर वारके पश्चिमदिशामें जलके किनारे धर  
 आवे, पांच दिन तक यह बलिदान करना चाहिये और कूट, बड़,  
 राई, लहसन इन करके बालकके शरीरको लेपन करे और  
 इन्हीं की धूप देनी चाहिये ॥ २९ ॥ नौवेंके पत्तोंके काथ से  
 बालकको स्नान करावे बालक चंगा हो कलहंसा देवी का दोष  
 शांत हो ॥ इति नवमवर्षे बालरक्षा ॥ ९ ॥ दशवें वर्षमें देव-  
 दूधी नाम देवी बालकको ग्रहण करती है, उसके लक्षण कहते हैं—

बालक नाचे दौड़े ॥ ३० ॥ ऐट बंदहो वमन करे अनेकर-  
कमकी कीड़ाकरे, हँसे, अपने घरको देसाकरे, जाऊँ जाऊँ ऐसा  
वचन कहै, नेत्रोंमें रोगहो, अंगमें पीड़ाहो ॥ ३१ ॥ सदा स्नान  
पानमें श्रद्धा रखसे विकलतोके वचन कहे ज्वरहो । अब इसका  
उपाय कहते हैं, काली मिट्टीकी मूर्ति देवीकी वनाके सहनकमें  
रखके कूट, अज्ञ, भात, वाकले, पूर्णपोली दही लहू मसूरकी दाल,  
लालफूल, दीपक ५ ध्वजा, ५, तिलकुट, यह सब वस्तु उसके  
अगाड़ी रखसे ॥ ३२ ॥ फिर उँमुंच मुंच वियोजय वियोजय  
आगच्छ आगच्छ बालिके स्वाहा ॥ इस मंत्रको २१ वारपढ़के  
७ वार बालकके ऊपर वारके पूर्वदिशामें जलके किनारे धरआवे  
यह विधान ३ दिन करै. चौथे दिन बालकको स्नान करावे.  
तिलोंका हवन करावे १०८ आहुति देनी चाहिये. बालक  
चंगाहो देवीका दोष शांवहो ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

इति दशमवर्षे बालकरक्षा ॥ १० ॥

वर्षेऽकादशेऽग्नालंग्रहीण्ड्रितिकालिका ॥ तयागृही-  
तमात्रेणज्वरःस्यात्प्रथमंततः ॥ ३५ ॥ कासश्वा-  
साक्षिरोगश्चकाकरावोंगसादनम् ॥ पोलिकागुडकु-  
र्माषशप्कुलीशाकमोदकैः ॥ ३६ ॥ पक्मत्स्या-  
मिषक्षीरैःसंयुक्तं वलिमाहरेत् ॥ त्रिरात्रं निवसिद्धायैं-  
श्रृंपयेन्मुंचतिग्रही ॥ ३७ ॥ अगुक्तमपियत्कर्म  
प्रथमोत्तकमेणवै ॥ सर्वविधिविदाकार्यं तेन संपद्य-  
ते सुखम् ॥ ३८ ॥ इत्येकादशवर्षेऽग्नालरक्षा ॥ ११ ॥

द्वादशेवत्सरेवालंगृह्णातिवायसीयही ॥ तच्चेष्टाव-  
क्रसंशोपोज्वरोजूंभांगसादनम् ॥ ३९ ॥ रक्तद्र-  
व्येवर्बलितव्रहरेन्मुंचतिसाग्रही ॥ स्नापनंपंचगव्येन  
धूपोनिवेनमर्पये ॥ ४० ॥ इति द्वादशवर्षेवाल-  
रक्षा ॥ १२ ॥ वर्षेत्रयोदशेवालंग्रहीगृह्णातियक्षिणी ॥  
तच्चेष्टाचहृद्रोगंज्वरोदनहासनम् ॥ ४१ ॥ शास्त्रो-  
दनसुरामासमत्स्यकुलमापपायसैः ॥ दद्यात्स-  
कृशरंप्रोक्तिर्मध्याह्नेवलिमाहरेत् ॥ ४२ ॥

इति त्रयोदशवर्षे वालरक्षा ॥ १३ ॥

भाषा-ग्वारहवें वर्षमें कालिकानामदेवी वालकको ग्रहण  
करती है उसके लक्षण कहते हैं-प्रथम वालकको ज्वरहो ॥ ३५ ॥  
खांसीहो, श्वासहो, नेत्रदूसे, कांकां शब्दकरे, रोंगे बहुत, अंगमें  
पीड़ाहो अर्थात् अंगको बहुत तोड़े ॥ अब इसका उपाय  
लिखते हैं, पूर्णपोली, गुड़, उटदके, वाकले, कचोरी, किनीरकमका  
शाक, लड्डू ॥ ३६ ॥ पूर्णी, लपसी, पकाहुवा मच्छीका मांस, दूध,  
चावल, दीपक आध्वजा पूर्यह सबवस्तु एकसहनकर्म में रखके २१ वार  
मंत्र पढ़के ७ बार वालकके ऊपर वारके पूर्वदिशाकी तरफ वृक्षके  
तले घर आवे और नींवके पत्ते राई इनकी वालकको धूप देनी  
चाहिये यह वलिविधान तीनदिनतक करना चाहिये ॥ ३७ ॥ और  
तीन दिन पीछे त्वानकर्म ब्रह्मोज पूर्वोक्त प्रकारसे सब कर्म  
करावे, कालिका देवीका दोष शांत हो वालक चंगा हो ॥ ३८ ॥  
इस्येकदशवर्षेवालरक्षा ॥ ११ ॥ बारहवें वर्षमें वायसीनाम देवी

बालकको व्रहण करती है, जिसके लक्षण कहते हैं, बालकका मुख सूखा रहे ज्वर हो ज़ैंभाई बहुत आवें, अंगमें पीड़ा हो ॥ ३९ ॥ अब इसका उपाय लिखते हैं, नदीके किनारेकी मट्ठी लायके देवीकी मूर्ति बनाके एक सहनकमें रखके उसके अगाड़ी गुड, पूड़ी, लपसी, बाकले, तिलकूट, लड्ढू, राखकी पिंडी, सरसम, राई, दीवे ५, ध्वजा ५ यह सब वस्तु धरके २३ वार मंत्र पढ़के ७ वार बालकके ऊपर वारके दक्षण दिशामें बृक्षतले संध्यात्मय धर आवे, तीन दिन पर्यंत बलि देवे; चौथे दिन पंचगव्यसे बालकको स्नान करावे, नींबुके पने सरसम इनाँकी धूप बालकको देनी चाहिये त्रालणाँको भोजन करावे वायसी देवीका दोप शांत हो बालक चंगा हो ॥ ४० ॥ इति द्रादशवर्षे बालरक्षा ॥ १२ ॥ तेरहवां वर्षमें यक्षिणी नाम देवी बालकको व्रहण करती है, अब उसके लक्षण कहते हैं, प्रथम बालकके हृद्रोग हो, ज्वर हो, रोवे बहुत, किसी वस्तु हँसने लगे ॥ ४१ ॥ अब इसका उपाय लिखते हैं, आटाकी मूर्ति देवीकी बनाके एक सहनकमें धरके उसके अगाड़ी भात पकाहुआ, शर्वितकी कुलिहया, मदिरा, मांस, मच्छी, बाकली, सीर, खिचडी, धूप, दीपक ५, ध्वजा ५, फूल यह सब वस्तु उसी सहनकमें रखके ७ वार मंत्र पढ़के ७ वार बालकके ऊपर वारके मध्याह्न समय पश्चिमदिशामें बृक्षके तले धर आवे दिन ३ तक बलिकरे पीछे बालकको स्नान त्रयम भोज पूर्वोक्तकमते करावे बालक चंगा हो यक्षिणी देवीका दोष दूर हो ४२ ॥

इति त्रयोदशवर्षे बालरक्षा ॥ १२ ॥

वर्षेचतुर्दशेवालं स्वच्छं दानामतोग्रही ॥ गृह्णाति चे-  
 कुतव्स्याच्छोणितस्वर्णं सदा ॥ ४३ ॥ शूलं च नाभि-  
 देशो स्यात्तवना स्तिप्रतिक्रिया ॥ श्रमस्तुव्यर्थतांया-  
 तितस्मात्तवनकास्येत् ॥ ४४ ॥ इति चतुर्दशव-  
 र्षेवालरक्षा ॥ १४ ॥ अथ पंचदशवर्षेगृह्णीतेवा-  
 लकंकपी ॥ तयाग्रहीतमात्रस्तुभूम्यां पततिनिःस्व-  
 नः ॥ ४५ ॥ ज्वरञ्जायतेतीव्रो निद्रात्यंतं प्रजायते ॥  
 पायसंकृशरामां संकुर्लमापं च सुरासवम् ॥ ४६ ॥  
 पूपकाः पोलिकाश्वैव पुष्पाणिपांडुराणिच ॥ स्नापनं  
 पंचगव्येन धूपनं वत्सकत्वचा ॥ ४७ ॥ दिनत्रयं प्रदो-  
 पेतु बलिद्वाद्विचक्षणः ॥ सुखं भवति तेनाशुनात्रका-  
 र्याविचारणा ॥ ४८ ॥ इति पंचदशवर्षेवालरक्षा ॥ १५ ॥

भाषा-चौदहर्वे वर्षमें स्वच्छं दाना नाम देवी वालकको व्रहण करती है उसके लक्षण कहते हैं प्रथम वालकके मुखसे नासिकासे सून पढ़े, ज्वरहो ॥ ४३ ॥ नासिकमें शूल हो, तृपा लगे, वमन करे इस वर्षमें चिकित्सा श्रम और वलि विधानका पारिश्रम सर्व निष्कल हो जाता है इस वास्ते कुछ करना नहीं चाहिये अबे देवेच्छा वली-यसीति ॥ ४४ ॥ इति चतुर्दशवर्षे वालरक्षा ॥ १४ ॥ पंद-हर्वे वर्षमें वालकको कपीनाम देवी व्रहण करती है उसके लक्षण कहते हैं वालक पृष्ठीमें मोनेकी बहुत इच्छा करे, कूलहे बहुत या विलकूल कूलहे नहीं ॥ ४५ ॥ ज्वर बढ़ा तेजहो, निद्रा बहुत आये, दमनहो, अंग कंपे, चित्तभ्रमहो अब इसका उ-

याय लिखते हैं नदीके पूर्व पश्चिमकेतरफकी मट्ठी लाके देवीकी  
मूर्ति बनाके एक सहनकमें रखके उसके अगाड़ी एक सराईं  
खोरकी रखसे खिचडी, मांस, बाकले, मदिरा, आसव ॥ ४६ ॥  
पुड़े, पूर्णपोली, सिरसम, सफेद फूल, दीपक ५, घजापु यह सब  
उसी पात्रमें रखके मंत्र २ बार पढ़के ७ बार बालकके ऊपर बार-  
के प्रदोषके बरत बृशतले धर आवे बालकको चौथे दिन पंच-  
गव्यसे स्नानकरावे कूदालकीछाल, दालचीनी इनकी बालकको  
धूप देवे ॥ ४७ ॥ यह बलिविधान दिन ३ तीनतक देना चा-  
हिये जिससे देवीका दोष शांतहो बालक चंगा हो ॥ ४८ ॥ इति  
पंचदशवर्षे बालरक्षा ॥ १५ ॥

पोडशेवत्सरेवालंग्रहीगृह्णातिदुर्जया ॥ तयाछर्दिर्ज्व-  
रःकंपोयास्यामीतिवचोवदेत् ॥ ४९ ॥ कुलमापकृश-  
रापूपतिलपिष्टान्नदीपकैः ॥ दग्धासहवलिंदद्यात्प्रा-  
च्यांदिरिदिनत्रयम् ॥ ५० ॥ धूपयेद्गोनखशृंगल-  
शुनैमुंचतिग्रही ॥ स्नापयेत्पंचगव्येन तिलतोयेन  
बालकम् ॥ ५१ ॥ इति पोडशर्वपवालग्रहरक्षा ॥ १६ ॥

इति कल्याणवैयक्तिवालतंत्रे वर्षप्रयहगृहीतवालरक्षाकथ-

नं नाम नवमः पट्टः ॥ ९ ॥

मापा—सोलहवें वर्षमें दुर्जया नाम देवी बालकको ग्रहण  
करती है उसके लक्षण कहते हैं प्रथम बालक वमन करे ज्वर हो,  
शरीर कंपे नींद आवे मुस्से जाऊंजाऊं ऐसा वचन कहे ॥ ५२ ॥  
इसका उपाय लिखते हैं नाकले, खिचडी, पुड़े, तिलकूट, कचोरी,

दही, सीरापुरी, दीपक ५ ध्वजा पृष्ठांचरंगकी यह सब एक सह-  
नकर्मे धरके २१ बार पूर्वोक्त मंत्र पढ़के ७ बार बालकके ऊपर  
बारके पूर्व दिशामें वृक्षके तले संध्यासमय धर आवे ऐसे तीन ३  
दिनतक यह वलिविधान करना चाहिये ॥ ५० ॥ चौथे दिन  
बालकको गौका खुर और सींगकी धूप देना चाहिये फिर पंच-  
गव्यसे स्नानकराके पीछे पानीमें तिल गेरके शुद्ध स्नान करावे  
ब्राह्मणोंको भोजन करावे, बालकको नवीन बब्र पहरावे  
देवीका दोष शान्त हो बालक चंगा हो ॥ ५१ ॥ इति पोडश-  
वर्पे बालरक्षा ॥ १६ ॥

इति श्रीपंडितनंदकुमारवैद्यकृतवालतंत्रभाषादीकायां नदनेः पटल ॥ १ ॥

दिनेमासेचवर्पेचवालशांतिंवदाम्यहम् ॥ प्रथमेदि-  
वसेमासेवर्पेयोगिनिमातृका ॥ १ ॥ पूतनानंदि-  
नीनान्नावालकंकमतेयदा ॥ तद्गृहीतस्यवालस्य  
ज्वरःस्यात्प्रथमंततः ॥ २ ॥ गात्रशोपस्तथास्वे-  
दोनाहारेच्छाभृशंभवेत् ॥ छर्दिमूर्च्छाचकंपञ्चत-  
थादीनस्वरोभवेत् ॥ ३ ॥ विधानंतचवश्यामि  
येनमुच्चतिपूतना ॥ नदीमृत्तिकयाकुर्याच्छोभनां  
पुत्तिकौततः ॥ ४ ॥ शुक्लाद्नंशुक्लगंवंतथागंधा-  
शुलपनम् ॥ शुक्लपुण्पाणिवेषञ्चध्वजाः पंचग्रदीप-  
काः ॥ ५ ॥ स्वस्तिकाः पंचपूर्वाह्लेपूर्वस्त्वांदिशि  
संयतः ॥ वालिंदद्याद्योराजसंपोशीरमेवच  
॥ ६ ॥ शिवनिर्माल्यमाजरनृकेशान्निवपत्रकम् ॥  
गव्यघृतंतथैतेनधूपयेच्चेववालकम् ॥ ७ ॥ एव

दिनत्रयं कृत्वा चतुर्थे शांतिवारिणा ॥ स्नापयेद्वाल-  
कं पश्चाद्वाहणां शापि भिक्षुकान् ॥ ८ ॥ क्षीरेण  
भोजयेदेवं स्वस्थो भवति बालकः ॥ वक्ष्य माणेन मंत्रेण  
अष्टोत्तरशतं जपेत् ॥ ९ ॥ शांतिवारि तुतत्प्रोक्तं  
सर्वांगम विशारदैः ॥ पूजायां च लिदाने च स्नापने मं-  
त्र असुच्यते ॥ १० ॥ मन्त्रः ॥ त्रिशाविष्णु श्रुद्रश्च  
स्कन्दो वै त्रवणस्तथा ॥, रक्षं तुत्वारि तं बालं सुंच सुंच-  
कुमारकम् ॥ ११ ॥

इति प्रथम दिवसमात्वर्षं ग्रहगृहीत बालरक्षाविधिः ॥ १ ॥

भाषा—अब दिवसमें मासमें वर्षमें ग्रहण हुए बालककी  
शांति कहते हैं ॥ प्रथम दिवसमें प्रथम मासमें प्रथम वर्षमें बाल-  
कके कट होजावे तो उस बालकको नंदिनी नाम करके देवी  
ग्रहण करती है उसके योगिनी मातृका पूतना यह पर्यायशब्द हैं  
अब उसके लक्षण कहते हैं प्रथम ज्वरहो ॥ १ ॥ २ ॥ गात्र सूखे, पसीना आवे, भोजनकी इच्छा विलकुल होवे नहीं  
छढ़ी करे, मृद्गी हो, शरीर कंपे, मन्दस्वर होजावे ॥ ३ ॥ अब  
उसका उपाय कहते हैं जिससे पूतना उसको छोड़दे नदीके दोनों  
किनारोंकी मट्ठी लाके सुंदर देवीकी मूर्ति बनाके ॥ ४ ॥ एक  
सहनकमें रखके उसके अगाड़ी सफेदभात कपूर लोहवान सफेद  
चन्दन सफेदफूल पंचरंगकी ५ घजा ५ दीपक ॥ ५ ॥ पाँच  
५ चूनकंशाथिए पूड़ा मुहाली पांच रकमकी मिठाई यह सब  
वस्तु उमी सहनकमें रखके अगाड़ी लिखा मंत्र २१ वार पढ़के

उ वार वालकके ऊपर वारके पहरभरदिन चढे पूर्वदिशामें मौनै  
धारण करकै बलि दे आवे पीछे राई, खस ॥ ६ ॥ आकके पूल  
विद्धीके वाल, मनुष्यके शिरके वाल, नींवके फत्ते, गौका थी, इन  
द्रव्योंसे वालकको धूनी देनी चाहिये ॥ ७ ॥ ऐसे तीन दिन  
पर्यंत कर्म करे चौथे दिन मंत्रसे मंत्रित जल करके वालकको  
स्नान करावे और ब्राह्मणोंको भिक्षुकोंको ॥ ८ ॥ सीरका  
भोजन करावे ऐसा करनेमें वालक चंगाहो देवीका दोप शांतहो  
अगाढ़ी कहाहुया मन्त्र एकसौ आठ १०८ वार जपके जलको  
मंत्रित करे उसको शांतिवारी पंडित कहतेहैं पूजामें बलिदानमें  
स्नान करानेमें इसी मन्त्रको पढ़ना चाहिये सो कहतेहैं ॥ ९ ॥  
॥ १० ॥ “ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कंदो वैश्रवणस्तथा ॥ रक्ष्यु-  
त्वरितं वालं मुंचमुंच कुमारकम्” ॥ ११ ॥ अयं मंत्रः ॥

इतिप्रथमदिवसमासवर्यग्रहगृहीतवालकरक्षाविधिः ॥ १ ॥  
द्वितीयेदिवसेमासेहायनेचसुनंदनी ॥ गृह्णातिपूत-  
नावालयोगिनीस्तनदाऽपिवा ॥ ३२ ॥ ततोभ-  
वेज्ज्वरः पूर्वसंकोचंहस्तपादयोः ॥ दंतान्खादति  
नियतंनिमीलयतिचक्षुपी ॥ १३ ॥ आहारं चन  
गृह्णातिदिवारात्रं चरोदिति ॥ अक्षिरोगं छर्दनेचभवे-  
द्ग्राति पुनः पुनः ॥ कृत्वं जायतेत्यंतं चिह्नमेतत्प्र-  
कीर्तिम् ॥ १४ ॥ तं दुलप्रस्थपिष्टेन विनिर्माया-  
थपुत्तिकाम् ॥ अव्रंदरात्र्यजादीपाः स्वस्तिकाधाव-  
लौदनम् ॥ १५ ॥ प्रस्थप्रमाणपिष्टेन सिद्धापूपा-

श्रमतस्यकाः ॥ मांसंचेत्येतदखिलं पश्चिमायां दि-  
शिक्षिपेत् ॥ १६ ॥ पश्चिमायां च संध्याया मेवं द-  
याद्विनत्रयम् ॥ धूपं मंत्रजपं स्नानं पूर्वोत्तेन क्रमेण वै  
॥ १७ ॥ प्रणवो हृदयं चामुङ्डायै विचेततः परम् ॥  
ततो ह्रां द्वितयं ह्रीं च ह्रं ह्रं दुष्ट्रहावदेत् ॥ १८ ॥ ततो  
गच्छन्त्वतः स्थानाद्वुद्राज्ञयाऽनलांगना ॥ सर्व-  
कायेषु मंत्रोऽयं सुखदः स मुदाहृतः ॥ १९ ॥

इति द्वितीय दिवस मासवर्ष प्रहृष्टो तवालरक्षाविधिः ॥ २ ॥

भाषा—दूसरे दिवसमें दूसरे महीनेमें दूसरे वर्षमें बालकके कष्टहो उसको सुनन्दनानामकरके पूतना अहण करतीहै उसको योगिनीभी कहते हैं वह स्तनका नाश करनेवाली होतीहै ॥ १२ ॥ अब उसके लक्षण कहते हैं—प्रथम बालकके ज्वर हो, हाथ पैरको संकोच रखते दातोंको बहुत चावाकरे नेत्रोंको भीचे नहीं ॥ १३ ॥ भोजन किसी तरह का नहीं करे, दिन रात्रि रोया करे, नेत्रमें रोग हो, वमन करे और भय वारंवार लगे, शरीर दुबला बहुत हो जावे ॥ १४ ॥ अब इसका उपाय कहते हैं—सेरभर चावल-के चूर्णकी मूर्ति बनाके उसको मिट्ठीकी सहनकमें रखके उसके अगाढ़ी गेहूं दश १० घजा १० दीपक और १० चूनके शथिए चावल पकेहुए ॥ १५ ॥ सेरभर पूड़े मच्छी मांस यह संपुर्ण वस्तु उसी पात्रमें रखके ॥ १६ ॥ संध्यासमयमें २३ बार मंत्र पढ़के ७ बार बालकके ऊपर बारके पश्चिम दिशाकी तरफ बढ़ि दे आवे ऐसे तीन रोज करना चाहिये धूप मंत्रका जप

र्नात यह नव वस्तु पूर्वकमके अनुमार करना चाहिये ॥ ३७ ॥ अऽनमश्चामुंडायै विचेद्रांद्रांद्रीद्रांद्रूंदुष्टाग्रहा मच्छ-  
न्त्वतःस्थानाद्रुद्राज्ञवा स्वाहा इभीको पढ़ना चाहिये ॥ ३८ ॥ ॥ ३९ ॥ इतिद्वितीयदिवसमासवर्पयहगृहीतवालरक्षाविधिः ॥ २॥

तृतीयेदिवसेमासेवर्पेणृद्गातिपूतना ॥ गात्रमंगः प्र-  
लापश्वकंपोज्वरस्तथारुचिः ॥ २० ॥ निमीलनंन-  
यनयोरोमांचोद्वमनंतथा ॥ प्रस्थप्रमाणपिष्टेनपुत्ति-  
कांरचयेत्ततः ॥ २१ ॥ रक्तोदनंध्वजारक्तास्वस्ति-  
कंरक्तमेवच ॥ रक्तपुष्पंरक्तगंवंतथारक्तानुलेपनम् ॥  
॥ २२ ॥ पश्चिमायांचसंध्यायायामुदीच्यानिक्षिपे-  
द्वलिम् ॥ प्रथमोक्तप्रकारेणस्नानंमंत्रंसमाचरेत् ॥  
॥ २३ ॥ इतितृतीयदिवसमासवर्पयहगृहीतवालक  
रआविधिः ॥ ३ ॥ चतुर्थेदिवसेमासेवर्पेणृद्गाति  
वालकम् ॥ मुखमंडलिकानामादेवीचाकाशयोगिनी  
॥ २४ ॥ गात्रमंगोनतिर्मूङ्गोदौर्वल्यंचाक्षिमीलन-  
म् ॥ वैवर्ण्यश्यामताश्वासःकासोरुचिरनिद्रिताम्  
॥ २५ ॥ तिलपिष्टमयीकृत्वापुत्तिकांविलवकंटकैः ॥  
अष्टांगेखयेच्छेतपुष्पंशुकृध्वजाऽर्जुनः ॥ २६ ॥ स्वस्तिकाःप्रस्थभक्तंचप्रस्थचूर्णस्यपूपकाः ॥ त्रिसं-  
ध्यंपश्चिमायांतुवलिद्व्यात्ययत्नतः ॥ अर्द्धप्रस्थमि-  
तास्तत्रपोलिकाःसंप्रकीर्तिताः ॥ २७ ॥ गोग्रन्नल-

शुनं सर्पनिर्मोक्षो निवपत्रकम् ॥ मनुष्यके शमाजार-  
रोमाण्या ज्यंचगोस्तथा ॥ २८ ॥ एतेच्च धूपयेद्वालं  
संध्यायां च दिनत्रये ॥ मंत्रस्तानादिकं सर्वप्रथमोक्त-  
क्रमेण वै ॥ २९ ॥

इति चतुर्थदिवसमांसवर्षयहगृहीतवालरक्षाविधिः ॥ ४ ॥

भाषा— तीसरादिवस तीसरा महीना तीसरावर्ष इनके विषय  
बालक के कट होने से उसको पृतना नाम करके देवी व्रहण  
करती है उसके लक्षण कहते हैं प्रथम गात्रभंग हो, प्रलाप हो, कंप  
हो, ज्वर हो, अरुचि रहे ॥ २० ॥ नेत्र भीचे रख्खे, रोमावली खड़ी  
हो, बमन करे, अब तिसका उपाय लिखते हैं ॥ तेर भर गेहूं के  
आटाकी मूर्ति देवीकी बनाके उसको मट्ठीकी सहनकम्भे रखके  
उसके अगाढ़ी लालभात लाल भजा चूनकं शथिए रक्तचंदनलाल  
फूलरोली और मूर्तिको लालचंदन कालेपन करदेनाचाहिये ॥ २१ ॥  
॥ २२ ॥ सार्यकालमें संध्याके समय यह संपूर्णघस्तु सहनकम्भे  
रखके २१ वारपूर्वोक्त मंत्रपढ़के ७ वार बालक के ऊपर वारके उन्नर  
दिशामें बलि दे आवे और स्नान मन्त्र जप धूपादिक सर्व वत्तु  
पूर्वोक्त प्रकार से करे ॥ २३ ॥ इति तृतीयदिवसमात्सर्वप्रयहगृहीत-  
वालकरक्षाविधिः ॥ ३ ॥ चौथेदिन चाँथ मास चौथेवर्षके वि-  
पय बालक के कट होने से उसको मुसमंडलिका नाम देवी व्रहण  
करती है ॥ २४ ॥ अब उसके लक्षण कहते हैं— गात्रभंग हो  
शिरको नीचा रखते, दुर्बलता रहे, नेत्र भीचे रखते, अंगको वि-

वर्णवा और श्यामता हो, खास, कास, अरुचिहो, निशा नहीं आवे ॥ २५ ॥ अब इसका उपाय लिखते हैं—तिलकी पीढ़ीकी पूर्ति देवीकी बनाके मट्टीके पात्रमें रखके बेलके कांटेसे उस मूर्तिके आठों अंगोंमें रेखा करदे उसके अगाढ़ी सफेद फूल, सफेद ध्वजा, अर्जुन वृक्षका पुष्प ॥ २६ ॥ गेहूके चूनके शथिए और सेर १ भर भात पकाहुआ सेरभर चूनकेगुड़के पूडे, आधा सेर पूर्णपोली, दीपक ५ ध्वजा ५ यह सब बस्तु उसी पात्रमें रखक २१ वार पूर्वोंके मन्त्र पढ़के ७ वार बालकके ऊपर वारके पश्चिम दिशाकी तरफ वृक्षके नीचे धर आवे यह जरन दिनमें श्रातःकाल मध्याह्न व सायंकालमें करना चाहिये ॥ २७ ॥ गौका सींग, लहसन, सांपकी कांचली, निंवके पचे, मनुष्यकेमाथेके बाल विष्ठीके रोम गौका धी ॥ २८ ॥ इनाँकी धूप बालकको देवे दिन तीन सन्ध्याके समय और मन्त्रजप स्नान यह कर्म पूर्वोंके क्रमसे करना चाहिये ॥ २९ ॥

इति चतुर्थदिवसमात्सर्वघृहीतबालरक्षाविधिः ॥ १ ॥  
 पंचमेदिवसेमासेवपेंचैवविडालिका ॥ द्विकांशासश्च  
 शूलंचगात्रभंगोऽरुचिस्तथा ॥ ३० ॥ ज्वरस्तत्र  
 विशेषणभवत्येवनसंशयः ॥ तंदुलप्रस्थपिष्टेनवि-  
 निर्मायाथपुत्तिकाम् ॥ ३१ ॥ शुक्रोदनंध्वजाः  
 पंचस्वस्तिकाःपंचचोज्ज्वलाः ॥ पंचप्रदीपाःशुक्रानि  
 कुमुमानिचचंदनम् ॥ ३२ ॥ अपरद्वाक्षमूलेपश्चि-  
 मायांदिशिक्षिपेत् ॥ चतुर्थोक्तप्रकारेणवूपोदेयः

प्रयत्नतः ॥३३॥ मन्त्रः ॥ अँभगवतिचोच्चार्यहींहीं  
हुँहुंततः परम् ॥ मुंचरक्षांकुरुकुरुबलिंगृह्लद्यन्त-  
था ॥ ३४ ॥ अस्त्रंठदितयंचामुंडेर्शर्वरिचंडिके ॥  
ठःठःस्वाहासमाख्यातोमंत्रोबलिनिवेदने ॥ ३५ ॥

इति पंचमदिवसमासवर्षश्चहृषीतवालरक्षाविधिः ॥ ५ ॥

भाषा—पांचवाँ दिवस पांचवाँ मास पांचवें वर्षके विषय  
बालकके कटहो उसको बिडालिका देवी व्रहण करती है अब  
उसके लक्षण लिखते हैं हुचकी आवे भास हो शूल उदरमें हो  
गात्रमें भडकहो अहंचि रहे ॥ ३० ॥ और ज्वर बढ़ा तेज रहे  
अब इसका यत्न लिखते हैं १ सेर भर चावलका आटा पीसके  
उसकी देवीकी मूर्ति बनाके बट्टीके पात्रमें रखके उसके अगाड़ी  
यह वस्तु रखते ॥ ३१ ॥ सफेद भात पकाया हुआ, ध्वजा  
सफेद पुग्हेंके आटाके शंथिए और ५ दीपक, सफेद फूल,  
सफेद चंदन ॥ ३२ ॥ यह सर्व वस्तु उसी पात्रमें रखके संध्याके  
समय २१ बार मंत्र पढ़के ७ बार बालकके ऊपर बारके पश्चिम  
दिशाकी नरक वृक्षके नीचे बलि धर आवे और चतुर्थ दिन  
मास वर्षके विधानमें जो धूप लिखी है सो धूप बालकको देना  
चाहिये ॥ ३३ ॥ मन्त्रः ॥ यह चौतीसके और पैंतीसके श्लोक-  
में मंत्रका उद्धार होता है उसका यह स्वरूप है अँभगवति हींहीं  
हुँहुं मुंच रक्षां कुरुकुरु बलि गृह्लगृह्ल अस्त्रं ठःठः चामुंडे शर्वरि  
चंडिके ठःठःस्वाहा इसी मन्त्रको जाना चाहिये ॥ ३४ ॥ ३५ ॥  
इति पंचमदिवसमासवर्षश्चहृषीतवालरक्षाविधिः ॥ १ ॥

पष्टेतुदिवसेमासेवपेंपाद्विरिकाऽग्रहीत ॥ तच्चेष्टगा-  
 त्रविक्षेपोहास्यंरोदनमोहनम् ॥ ३६ ॥ कुष्ठगुण्डुलु-  
 सिद्धार्थगजदन्तैघृतङ्गैः ॥ धूपयेष्वपयेच्चापिततो  
 मुञ्चतिसाग्रहा ॥ ३७ ॥ वलिदानादिकंसर्वप्रथमो-  
 त्तक्तमेणवै ॥ एवंकृतेनविधिनावालकःसुखतांत्र-  
 जेत् ॥ ३८॥ इति पष्टदिवसमासवर्षग्रहगृहीतवाल-  
 करक्षाविधिः ॥ ६ ॥ सप्तमेदिवसेमासेवपेंचेवतुका-  
 लिका ॥ तत्रापिचेष्टादृष्टव्याछर्द्धरोचककम्पनम्  
 ॥३९॥ कासश्वासौचविज्ञेयौतत्रनास्तिप्रतिक्रिया ॥  
 एवंसतितुकर्तव्याग्रथमोत्तक्तमेणवै ॥ ४० ॥ इति  
 सप्तमदिवसमासवर्षग्रहगृहीतवालरक्षाविधिः ॥७॥  
 अष्टमेदिवसेमासेवपेंगृह्णातिकामिनी ॥ तयागृहीत-  
 मात्रेणज्वरस्तापभयंभवेत् ॥ ४१ ॥ आहारंचन  
 गृह्णातिमुखंचपरिशुप्त्यति ॥ कूलद्वयमृदाकृत्वापु-  
 तिकांसुमनोहराम् ॥ ४२ ॥ गोधूमान्नंमस्त्रान्नशाक-  
 अपललंतथा ॥ ध्वजाःपंचसमाख्याता दीपकाः पंच  
 पोलिकाः ॥ ४३ ॥ गुण्डुलेनचसंधूप्यरक्तचन्दनपुष्प-  
 कैः ॥ पूजयेद्यत्नतःपूर्वमंत्रेणैवसुमंत्रिणा ॥ ४४ ॥  
 मन्त्रस्नानविशेषस्तुप्रथमोत्तक्तमेणवै ॥ एवंकृतेशि-  
 शूनांवैसुखंचेवप्रजायते ॥ ४५ ॥ इत्यष्टमदिनमास-  
 वर्षग्रहगृहीतवालरक्षाविधिः ॥ ८ ॥  
 भाषा—छठा दिन स छठा महीना छठावर्षविषय बालकके कष्ट

होय उसको पट्टारिका देवी ग्रहण करती है अब उसके लक्षणं कहते हैं—ज्वरहो, अंग फूटे, हँसे, किसी वक्त रोने लगजाय और मोह करे ॥ ३६ ॥ अब उपाय लिखते हैं—कूट, गूगल, राई, हाथी-दांत इनको वीर्म मरकोयके बालकको धूनी दे और उसके शरीरको उद्वर्तन करानेसे देवी छोड़ देती है ॥ ३७ ॥ और बलिदान मंत्रजप स्नानादिक सब कर्म प्रथम दिन मास वर्षकी रीतिसे करने चाहिये ऐसे करनेसे बालकको सुख प्राप्त होता है और देवीका दोष दूर हो जाता है ॥ ३८ ॥ इति पृष्ठदिवस-मासवर्षबालयहरक्षाविधिः ॥ ६ ॥ सातवाँ दिवस सातवाँ मास सातवाँ वर्षके विषय बालकको कट होय उसकी कालिका देवी ग्रहण करती है उसके लक्षण कहते हैं प्रथम छर्दि हो, अलचि रहे, शरीर कंपे ॥ ३९ ॥ खाँसी श्वासहो ऐसे लक्षण होनेसे बालककी चिकित्सा करनी चाहिये और प्रथम दिवस मास वर्षके विधानके क्रमसे बलिविधान, मंत्रजप, स्नान, धूपा-दिक कर्म करावे ब्रह्मोजन करावे साधुसंत अतिथि इनोंको भोजन करावे दानादिक करावे ईश्वरकी लृपासे धालक चंगा हो जावे ४० ॥ इति सप्तमदिवसमासवर्षयहगृहीतबालकरक्षाविधिः ॥ ७ ॥ आठवाँ दिवस आठवाँ महीना आठवाँ वर्षके विषय बालकको कट होनेसे कामिनी देवी ग्रहण करती है अब उसके लक्षण कहते हैं—उसके ग्रहणमात्रकरके प्रथम बालकको ज्वर हो और शरीर बहुत तम रहे ॥ ४१ ॥ खाय कुछ नहीं, मुख सूखारहे, शरीर शीतल होजावे अब इसका उपाय लिखते हैं

जलकी पूर्व पश्चिम किनारोंकी मिट्ठी लावे उसकी सुन्दर देवीकी मूर्ति बनाके उसको मृत्तिकाके पात्रमें रखके ॥ ४२ ॥ उसके अगाड़ी गेहूं, मसूर, हराशाक, मांस, पांचरंगकी पृथ्वजा, दीपक ५, पूर्णपोली यह सब वस्तु उसी पात्रमें रखके २१ वार मंत्र पढ़के ७ वार बालकके ऊपर वारके पश्चिमदिशामें संध्यासमय बलिदे ॥ ४३ ॥ और बालकको गूगलकी धूपदे और लालचन्दन, लाल पुष्प इन्होंसे देवीका पूजन करे और मंत्रका जाननेवाला पुरुष पूर्व मंत्र करके पूजन करे ॥ ४४ ॥ और मंत्र, जप, स्नान यह सब कर्म पांचवें दिन मास वर्षके विधानके क्रमसे करादेना चाहिये ऐसे करनेसे बालकोंके सुख हो देवीका दोष दूर हो ॥ ४५ ॥

इत्यष्टमदिवसमासवर्षप्रहृष्टीतवालकरक्षाविधिः ॥ ८ ॥

नवमेदिवसेमासेवपेंनाम्नातुवालकम् ॥ गङ्गातिमद-  
नचैवतच्चेषांचवदाभ्यहम् ॥ ४६ ॥ ज्वरं छर्दिष्टृणा-  
धमनिंकासः श्वासश्वतृट्टतथा ॥ गात्रं भंगश्वशूलश्वचि-  
त्तान्येतानिवालके ॥ ४७ ॥ प्रस्थमात्रेण पिष्टेन वि-  
निर्मायाथ पुत्तिकाम् ॥ ओदनं मत्स्यमांसं च पर्षटी  
चेक्षु शूलिकाम् ॥ ४८ ॥ निक्षिपेत्पूर्वं संध्यायामा मुत्तर-  
स्यां वलिहरेत् ॥ गोशुं गलशुनाभ्यां च धूपयैचैव वाल-  
कम् ॥ ४९ ॥ मंत्रः—ओं नमो भगवतेवा सुदेवाय कृ-  
ष्णाय मंडलवलिमादाय हनहन हुं फट्स्वाहा ॥ इति  
नवमदिनमासवर्षप्रहृष्टीतवालकरक्षाविधिः ॥ ९ ॥

भाषा—नौमें दिवस नौमें महीने नौमें वर्षके विषय बालकको कष्टहो उसको मदना नाम करके देवी यहण करती है अब इसके लक्षण कहते हैं ॥ ४६ ॥ प्रथम ज्वर हो, बमनकरे, चित्तमें घृणा रहे, अफारा रहे, खांसीहो, श्वासहो, प्यास लगे, शरीरमें हड़फोड़हो और शूल हो यह चिह्न बालकके होनेसे मदनादेवीका दोष कहना । अब इसका उपाय लिखते हैं ॥ ४७ ॥ सेरभर गेहूंका आटा लेके उसकी ( देवीकी ) मूर्ति बनाके मिट्टीके सहनकर्में धरके उसके अगाड़ी पकेहुये चावल, मच्छीका मांस, पापड़ी, ईख, सुहाली, पांच रंगकी ५ धजा, ५ दीपक आटाके, फूल ॥ ४८ ॥ यह सब वस्तु उसी पात्रमें रखके संध्यासे पहिले २१ बार मंत्र पढ़के ७ वेर बालकके ऊपर वारके उन्नरदिशाकी तरफ बलि देआवे और गौका सींग, लहसन इनोंकी बालकको धूनी देनी चाहिये बालक चंगाहो देवीका दोष शांत हो स्नान ब्राह्मणभोजन पूर्वक्रमसे करावने चाहिये ॥ ४९ ॥ मंत्र मूलमें जो लिखा है इसीको जपना चाहिये ॥

इति नवमदिनमासवर्षयहगृहीतबालकरक्षाविधिः ॥९ ॥  
 दशमेदिवसेमासेवपेण्ठलातिबालकम् ॥ रेवती ज्वर-  
 रुग्गुलंचछर्दिः थासोङ्गमर्दनम् ॥ ५० ॥ अन्नद्वेष्ट्र-  
 कासश्वलिदेयोविचक्षणैः ॥ ग्रस्थप्रमाणपिष्टेनपु-  
 त्तिकांकल्पयेद्वराम् ॥ ५१ ॥ अष्टांगंलेखयंहि-  
 ल्वविट्पंकटकैस्ततः ॥ गुड्डादनंचसर्पिश्चधजा-  
 नांपंचविंशतिः ॥ ५२ ॥ स्वस्तिकानांप्रदीपानां  
 पंचाविंशतिकल्पना ॥ चत्वारिंशतपुष्पाणिदक्षि-

णस्यांदिशिक्षिपेत् ॥ ५३ ॥ मंत्रः ॥ अँ नमोभग-  
 वते वैश्वदेवाय हनुं फट्स्वाहा ॥ मंत्रोयंजपनीयश्च  
 धूपं स्त्रानं तु पूर्ववत् ॥ ५४ ॥ इति दशमदिवसमाप्त-  
 वर्षग्रहगृहीतवालकरक्षाविधिः ॥ १० ॥ एकादशे  
 दिने मासे वर्षे चैव सुदर्शना ॥ गृह्णाति वालकं पञ्चा-  
 ज्ज्वरस्तस्य प्रजायते ॥ ५५ ॥ सुखशोपोऽन्नविद्रेपो  
 गात्रभंगश्च रोदनम् ॥ पुत्तिकां मापपि ऐनरचितां  
 श्रुक्षमोदनम् ॥ ५६ ॥ पुष्पाण्यपि च शुक्ळानिध्व-  
 ानां पञ्चार्विंशतिः ॥ स्वस्तिकानां प्रदीपानां पंच-  
 वृशतिरेव च ॥ ५७ ॥ एतत्सर्वयमाशायां संध्यायां  
 आतराहरेत् ॥ ५८ ॥ मंत्रः ॥ अँ नमोभगवतेरा-  
 णाय चंद्रहासवत्रहस्ताय ज्वलज्वलदुष्टग्रहादीन्  
 ऊहीं फट्स्वाहा ॥ एकविंशतिवारं च मंत्रमेनं जपेन्नरः ॥  
 पूपस्त्रानादिकं सर्वं कुर्यात् पूर्वकमेण च ॥ ५९ ॥  
 त्येकादशदिवसमाप्तवर्षग्रहगृहीतवालकरक्षाविधिः ॥ ११ ॥  
 मापा—दशमदिवस दशममास दशमवर्षके विषय वालकको  
 : होनेसे उसको रेती नाम करके देवी ग्रहण करतीहै, उसके  
 पाण कहते हैं—पथम ज्वरहो, शूलहो, वमन करे, श्वासहो, अंग  
 : ॥ ५० ॥ अन्नपर इच्छा नहीं हो, स्वासी हो इतने लक्षण  
 नेसे देवीका दोष कहना. अब इसका उपाय लिखते हैं—सेर-  
 : मेहूके आटाकी सुंदर देवीकी मूर्ति बनाके मिट्टीके सहनकर्म  
 गापन करे ॥ ५१ ॥ फिर विल्ववृक्षके काँटोंसे उस मूर्तिके

आठ अंगोंमें रेखाकरके काँटोंको उन्हीं अंगोंमें लगादेफिर गुडके मीठे पके हुए चावल, घृत, २५ ध्वजा ॥ ५२ ॥ सथियेगेहूंके आटाके २५ दीपक और लाल फूल ४ यह सर्व वस्तु उसी पात्रमें रखके २१ बार मंत्र पढ़के ७ बैर बालक ऊपर वारके संध्यासमय दक्षिणदिशाकी तरफ बलि धर आवे ॥ ५३ ॥ मंत्र उम्मनमो भगवते वैश्वदेवाय हन हुं फट्स्वाहा ॥ यही मंत्र जपना चाहिये और धूप स्नान पूर्वोक्तक्रमसे करावने चाहिये ॥ ५४ ॥ इति दशमदिवसमासर्वप्रश्नहृषीतबालकरक्षाविधिः ३० ग्यारहवें दिवस ग्यारहवें मास ग्यारहवें वर्षके विषय बालकको कट होय उसको सुदर्शनानामदेवीयहण करतीहै अब उसके लक्षण कहतेहैं—प्रथम बालकको ज्वरहो ॥ ५५ ॥ मुखशोपहो, अन्नपर रुचि नहींहो, अंग सब फूटें, रोवें बहुत, शरीर ढुर्वल होजावे यह लक्षण होनेसे देवीका दोप कहना, अब इसका उपाय लिखतेहैं उडदके चूनकी देवीकी मूर्ति बनाके मृत्तिक्राके पात्रमें रखके उसके अगाडी सफेद भात पका हुवा रखें ॥ ५६ ॥ सफेद फूल २५, सफेद ध्वजा और सथियेगेहूंके चूनके पचीस २५ दीपक, पुर्णपोली, सुहाली, पूडे ॥ ५७ ॥ यह सब वस्तु उसी पात्रमें धरके २१ बार मंत्र पढ़के ७ बार बालकके ऊपर वारके यह बलि संध्यासमयमें और प्रातःकाल दोनोंवक्त दक्षिणदिशामें दे ॥ ५८ ॥ मंत्र मूलमें लिखाहै २१ बार जपना चाहिये और धूप स्नानादिक सब कर्म पूर्वक्रमके अनुसार करने चाहिये ॥ ५९ ॥

इत्येकादशदिवसमासर्वप्रश्नहृषीतबालकरक्षाविधिः ३१ ॥

द्वादशेदिवसेमासेवर्षेवापूतनाशिशुम् ॥ अद्वता-  
 ख्याप्रगृह्णातिज्वरः स्यात्प्रथमंततः ॥ ६० ॥ रोदनं  
 सर्वदादन्तखादनंनेत्ररुक्तथा ॥ रोमांचंतापइत्येत-  
 लक्षणंतस्यवैशिशोः ॥ ६१ ॥ तंडुलप्रस्थपिष्टे-  
 नकृत्वाचैवतुपुत्तिकाम् ॥ त्रयोदशस्वस्तिकाथ  
 ध्वजादीनांत्रयोदश ॥ ६२ ॥ आपूर्पमत्स्यमां-  
 संचतथापर्पटिकामपि ॥ एतत्सर्वदक्षिणस्यां  
 दिशिसायंविनिक्षिपेत् ॥ ६३ ॥ मंत्रः ॥ अं  
 नमोनारायणायज्वलद्वस्तायहनद्रयम् ॥ शोपय  
 द्वितयंचैवमर्दयद्वितयंतथा ॥ ६४ ॥ पातयद्वि-  
 तयंहुंहुंहुंहुंहनहनेतिच ॥ दुष्टानांतुसमुच्चार्यत्रांहुं  
 फद्वह्निवल्लभा ॥ ६५ ॥

इति द्वादशदिवसमासर्वयहगृहोतवालकरक्षाविधिः ॥ १२॥

भाषा-बारहवें दिवस बारहवें मास बारहवें वर्षके विषय वाल-  
 कको कटहो उसको अद्वतानाम करके देवी व्रहण करती है, अब  
 उसके लक्षण कहते हैं—प्रथम वालकको ज्वरहो ॥ ६० ॥ और  
 रोधे बहुत, हरयक दौतांको चावाकरे, नेत्रमें पीड़ा हो, रोमायलि  
 खड़ी रहे, अंग ताप रहे, इतने लक्षण वालकके होनेमें देवीका दोष  
 जानना ॥ ६१ ॥ अब इसका उपाय लियते हैं—चावल  
 से रभर लेके पीसके उसका (देवीकी) मूर्ति बनाके मिट्टीके पात्रमें

रखके उसके अगाड़ी १३ सथिये गेहूंके आटेके दीपक बनाके  
रखते और १३ ध्वजा रखनी चाहिये ॥ ६२ ॥ और  
पुडे, मच्छीका मांस, पापडी, सुहाली यह सर्व वस्तु  
उसी पात्रमें रखके २१ बार मंत्र पढ़के ७ बार बालकके  
ऊपर वारके संध्यासमय दक्षिणदिशामें बलिदे ॥ ६३ ॥ मंत्रः ॥ ॐ  
नमो नारायणाय ज्वलद्वत्ताय हन हन शोपय शोपय मर्दय मर्दय  
पातय पातय हुं हुं हुं हन हन दुष्टानां ह्नां हुं फट्स्वाहा ॥ यह  
मंत्र चौंसठ पैंसठके श्लोकमें से उद्धार किया जाता है, इसीका जप  
करना चाहिये और धूप स्नानादि सर्व कर्म पूर्व क्रमके  
अनुसार करने चाहिये, ऐसे करनेसे बालक चंगाहो, देवीका  
दोप शांतहो ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ इति द्वादशदिवसमासर्वपर्यह-  
गृहीतवांलकरक्षाविधिः ॥ १२ ॥

त्रयोदशोदिने मासे वर्षे गृह्णातिवालकम् ॥ भद्रकाली  
ज्वरोनिद्रावामहस्तस्य कंपनम् ॥ ६६ ॥ वमनंतृ-  
द्विविनिः श्वासः कासः पीडाविचेतनम् ॥ पूर्वादिशं समा-  
थित्यवलिंदेव्यै निवेदयेत् ॥ ६७ ॥ नदीकूलद्वयोत्तिष्ठ-  
न्मृदादेवीस्वरूपकम् ॥ कृत्वा पूजाप्रकर्तव्याधूपदी-  
पादिभिस्ततः ॥ ६८ ॥ वटकालहुपूपाश्रसान्न-  
भक्तं गुडोदधि ॥ चतुर्वर्णपताकाश्रप्रदीपाः पुष्प-  
चंदनम् ॥ ६९ ॥ मध्याह्नेवलिदानंतु कर्तव्यं सु-  
विधानतः ॥ मंत्रः ॥ ॐ नमो भगवतेचरावणाया-  
थवालकम् ॥ सुचमुंचामिजायांतो मंत्रो यं समुदाह-

तः ॥ ७० ॥ धूपस्तानादिकं सर्वपूर्वोक्तक्रमतश्चरेत् ॥  
 ॥ ७१ ॥ इति ब्रयोदशदिवसमासर्वप्रगृहीतवा-  
 लकरक्षाविधिः ॥ १३ ॥ चतुर्दशेदिनेमासेवपे  
 गृह्णातिवालकम् ॥ ताराश्रीयोगिनीनाम्नाज्वरः  
 शोपोऽरुचिर्भृशम् ॥ ७२ ॥ चक्षुःपीडाभवेत्स्य  
 पश्चिमेवलिमाहरेत् ॥ ब्रयोदशप्रकारेणवलिदाना-  
 दिकंचरेत् ॥ ७३ ॥

इति चतुर्दशदिनमासर्वप्रगृहीतवालकरक्षाविधिः ॥ १४ ॥

भाषा—नेरहवें दिवस तेरहवे महीने तेरहवें नर्षके विषय  
 बालकको कठहो उसको भद्रकाली देवी यहण करतीहे अर  
 उसके लक्षण कहतेहैं—प्रथम ज्वरहो, निदा बहुत आदि, वां  
 हाथ वारवार रूपे ॥ ६६ ॥ छर्दि होय, प्यास बहुत लगे,  
 श्वासहो, सांसाहो, शरीरमें पीडा ज्यादा रहे, चेत रूमहै यह  
 लक्षण हो उस बालकको देवीका दोप जानना अब उसका  
 उपाय लिखतेहैं—पूर्व दिशाकी तरफ यह नलि देवीके नर्य  
 देनी चाहिये ॥ ६७ ॥ अब नलिको फहतेहैं—नदीके दोनों  
 किनानोंकी मृत्तिका लाके देवीकी मूर्ति बनाके मिट्टीके पात्रमें  
 रखके धूमदीपादि करके प्रथम देवीकी पूजा रहे ॥ ६८ ॥  
 फिर उसके अगाड़ी बडे, लड्डू, पुडे, गेहू, पक्कातुरा भात, गुड़,  
 दही, चारगकी ४ धजा, दीपक ४, पुष्प, चदन ॥ ६९ ॥  
 यह सब बम्हु उसी पात्रमें रखके २१ बार मत्र पढ़के ७  
 बार बालकके ऊपर बारके मध्याद्वन्मयमें पूर्वदिशामें मुद्र

रीतिसे बलिदान दे ॥ मंत्रः ॥ उँम्नमो भगवते रावणाय वालकं  
मुंचमुंच स्वाहा ॥ यह मंत्र है इसका जप करना चाहिये और  
धूप स्नानादिक जो कर्म हैं सो संपूर्ण पूर्वोक्तक्रमसे कराने  
चाहिये ॥ ७० ॥ ७१ ॥ इति त्रयोदशदिवसमासवर्षग्रह-  
गृहीतवालकरक्षाविधिः ॥ ॥ १३ ॥ चौदहवें दिवस, चौदहवें  
मास चौदहवें वर्षके विषय वालकको कष्ट हो, उस वालकको  
श्रीयोगिनी तारा थहण करती है अब उसके लक्षण कहते हैं  
प्रथम ज्वर हो, शरीरशोप हो, अरुचि बहुत रहे ॥ ७२ ॥  
नेत्रमें पीड़ारहे यह लक्षण होनेसे देवीका दोप कहना। अब  
उसका उपाय लिखते हैं तेरहवें दिवसमासवर्षका जो प्रकार है  
उसी प्रकारसे बलिदान पश्चिमदिशाकी तरफ देना चाहिये  
और मंत्र जप स्नानादिक सर्व कर्म पूर्वक्रमके अनुसार करने  
चाहिये ॥ ७३ ॥ इति चतुर्दशदिवसमासवर्षग्रहगृहीतवाल-  
करक्षाविधिः ॥ १४ ॥

पंचदशेदिनेमासेवर्षेहुंकारिकाय्रहः ॥ श्वासका-  
सौज्वरथ्वेवदक्षिणस्यांवलिंहरेत् ॥ ७४ ॥ बलि-  
दानादिकं सर्वं त्रयोदशक्रमेण वै ॥ धूपादिकं कर्म स-  
र्वचतुर्थोक्तक्रमेण तु ॥ ७५ ॥ इति पंचदशदिव-  
समासवर्षग्रहगृहीतवालकरक्षाविधिः ॥ १५ ॥  
पोडशेदिवसेमासेव्येगृह्णाति कुमारिका ॥ अमश्चा-  
रुचिरुद्गेगोज्वरः शोपादिचेष्टितम् ॥ ७६ ॥ नैऋ-  
तींदिशमात्रित्यमध्यरात्रेवलिंहरेत् ॥ वालकस्नाप-

दिनमासवर्षके क्रमसे वैयने करादेने चाहिये और धूप स्नानादिक जो कर्म हैं सो चतुर्थदिवसमासवर्षके विधानके क्रमसे करावे ॥ ७८ ॥ इति पोडशदिवसमासवर्षयहगृहीत-वालकरक्षाविविः ॥ १६ ॥

इतिश्रीर्पिडितनन्दकुमारवैद्यकृतवालतत्रभाषादीकायांदशमःपट्टलः॥८॥

अथातःसंप्रवक्ष्यामिवालानांहितकाम्यया ॥ वलिंसा-  
धारणंचैवग्रहान्दरोगांस्तंथैवच ॥ १ ॥ अथपूतनाग्रही-  
लक्षणमाह ॥ अत्यंतमलिनास्तीर्णेशवाननिर्जने  
स्थले ॥ स्वपंतंपूतनानामग्रहीगृह्णातिवालकम् ॥ २ ॥  
ततोहिकायुतः श्वासीस्तनद्वेषीचकंपवान् ॥ ३ ॥ स्वापो  
दिवारोमहर्षआस्यशोपञ्चजायते ॥ गुदेरोगञ्चतत्रा-  
गुवलिदेयःप्रशांतये ॥ ४ ॥ कृशराम्बूर्णकुम्भःसहे-  
मातिलचूर्णकम् ॥ ध्वजागंधञ्चपुष्पाणिधूपकंदीपकं  
बलिः ॥ ५ ॥ ॥ वालानांकीडनस्थानेदेयोमंत्रेणमंत्रिणा  
॥ मन्त्रः ॥ नीलांवरधरेदेवि पूतनेविकृतानने ॥  
शिशोर्विंकारान्मुचस्वप्रगृह्णीष्ववलिंत्विमम् ॥ ६ ॥  
अथमहापूतनाग्रहीलक्षणमाह ॥ ताडितः संपतेय-  
स्तुतृप्णीवान्यःपतेत्तथा ॥ वालमहापूतनास्या-  
गृह्णातिचततोज्वरः ॥ ७ ॥ जागर्तिचदिवारात्रौ

तच्चभुक्तेवमत्यपि॥ कासःश्वासोऽक्षिरोगश्चपूतिगंधः  
प्रजायते ॥ ८ ॥ अत्रं मां संचरक्तं च गंधपुष्पाणिवास  
सी ॥ धूपदीपौ हिरण्येन युक्तः पूर्णघटस्तथा ॥ स्तु-  
ही वृक्षस्य मूले तु वलिमं ब्रेण निक्षिपेत् ॥ ९ ॥ मंत्रः ॥  
कराले चंडिचामुंडेकापायां वरधारिणी ॥ राक्षसिपूत-  
नेदेविप्रगृह्णीष्व वलित्वम् ॥ १० ॥

**भाषा**—अब इसके उपरांत वालकोंके हितकारी साधारण  
यहाँकी वलि कहते हैं और साधारण रोगभी कहते हैं ॥ १ ॥  
अब पूतना यहीके लक्षण कहते हैं, अत्यंत मैला विस्तरपर सोता  
हुआ वालकको या निजेन स्थानमें सोता हुआ वालकको पूतना  
नाम देवी यहण करती है ॥ २ ॥ अब उसके लक्षण कहते हैं  
प्रथम वालकको हुचकी हो, श्वास हो, स्तनपान नहीं करे, कंपेव हृत,  
दमन करे, रात्रिको जागे और रोवे बहुत ॥ ३ ॥ दिनमें सोते  
शरीरपर रोमावली खड़ी रहे, मुख सूखारहे, गुदामें रोग हो ऐसे  
लक्षण होनेसे देवीका दोप जानना; उसकी शांतिके बास्ते वलि  
देनी चाहिये ॥ ४ ॥ खीचढ़ी, जलका पूर्ण कलश उसमें यत्किञ्चित्  
सोता गेरना चाहिये और तिलकुट, ध्वजा, कुछ सुगन्धदृश्य पुष्प,  
शूल, दीपक यह सब वस्तु एक मिट्टीके पात्रमें रखके २१ बार  
मन्त्रसे मंत्रित करके वालकपर चारके जहाँ वालक सेलते हों, उस  
जगह वलि धरआवे वालक चंगा हो देवीका दोप शांत हो ॥ ५ ॥  
मूलमें छठा श्लोक है, वही मन्त्र जपना चाहिये ॥ ६ ॥ अब महा-  
पूतनायहीके लक्षण कहते हैं—वालक ताढ़याद्वारा गिर पड़े या

चुपदेशी गिर पडे उस वक्तमें बालकको महापूतना यहण करती है। उसके यहण करनेसे प्रथम बालकको ज्वरहो॥ ७ ॥ और दिनरात्रि बालक सोवे नहीं और जो कछु भोजन करे सो वमन करदे, श्वासहो, खांसीहो, नेत्रमें रोगहो, शरीरमें दुर्गंथ आवे ऐसे लक्षण होनेसे देवीका दोप जानना ॥ ८ ॥ अब इसका उपाय कहते हैं—अन्न, मांस, रक्त, सुगंधके फूल, सपेद वस्त्र, लाल वस्त्र, धूप, दीपक, जलकरके पूर्ण कलश उसमें यत्क्षुचित् सोना डालदेना चाहिये यह सब वस्तु एक मृत्तिकाके पात्रमें रखके २१ वारमंत्रपटके बालकके ऊपर बारके थोहरवृक्षके नीचे बलि देआवै देवीका दोप दूर हो, बालक चंगा होजाय ॥ ९ ॥ और मूलमें जो दशका श्लोकहै, सो मंत्र है इसीको जपना चाहिये ॥ १० ॥

अथोर्ध्वपूतनालक्षणमाह ॥ लोभादिनातुयः कुर्यात्तिरस्कारं वनेपुरे ॥ देव्यद्व्यपूतनातस्य वालं संक्रमते यहः ॥ ११ ॥ ततो ज्वरीचाक्षिरोगी सनिद्रश्च दिवा भवेत् ॥ विनिद्रोपिनिशायां तु कासयुक्तश्च जायते ॥ १२ ॥ अन्नमांसं च रुधिरं त्तवस्त्रं च चंदनम् ॥ सहिरण्यः पूर्णकुंभः स्तुहीमूलेनिशामुखे ॥ १३ ॥ मंत्रः ॥ अयोर्द्वपूतने देविप्रगृह्णीपञ्चवलिं त्विमम् ॥ शिशोविकारान्मुंचाद्यरक्ताभेरक्तदर्शने ॥ १४ ॥ अथ बालकान्ता यहीलक्षणमाह ॥ ऋतौ स्वदारगमनं कृत्वा स्नानादिवर्जितः ॥ अनृतांशोचहीनस्तु स्वपेद्रालकतल्पके ॥ १५ ॥ तदा संक्रमते बालं बालकान्ता

महाग्रही ॥ ततःपक्षाभिघातःस्याद्रक्तनेत्रश्चजायते  
 ॥ १६ ॥ पायसंचतथामेपंकुकुटञ्छागलोहितम् ॥  
 रक्तवस्त्रंरक्तगंधरक्तपुष्पाणिवैतदा ॥ १७ ॥ धूपदी-  
 पौहिरण्येनयुक्तःपूर्णघटस्तथा ॥ एतद्वटस्यमूलेच  
 येवक्षेत्रेऽपिवाक्षिपेत् ॥ १८ ॥ प्रगृह्णीष्ववलिंचेमंवा-  
 लकान्तेमहाग्रहः ॥ शिशोर्विंकारान्मुंचस्वकुमारस्य  
 प्रियप्रभे ॥ १९ ॥

भाषा—अब ऊर्ध्वपूतना देवीके लक्षणकहते हैं, जो पुरुषलोभमें  
 आयके या मदमें आयके बनमें या व्राममें देवीका अथवा देवता  
 का तिरस्कार करता है; उस पुरुषके बाल रुको ऊर्ध्वपूतना  
 नाम करके देवी व्रहण करती है ॥ ११ ॥ अब उसके लक्षणकहते-  
 हैं प्रथम बालकको ज्वरहो, नेत्र दूखें, दिनमें निद्रा आवे और  
 रात्रिको जागे और खांसी बहुत उठे ॥ १२ ॥ अब इसका उपाय  
 कहते हैं अन्न, मांस, रुधिर, लाल वस्त्र, लाल चंदन, सोना गेरा-  
 हुवा जलका कलश, ध्वजा, दीपक यह सर्ववस्तु एक मिट्ठीकेपात्र  
 में रखके २१ बार मंत्र पढ़के ७ बार बालकके ऊपर बारके  
 सन्ध्यासमयमें थोहरवृक्षके नीचे रख आवे बालक चंगाहो  
 देवीका दोप शांत हो ॥ १३ ॥ और यह जो चौदहकाश्लोकहै यही  
 मंत्र है इसीको जपना चाहिये ॥ १४ ॥ अब बालकांता  
 यहीके लक्षण कहते हैं—कतुकालमें अपनी स्त्रीसे विषयकरके  
 किर स्नानादिक न करके या वगैर कतुकालके विषय करके  
 अविवृत हुवा बालककी शब्दापर सोजावे ॥ १५ ॥

उस वक्त बालकांता नामकरके यह बालकको ग्रहण करती है तदनंतर बालकको पक्षाधात् रोग होता है और लाल नेत्र होजाते हैं ॥ १६ ॥ अब इसका उपाय कहते हैं । खीर और मीठाका मुर्गाका, बकराका, खून, लालवस्त्र, लालचंदन, लालफूल ॥ १७ ॥ धूप, दीपक जलका कलश उसमें यत्किञ्चित् सोना गेरना चाहिये यह सब वस्तु एक मिट्ठीके वर्तनमें रखके २३ बार मंत्र पढ़के ७ बार बालकके ऊपर बारके संध्यासमयमें बड़के वृक्षतले अथवा जौके खेतमें बलि दे बालक चंगा होजावे देवी का दोप शांत होजावे ॥ १८ ॥ और जो यह उन्नीसका श्लोक है वह मंत्र है इसीको जपना चाहिये ॥ १९ ॥

अथ रेवतीग्रहीलक्षणमाह ॥ भूपणेर्वहुभिर्युक्तं गं वा-  
दिभिरलंकृतम् ॥ बालकरेवतीनामाग्रहः संक्रमतेत-  
दा ॥ २० ॥ हरिद्रिनेत्रविण्मुत्रपीतस्फोटश्चजायते ॥  
अग्निदग्धाकृतिः स्फोटोभवेच्छर्दिः पुनः पुनः ॥ २१ ॥  
पायसंपललंलाजासक्तवोगंधएवच ॥ पुष्पाणिधूपदी-  
पौचमिष्टकांचनगर्भितः ॥ २२ ॥ पूर्णकुंभश्चमद्यंवा  
गोष्ठेनद्यांचनिक्षिपेत् ॥ २३ ॥ मंत्रः ॥ शिशोर्विका-  
रन्मुंचाद्यरेवतीचैवमातृके ॥ प्रगृह्णीष्ववलिंचेमंसु-  
दर्शनप्रियभूपणे ॥ २४ ॥ अथ महारेवतीग्रहीलक्ष-  
णमाह ॥ संध्याकाले रायानंतु चोच्छिष्टसुक्तमूर्द्ध-  
जम् ॥ तदासंक्रमतेवालंरेवतीचमहाग्रहः ॥ २५ ॥  
आस्यशोपोभवेत्स्यदाहः कंपास्यवक्ता ॥ कृष्ण-

वर्णश्चजायेत्वलिदेयः प्रशांतये ॥ २६ ॥ लाजाश्च  
पायसंसर्पिः कुकुटो मेपएवच ॥ रक्तवस्त्रं रक्तगंधं पूर्णं-  
कुंभं सकांचनम् ॥ २७ ॥ वटस्य मूले संध्यायां प्रदो-  
पनिक्षिपेद्वलिम् ॥ २८ ॥ मंत्रः ॥ चित्राम्बरधरं देवि  
चित्रमाल्यागुलेपने ॥ शिरोर्बिंकारान्मुञ्चाद्यरेखति  
त्वं महाग्रहि ॥ २९ ॥

भाषा— रेवतीग्रहके उक्षण कहते हैं बहुत आभूषण बालकको  
पहरानेसे या सुगंधादिक द्रव्य बालकके लगानेसे रेवतीनाम  
ग्रही बालकको ग्रहण करती है है ॥ २० ॥ अब उसके उक्षण  
कहते हैं हल्दीकी माफिक आंख, विष्टा, मूत्र होजावं और पीले  
रंगके फोडे वदनमें होजावं या अग्निसे जलेके सदृश शरीरमें  
फफोले होजावं और बारंबार छार्दि करे ॥ २१ ॥ अब इनका  
उपाय कहते हैं खीर, मांस, धानकी खील, सजू, सुगंधद्रव्य, सुगंधकं  
फूल, धूप, दीपक, मिट्ठान और जलका कलश उसमें सोना यत्कि-  
चित् डाल देना चाहिये ॥ २२ ॥ और मदिरा यह सर्व वस्तु  
एक मृत्तिकाके पात्रमें रखके २३ मंत्र पढ़के ७ बार बालककं  
ऊपर वारके जहां गौ वृथती हैं वहां या नदीकेकिनारे उलिदे बाल-  
क चंगा होजावे ॥ २३ ॥ और यह नौवीसका श्लोक है यह मंत्र  
है इसीको पढ़ना चाहिये ॥ २४ ॥ अब महारेवती ग्रहकं  
उक्षण कहते हैं— सन्ध्यासमयके बजे उच्छिष्टमुख बालकको  
शयन करानेसे या खुले बाल संध्याके बजे शयन करानेमें  
महारेवती नाम करके देवी बालकको ग्रहण करती है ॥ २५ ॥

अब उसके लक्षण कहते हैं प्रथम मुखशोप रहे और दाह रहे शरीर कंपे मुखको बांका रहे और शरीरका वर्ण काला होजावे ऐसे लक्षण बालकके होनेसे देवीकी शांतिके वास्ते बलि देना चाहिये ॥ २६ ॥ बलिविधान लिखतेहै—धानकी खील, खीर, घृत, मुर्गा, भेड़, लालवन्न, लालचंदन, जलका कलश सुवर्ण सहित ॥ २७ ॥ यह सर्व वस्तु मिट्टीके पात्रमें स्थित करके २९ वार मन्त्र पढ़के ७ वार बालकके ऊपर वारके संध्यासमयमें वटके वृक्षतले बलिको दे ॥ २८ ॥ और यह उनतीसका श्लोकहै यह मंत्र है इसीको जपना चाहिये । बालक चंगा हो देवीका दोष शांति होजावे ॥ २९ ॥

अथ पुष्परेवतीग्रहीलक्षणमाह ॥ भूमौशयानंसंध्यायां-  
यांक्रीडंतंपुष्परेवती ॥ ग्रहीसंकमतेवालंतेनांगेर्शी-  
तताभवेत् ॥ ३० ॥ आस्यशोपञ्चदाहञ्चकंपःस्या-  
दंगुलीषुच ॥ नखेषुकृपणवर्णञ्चदातव्यःशान्तयेव-  
लिः ॥ ३१ ॥ मधुयुक्तंपायसंचगंधपुष्पाणिवाससी ॥  
धूपदीपीहिरण्येनयुक्तःपूर्णघटस्तथा ॥ ३२ ॥ सुपु-  
प्पायतनेकापिवलिमंत्रेणनिःक्षिपेत् ॥ ३३ ॥ मंत्रः ॥  
पुष्पक्षेरेवतीदेवीग्रहीष्वलीष्ववलित्विमम् ॥ बालकस्य  
सुखंसिद्धिप्रयच्छत्वंवरानने ॥ ३४ ॥ अथ शुष्क-  
रेवतीग्रहीलक्षणमाह ॥ भूमौनिपतितंवालंरुदैतं-  
दिंतंतथा ॥ अप्रक्षालितगात्रंचगृह्णीयाच्छुष्करेवती  
॥ ३५ ॥ ततोज्वरीमुखेशोपीहच्छोप्यपिचशूल्य-

पि ॥ शिरोरोगार्तिभूतश्चअजीर्णनयुतोभवेत् ॥ ३६ ॥  
 सुद्गान्तश्चेतपुष्पाणिथेतवस्त्रंचचंदनम् ॥ धूपदीपौष-  
 टंचूतवृक्षमूलेवलिंहरेत् ॥ ३७ ॥ मंत्रः ॥ शुष्का-  
 दिरेवतीदेविप्रेतरूपेयशस्त्रिनि ॥ करालवदनेघोरे  
 प्रणृष्टीष्ववलिंत्विमम् ॥ ३८ ॥

**भाषा—**अब पुष्परेवती देवीकेलक्षण कहते हैं—संध्याके समय  
 पृथ्वीमें सोवा हुआ बालकको या सोलताहुवा बालकको  
 पुष्परेवती व्रहण करतीहै अब उसके लक्षण कहते हैं—प्रथम  
 बालकका अंग ढंडा रहे ॥ ३० ॥ मुखशोपहो, दाहहो, हाथकी  
 अंगुलियोंमें कंप हो और नख काले होजावें । अब पुष्परेवती  
 देवीकी शांतिके वास्ते बलि देनी चाहिये ॥ ३१ ॥ सहव, सीर,  
 सुगंधके फूल, सपेदवस्त्र, लालवस्त्र, धूप, दीपक, जलका कलश,  
 उसमें यत्किञ्चित् सोना डालदेना चाहिये ॥ ३२ ॥ यह सबवस्तु  
 मृत्तिकाके पात्रमें रखके २१ वार मन्त्रसे भंत्रित करके ७  
 वार बालकके ऊपर वारके जहाँ फुलबाड़ी हो वहाँ बलिदे आवे  
 बालक चंगाहो देवीका दोष शांत हो ॥ ३३ ॥ और यह चाँवीस  
 का श्लोक है यह मन्त्र है इसीको जपना चाहिये ॥ ३४ ॥ अब  
 शुष्करेवती देवीके लक्षण कहते हैं—पृथ्वीमें बालक गिरजावे-  
 रोवताहो या छर्दी करताहो उसको जलसे शुद्ध न करे उसबाल-  
 कको शुष्करेवती देवी व्रहण करती है ॥ ३५ ॥ अब उसके  
 लक्षण कहते हैं प्रथम बालकको ज्वर हो, मुखशोपहो, हृद्धोष  
 हो, ऊदरमें श्वलहो, शिरमें श्वलहो और अजीर्ण रहे ॥ ३६ ॥

अब उपाय लिखते हैं मूँग, चावल, सपेद पूल, सपेद बन्न, सपेद चंदन, धूप, दीपक, जलका कलश यह सर्व वस्तु मिट्टीके पात्रमें रखके २१ बार मंत्र पढ़के ७ बार बालकके ऊपर बारके आम्रवृक्षके नीचे बलिदे बालक चंगा हो देवीका दोष शांत हो ॥ ३७ ॥ और अठतीसका श्लोक है यही मंत्र है इसीको जपना चाहिये ॥ ३८ ॥

अथशकुनीय्रहीलक्षणमाह ॥ उच्छिष्ठभोजनंदेवालय-  
मूरादिकारिणम् ॥ शकुनीय्रहीयल्लातिततोजागर्ति  
वैनिशि ॥ ३९ ॥ मुखेकंठेणुदेचैवव्रणोऽतीसारवा-  
न्भवेत् ॥ ज्वरीतृष्णाञ्छर्दिवातरोगीभवतिवालकः  
॥ ४० ॥ आममांसंपक्षमांसंहरिद्रान्नंपयोघृतम् ॥  
तिलपिण्ठफलंचैववस्त्रंधादिकंतथा ॥ हिरण्यस-  
हितःकुम्भः२मशानेनिक्षिपेद्रलिम् ॥ ४१ ॥ मंत्रः ॥  
ग्रग्नीष्ववलिंचेमंशकुन्यक्षेमहाय्रही ॥ शिरोर्बिं-  
कारान्मुञ्चाद्यसुभगेकंपरूपिणि ॥ ४२ ॥ अथशिशुमुं-  
डिकाय्रहीलक्षणमाह ॥ नित्यकर्मविहीनानांपोषि-  
काणांचपक्षिणाम् ॥ जन्मान्तरेसंक्रमतेवालकंशि-  
शुमुंडिका ॥ ४३ ॥ ततोरोदितिपाणीतुपादोचोत्क्ष-  
प्यकंपते ॥ आमज्वरीविनिद्रान्नभवेत्कायोविलि-  
स्ततः ॥ ४४ ॥ हरिद्रान्नंतिलान्नंचपिण्ठचापूपशूरि-  
का ॥ सर्पिर्मधुदधिक्षीरंगंधपुष्पाणिवाससी ॥ ४५ ॥  
धूपदीपोहिरण्येनयुक्तःपूर्णघटस्तथा ॥ नदीतटेऽ-  
रण्येनिक्षिपेन्मंत्रतोबलिम् ॥ ४६ ॥ मंत्रः ॥ स्त्र-

लंकृतस्वरूपाचभवसिशिशुमुंडिके ॥ शिशोर्वि-  
कारान्मुंचस्वचंडिकेचंडविक्रमे ॥ २७ ॥

भाषा—अब शकुनी देवीके लक्षण कहते हैं देवताके स्थानमें  
उच्छिष्ट भोजन करनेसे या मलमूत्रादिकके करनेसे वालकको  
शकुनी देवी ग्रहण करतीहै ॥ अब उसके लक्षण कहते हैं—  
रात्रिमें वालक सोवे नहीं ॥ ३९ ॥ और वालकके मुखमें, कंठमें,  
गुदामें व्रण हो और दस्त लगे ज्वर होवे, प्यास जादा लगे,  
बमन करे, बातव्याधि होवे ॥ ४० ॥ यह लक्षण होनेते  
शकुनी देवीका दोष जानना । अब इसका वलिविभान कहते हैं—  
कचा मांस, पकामांस, हल्दीसहित अन्न, दूध, वृत, तिलकुट, फूल,  
सपेदकपड़ा, सपेदफूल, ध्वजा दीपक, सथिये सुवर्णयुक्त जलका  
कलश यह संपूर्ण वस्तु एक मृत्तिकाके पात्रमें रखके २१ बार  
मंत्र पढ़के ७ बार वालकके ऊपर बारके १८ भानमें वलि मंधा  
कालमें धर आवे, वालक चंगाहो, शकुनी देवीका दोष शांत हो ॥  
॥ ४१ ॥ मूलमें वयालीमका श्लोकहै दही मंत्रहै इसीमें  
पढ़ा चाहिये ॥ ४२ ॥ अब शिशुमुंडिका देवीके लक्षण  
कहते हैं, जो नरया नारी, नित्य कर्म करते नहीं हैं और पक्षि-  
योंका पालन करते हैं, उनके वालकको जन्मान्तरमें शिशुमुं-  
डिका देवी ग्रहण करतीहै ॥ ४३ ॥ अब उसके लक्षण  
कहते हैं—वालक रोवे बहुत, हाथोंको पैरोंको उठा ढापटके और  
कंपे, आमज्वर हो, निद्रा नहीं आवे, बमनकरे आलस्यहो यह  
लक्षण होनेते शिशुपृष्ठिका देवीका दोष जानना । अब इसका

बलिविधान कहते हैं ॥ ४४ ॥ हरिद्रायुक्त अन्न अर्थात्  
 केशरीभात, तिलकुट, कचोरी, पूड़े, पुरी, घृत; सहत, दही, दूध,  
 सुगंधीके फूल, वस्त्र, लालबल्क ॥ ४५ ॥ धूप, दीपक, मिठाई  
 सुवर्णयुक्त जलका कलश। यह सब वस्तु एक मृत्तिकाके पात्रमें  
 धरके २१ बार मंत्र पढ़के ७ बार बालकके ऊपर वारके संध्या  
 समयमें नदी किनारे या बटवृक्षतले या बनमें बलिको देवे  
 बालक चंगाहो, शिशुमुंडिका देवीका दोप शांतहो ॥ ४६ ॥ मूलमें  
 सेतालीसका श्लोकहै यही मंत्र है इसीको पढ़ना चाहिये ॥ ४७ ॥

अथसामान्यतोग्रहाविष्टवालस्यचेष्टोद्रितनस्नानधू-  
 पमंत्राः कथ्यंते ॥ नखदंतविकारीस्यान्निद्राही-  
 नोथवाभवेत् ॥ भयोदेगीचदुर्गंधीवहुचेष्टोवलान्वि-  
 तः ॥ वालोवालग्रहाविष्टस्तस्यस्याच्चप्रतिक्रिया ॥  
 ॥ ४८ ॥ दूर्वासतिलाविष्टमच्छदत्वकप्रोद्रितनाद्व-  
 न्तिशिशुग्रहार्तिम् ॥ सप्तच्छदाऽश्वत्थमधूकरो-  
 लुपत्रैः कथाम्भः स्नपनाच्चशीतात् ॥ ४९ ॥ वंश-  
 त्वद्वन्तसंयुतं सलशुनं सारिष्टपत्रं घृतं निर्माल्यं नरके-  
 शसार्पिण्युरंगोक्षीराजीचतुः ॥ सिद्धार्थं जतु निंव-  
 पत्रसहितं वंशत्वगाज्यान्वितं धूपानां त्रयमेतदाशु-  
 सकलान्वालग्रहान्नाशयेत् ॥ ५० ॥ प्रणवः  
 शंखशब्देन रमापतिर्विदेत्तातः ॥ खगेश्वरततोल्माना-  
 कर्पणं कुरु संवदेत् ॥ वह्निजायावधिमंत्रो विलेपनवि-  
 धोस्मृतः ॥ ५१ ॥

भाषा—अब सामान्य रीतिसे ग्रह करके आविष्ट बालककी चेष्टा और 'उवटना स्नान धूप मंत्र' इन्होंको कहते हैं—जिस बालकके नस्खोंमें विकारहो और दाँतोंमें विकारहो, निशा आवे नहीं, भय लगे, मनको उद्देग रहे, शरीरमें दुर्गंधि आवे अनेक प्रकारकी चेष्टा करे, बलअधिकहोजावे, वह बालक ग्रहाविष्टजानना अब उसकी प्रतिक्रिया लिखते हैं ॥ ४८ ॥ दूर्वा, कुटकी, निंबके पत्ते तज, यह द्रव्य कूट कपड़छान करके बालकको उवटनाकरनेसे और पीछे सातोंनके पत्ते, पीपलके पत्ते, मुलहटी, लहेसवाके पत्ते इन औपधियोंकाकाथ करके बालकको स्नान करानेसे बालककी ग्रहणीडा नष्ट हो बालक चंगा हो ॥ ४९ ॥ अब बालग्रही शांतिके वास्ते धूप छिखते हैं—वांसका बकल, तगर, लहसन, निंबके पत्ते गौका धी, एक धूप यह है । दूसरी—शिवके चढ़े फूल, मनुष्यके शिरके बाल, धीगौका, अगर गङ्गादूध, राई, लास यह दूसरी धूप है। तीसरी—राई, लास, नीमके पत्ते, वांसका बकल, गौका धी, वह तीसरी धूप है। यह तीनों धूप बालकके देनेसे सब बालग्रह नष्ट हो जाते हैं ॥ ५० ॥ और उवटना विलेपनका यह मंत्र है। इस मंत्रसे बालकके उवटना विलेपन करना चाहिये ॥ मंत्रः ॥ ॐ शंसशब्देन स्मापतिः खगेश्वर लूनाकर्णं कुरु स्वाहा ॥ ५१ ॥

अथमंत्रं प्रवद्यामित्वभिपेककरं वरम् ॥ प्रणवं सर्वं सिद्धांतेमातरितिपदं वदेत् ॥ ५२ ॥ इमं ग्रहं संह-  
रतुहुं रोदयचरोदय ॥ स्फोटयद्वितयं गृह्णद्वयमा-  
ईयद्वयम् ॥ ५३ ॥ शीघ्रं हनद्वयं प्रोक्तमेवं सिद्धो

वदेत्ततः ॥ रुद्राज्ञापयतिस्वाहास्नानेचैषविंधिः  
स्मृतः ॥ ५४ ॥ बालकस्यशिरः सपृष्ठां ऽजसासर्व-  
ग्रहान्हरेत् ॥ ५५ ॥ खुंखुर्दनं समुच्चार्यखंडुफट-  
वह्निवल्लभा ॥ नवाणोंयं समाख्यातो धूपने सर्वकर्म-  
सु ॥ ५६ ॥ रक्षरक्षमहादेवनीलग्रीवजटाधर ॥  
ग्रहैस्तु सहितो रक्षमुंचमुंचकुमारकम् ॥ ५७ ॥ भूर्ज-  
पत्रैमंलिख्य गुटिकां कृत्य वंधयेत् ॥ भुजेबालस्य  
रक्षाथं सर्वं ग्रहहरं परम् ॥ ५८ ॥ प्रणवं मुक्तु केति  
एकएकद्वुवद्यम् ॥ जयद्वयं च आगच्छबालकंठ-  
द्वयं वदेत् ॥ ५९ ॥ वह्निजायावधिमंत्रः सर्वग्रहवि-  
मोचनः ॥ जपेहो मेरपैणेच बालकस्य सुखावहः ॥  
॥ ६० ॥ तारं च शक्तिलयुगान्वितवह्निजायाकोणे-  
षु पद्मसुपरिलिख्य पडक्षरांश्च ॥ वृत्तत्रयेण परिवीत-  
मिदं हियं त्रं वद्धं तदाशुशिशुरोदनमुत्क्षणोति ॥ ६१ ॥  
पट्टोणमध्येच विलिख्य मंत्रेनामान्वितं पूर्णशशांकयु-  
क्तम् ॥ पट्टोणमध्येतु पडक्षराणिं च द्रान्वितान्येव-  
मिदं लिखेद्दै ॥ ६२ ॥

इति श्रीकल्याणवैयक्तते बालवंते साधारणबालकग्रहर-  
क्षाकथनं नामैकादशः पटलः ॥ ११ ॥

भाषा-बालकके अभिषेक करानेमें श्रेष्ठ मंत्रको कहते हैं ॥ ॐ  
सर्वसिद्धान्ते मावरिमं ग्रहं संहर हुं रोदय रोदय स्फोट्यस्फोट्य  
गृह्ण गृह्ण आमर्दय आमर्दय शीघ्रं हन हन एवं सिद्धो रुद्राज्ञाप-  
यति स्वाहा ॥ इस मत्रसे ग्रहपीडित बालकको ल्लान करावे

और वालकका शिरस्पर्श करके मन्त्र पढ़नेसे यह मंत्र वालक-  
श्रहाँको शीघ्र दूर करता है॥५२॥ ॥५३॥ ५४॥ ५५॥  
खुं खुर्दनं सं हुं फट्स्वाहा यह नौ अक्षरका मंत्रहै वालकको धूप  
इस मंत्रसे देनी चाहिये ॥ ५६॥ सतावनका जो श्लोकहै यह  
मन्त्र है इसको भोजपत्रमें लिखके रक्षाके वास्ते वालकके गलेमें  
वांधे तो वालकके सर्व श्रह नष्ट हों ॥ ५७॥ ५८॥ ॐ मुक  
मुक एक एक द्रुवद्रुवजय जय आगच्छ आगच्छ वालकं ठः  
ठः स्वाहा इस मन्त्रको जपनेसे या इससे होम करनेमें या तर्पण  
करनेसे वालकके सर्व श्रह दूर होजातेहैं और सुख हो जाता है  
॥ ५९॥ ६०॥ ॐ ह्रीं लुलु स्वाहा यह छः अक्षरका मन्त्रहै  
इसकेद्वयका पद्मोणयंत्रके छः

कोणोंमें लिखे और पद्मोण यंत्र  
के ऊपर तीन आवर्त करने चा  
हिये उसकेमध्यमें पूर्ण चन्द्राका  
रवृत्त करना चाहिये उसमें मंत्र  
लिखना चाहिये और वालक-  
कानाम लिखना चाहिये ऐसा यंत्र लिखके वालकके गलेमें वांग-  
नेसे यह यंत्र वालकके रोदनसे दूर करता है॥ ६१॥ ६२॥  
इति श्रीपदितन दउमारवीद्यकृत वालतंत्रभाषार्थकायामेनादशः पठः ??

कंदंविदार्द्यीः पयसाग्रपीतं स्तन्यप्रवृद्धिविदधातिस-  
गोधूमधूपः सहगोप्तेन तद्रत्प्रदिष्टः सितयास-



मेतः ॥ १ ॥ मागधिकायाः कर्पससाहंयापयः पिष्टम् ॥  
 ससितं प्रभाते पिवति तस्याः स्वतः पयोधरौ सततम् ॥ २ ॥ अजाजिकर्पय साप्रपिष्टयासे वते सप्तदिनानि  
 नारी ॥ तस्याः कुचौ संततदुग्धपूर्णौ कुमारपुष्टिकुरुतः  
 सुखेन ॥ ३ ॥ पिष्पल्या अवरजो भिर्गृहधूमरजो युतैः कृतो  
 यूपः ॥ शेततिलं तैलसहितो भुक्तः स्त्रीणां पयोजनकः ॥ ४ ॥ कुकुरमदै कमूलं विधि नियतं वदनमध्यगतं ना-  
 र्या ॥ सततं स्थितं दशाहात्प्रभूतदुग्धप्रदं भवति ॥ ५ ॥  
 क्षीरान्नाभ्यां भवं क्षीरं सुश्वेतसितयान्वितम् ॥  
 क्षीरं संजनयेन्नार्याः प्रयत्नेन निषेवितम् ॥ ६ ॥ प्रस्थ-  
 तं डुलरजः सप्यस्कंया पिवत्यनुदिनं सघृतेन ॥ दुग्ध-  
 भक्तमशनं विद्यानासाक्षरत्यविगतं वहुदुग्धम् ॥ ७ ॥ वनकार्पासके क्षूरणां मूलं सौवीरकेन वा ॥ विदारी कंद-  
 स्वरसं पिवेद्यास्तन्यवृद्धये ॥ ८ ॥ शालिपष्टिक-  
 दुग्धे शुकुशकासवलान्विता ॥ गुंद्रेशुवालिकामूली  
 दशैते स्तन्यवर्धनाः ॥ ९ ॥ इति स्तन्यवर्द्धनम् ॥

भाषा—अब स्तन्यवर्धन प्रयोग लिखते हैं ॥ विदारी कंदका  
 शूर्ण २ मासे गौके दूधके संग पीनेसे वर्त्तमाल स्तन्यवृद्धिको  
 करता है और गेहूंका पूड़ा, धी, मिसरी से ज्ञानेसे यही स्तन्य  
 वृद्धि करता है ॥ १ ॥ अथवा एक गोला पीपल छोटी गौके  
 दूधसे पीनके गौके दूधमें ही छानके मिसरी ढालके दिन ७ जो  
 सी पीवे उसके स्तन निरंतर वृद्धि लग जावे ॥ २ ॥ और जो

स्त्री १ तोला सफेद जीरको दूधसे पीसके ७ दिन दूधसे सेवन करे तो उसके कुच दुग्धसे पुर्ण हो जावें और बालककी तृप्ति करने लायक होजावें ॥ ३ ॥ पीपल और गृहधूम इन दोनोंका यूष बनाके उसमें सफेद तिलीका तेल डालके जो अदुग्धा स्त्री सावे तो यह योगभी स्तनोमें दुग्ध पैदा करता है ॥ ४ ॥ करोंदेकी जड़को स्त्री दश दिन निरन्तर मुखमें रखसे तो बहुत दूधउत्तरने लगजावे ॥ ५ ॥ जो स्त्री निरंतर सपेद वूरा डालके सीर साया करे तो उसके स्तनोमें बहुत दूध होवे ॥ ६ ॥ एक सेर चावलों-के चूनको स्त्री दूधके संग जो स्त्री पीवे, दूधभात साया करे तो उसके बहुत दूध उत्तरने लगजावे ॥ ७ ॥ बनकी कपासकी जड और ऊखकी जड इनको कांजीके पानीसे पीवे स्त्री अथवा विदारीकंदके स्वरसको पीवे तो उसके दूध उत्तरने बहुत लग-जावे और किसी जगह “विदारीकंद सुरया” ऐसा पाठ है उसका यह अर्थ करना—दूध बढानेके वास्तेविदारीकंदको मदि राके संग पीवे ॥ ८ ॥ चावल पुराने १ या सांठी चावल ३ दूध ३ ऊख ४ कुशाकी जड ५ कांसकी जड ६ खरीटी ७ मूंदनी ८ तालमस्ताना ९ सपेद मुसली १० यह दश द्रव्य दूधके बढानेवाले हैं ॥ ९ ॥

यथोक्तांकारयेद्वावींनवयोवनसंस्थिताम् ॥ शुचिनी-  
रोगामकृशांजीववत्सामलंकृताम् ॥ १० ॥ मध्यप्र-  
माणांश्यामांगींविशेषाच्छीलशोभिताम् ॥ कुलजासु-  
—रुदुग्धांशुद्वचित्तामलोलुपाम् ॥ ११ ॥ सुंदरांगीं

हसद्वक्रांवत्सलांगर्ववर्जिताम् ॥ स्तन्यमस्याःपरिद-  
त्तंबालानांपुष्टिकारकम् ॥ १२ ॥ शुद्धेस्तन्येनिरो-  
गःस्यादन्यथारोगसंभवः ॥ शीतलंविमलंक्षितमेकी-  
भावंजलेभवेत् ॥ नचभिव्यतितच्छुद्धंस्तन्यंफेनविव-  
र्जितम् ॥ १३ ॥ एताहशेनबालस्यकश्चिद्रोगोनजा-  
यते ॥ यदावामातुरेवास्तिस्तन्यंशुद्धंप्रदापयेत् ॥ १४ ॥  
मिथ्याहारविहाराभ्यांदुष्टावानादयःखियाः ॥ दूपय-  
तिपयस्तेनबालरोगस्यसम्भवः ॥ १५ ॥ तस्मात्प्र-  
यत्नतोधात्याःपथ्यमेकान्ततोहितम् ॥ तस्याश्वम-  
नसःकष्टकदाचिन्नापिकारयेत् ॥ १६ ॥

इति धात्रीलक्षणम् ।

भाषा—बालकके वास्ते धाय जैसी शास्त्रमें लिखी है वैसी करनी  
चाहिये कैसी होनी चाहिये उसको लिखते हैं प्रथम जवानउमरकी  
हो दूसरे पवित्र रहती हो और उसके शरीरमें किसी तरहका रोग  
नहीं रुक्ष नहीं हो बालक सब जीवते हों और आभूषण पहरे  
दुए हो ॥ १० ॥ न बहुत लंबा शरीरकी हो, न छोटे शरीरकी  
हो और सुंदर सर्वगात्र जिसके हों और विरोपतासे शीलवाली  
हो अच्छे कुलकी हो और जिसके सुंदर कुचहों अच्छा निर्मल  
दूध स्तनोंमें हो और लाने पीनेमें बहुत लोलुपा नहीं हो ॥ ११ ॥  
जिसका मनोहर अंगहो और हास्ययुक मुखहो स्नेहवाली हो  
और जिसको अभिमाननहो ऐसी धाय करनी चाहिये ऐसी धाय-  
का दुग्ध बालकको पुष्टि करता है ॥ १२ ॥ खीका दुग्ध शुद्ध-

होनेसे वालकको रोग नहीं होता और अशुद्ध होनेसे रोगका उदय करता है इस वास्ते शुद्धदुग्धके लक्षण कहते हैं। दुग्धशीतलहो, और जलमें डाला मिलजावे भेदको नहीं प्राप्त हो और जिसमें ज्ञाग नहीं हो ऐसा दुग्ध शुद्ध होता है॥ १३॥ ऐसा दुग्ध पीनेसे वालकके कोई रोग नहीं होता है और जो माताकाही दुग्ध शुद्ध हो, तब वही दुग्ध देना चाहिये ॥ १४ ॥ स्त्रीके मिथ्याआहारसे और मिथ्याविहारसे वातादिक दोष कुपित हुए दुग्धको दूपित कर देते हैं उसी दूपित दुग्धसे वालकको रोगका संभव होजाता है ॥ १५ ॥ इसी कारणसे धायको या माताको घडे जतनसे पथ्य पदार्थोंका सेवन करावे और उस धायके चित्तको किसी बक्त न विगड़नेदे खूब प्रसन्न रखे ॥ १६ ॥ इति धात्रीलक्षणम्॥

अनृतासतपर्णत्वककाथःस्तन्यस्यसिद्धये ॥ पायये-  
दथवापाठायुक्तंनिष्काथ्यरोहितम् ॥ १७ ॥ भूनिव-  
पाठामधुकंमधूकंनिष्काथ्यतोयेमधुचार्धकर्पम् ॥  
प्रक्षिप्यपीतिंशिशुरोगशांतिदुग्धस्यशुद्धिचकरोतिस-  
द्यः ॥ १८ ॥ पंचकोलमधुकैःसकुलत्थैर्विल्वत्मूलत-  
गरैःकुचलेपः ॥ निर्मितोहितकरोवहुवारंदुग्धशुद्धि-  
मयमाशुकरोति ॥ १९ ॥ पाठारसांजनंमूर्वासुरदा-  
रुप्रियंगवः ॥ एभिःस्तनस्यैववर्ण्यपूतिगंधिहरोमतः  
॥ २० ॥ मुस्तापाठशिवाकृपणाचूर्णंदुन्धेनपाययेत् ॥  
एतेनसहसाशुद्धिर्धूंस्तन्यस्यजायते ॥ २१ ॥ त्राय-  
माणानृतानिवपटोलेखिफलान्वितेः ॥ स्तनप्रलेपतः

श्रीत्रिस्तन्यशुद्धिः प्रजायते ॥ २२ ॥ पूर्वमालेपनंशु-  
ष्कं प्रक्षाल्य निर्मलाम्बुना ॥ स्तनों स दुग्धवौ विधिना  
पायये द्वालकंततः ॥ २३ ॥ इति स्तन्यशुद्धिः ॥ शिशोरो-  
गान्परी क्षेतरो दनान्मुखवर्णतः ॥ स्तनाकर्पणतश्चा-  
पिततः कुर्याच्चिकित्सतम् ॥ २४ ॥ मात्रयालंघये-  
द्वात्रीं शिशोनें द्विशोपणम् ॥ सर्वनिवार्यते भर्त्स्य  
क्वचित्स्तन्यं न वारयेत् ॥ २५ ॥

भाषा— गिलोय, शातोन, दालचीनी, इनका काथ दुग्धकी  
शुद्धिके वास्ते खोको प्यावे अथवा कश्मीरी, पडा, वहेडाकी जड  
इनका काथ करके खोको प्यावे ॥ १७ ॥ चिरायता, कश्मीरी,  
पडा, मुलहटी, महुआ इनके काथमें आधा तोला सहत डालके  
खी पीवे वालकका रोग शांत हो और दुग्धकी शुद्धि हो ॥  
॥ १८ ॥ पीपल, पिपलीमूल, चब्य, चीवा, सौंठ, मुलहटी, कुलथी,  
बेलकी जड, तगर इन औपधियाँको जलमें पीसके स्तनोंके ऊपर  
लेप कईबार करनेसे दुग्ध शुद्ध हो जाता है ॥ १९ ॥ कश्मीरी,  
पडा, रसोत, मोरबेल, देवदारु, प्रियंगुः इन द्रव्याँका स्तनोंपर लेप  
करनेते यह लेप स्तनकी विवर्णताको और दुर्गथको हसता है ॥  
॥ २० ॥ नागरमोथा, कश्मीरी, पडा, हरडै, पीपल इनका  
चूर्ण दुग्धके संग पीनेसे श्रीत्र दुग्धशुद्धि हो जावे ॥ २१ ॥  
त्रायमाण, गिलोय, नंविकी छाल, परबल, हरडैकी छाल, वहेडा,  
आंवला इन द्रव्याँका स्तनोंपर लेप करनेसे वहुत जल्दी दुग्धशुद्धि  
हो जाती है ॥ २२ ॥ पहिलेकालेप सूखा हुवाको निर्मल जलसे धोके

‘पीछे विधिपूर्वक बालकको स्तनपान करावे ॥ २३ ॥ इति  
दुग्धशुद्धिः॥ प्रथमबालकके रोनेसे, मुखवर्णसे, स्तनके खाँचने-  
से बालकके रोगका निश्चय करे पीछे चिकित्साको करो॥२४॥  
बालककी बीमारीमें अनुमान माफिक धायको लंघन करावे  
बालककी शोषणी क्रियान करे बालककीसर्व वस्तुका निवार-  
णकरदे और दुग्धका निवारण किसी समयमें नहीं करे॥२५॥

वातेनधमापितानाभिसहजांतुंडसंज्ञिताम् ॥ मारु-  
तत्रैः प्रशमयेत्स्नेहस्वेदोपतापनैः ॥ २६ ॥ मृतिप-  
डेनाग्निवर्णेनक्षीरसिक्तेनसोष्मणा ॥ स्वेदयेदुत्थितां  
नाभिशोफस्तेनोपशाम्यति ॥ २७ ॥ दग्धेनच्छा-  
गशकृतानाभिपाकेऽवगुंठनम् ॥ लेपंक्षीरेणवाशस्तं  
पर्णत्वग्रेषुचन्दनैः ॥ २८ ॥ नाभिपाकेनिशारो-  
धः प्रियंगुमधुकैःकृतम् ॥ तैलमध्यंजनेशस्तमेभि-  
र्वाप्यवचूर्णनम् ॥ २९ ॥ बालोयोचिरजातः स्त-  
न्यंगृलातिनैवतस्याशु ॥ सैधवधात्रीमधुधृतपथ्या-  
कल्केनघर्षयेज्जिहाम् ॥ ३० ॥ गुदपाकेतुवाला-  
नांपित्तार्घीकारयेत्क्रियाम् ॥ रसांजनंविशोषेणपाना-  
लेपनयोहितम् ॥ ३१ ॥ जातीप्रवालकुसुमानि  
समाक्षिकाणियोज्यानिवालकजनस्यमुखप्रपाके ॥  
पाकेगुदस्यचरसांजनलोध्रचूर्णयोज्यंभिपग्भिरुपदि-  
ष्टमिदंशिशूनाम् ॥ ३२ ॥ आप्रसाररजसासह-  
साऽस्तंयातिनैतिचशिशोर्मुखपाकः ॥ गैरिकेणम-

धुनाथचसर्वेः श्रेतसारखदिरांजनयोगैः ॥ ३३ ॥  
 बालकस्यापि सुस्नेहैरभ्यंगं समुपाचरेत् ॥ कोष्णेन  
 पयनास्नानं फलवित्कारयेत्ततः ॥ ३४ ॥ दुष्टग्रह-  
 गृहीतानां नृणां नेष्टुदर्शनम् ॥ विशेषाद्रक्षयेद्विषि-  
 दोषं रक्षा दिभिः शिशोः ॥ ३५ ॥

इति बालकस्य नाभिगुदमुख्याकचिकित्सा ।

भाषा—अब बालकके रोगोंकी चिकित्सा लिखते हैं—वायुसे  
 बालककी नाभि फूल जाती है और नाभिमें पीड़ा बहुत हो,  
 उसको “तुंडसंज्ञक” नाभि कहते हैं—अब चिकित्सा लिखिते हैं।  
 वायुके दूर करनेवाले स्नेह, स्वेद, उपतापन इत्यादिकोंसे नाभिको  
 स्वेदन करे ॥ २६ ॥ या मिट्टीके डलाको अग्निमें खूब तम  
 करे जब अग्निकी माफिक उसका वर्ण होजावे तब उसको  
 दूधमें बुझाके कपड़ामें लेपेटके नाभिको सेके जिससे नाभिका  
 शोजा शांत हो जावे ॥ २७ ॥ अथवा बकरीकी विष्ठाको  
 जलाके उस भस्मको नाभिपर लगाके हाथकी अंगुलीसे दबा-  
 देनेसे अथवा नागरपान, दालचीनी, मेहँदीके बीज, लाल चंदन  
 इनको दूधमें पीसके नाभिपर लेप करनेसे नाभिपाक अच्छा  
 हो जाता है ॥ २८ ॥ नाभिपाकमें हल्दी, लोध, मेहँदी, मुल-  
 हटी इन द्रव्योंसे तैल पकाके लगावे अथवा इन्हीं द्रव्योंका  
 र्ण करके नाभिपर लगावे ॥ २९ ॥ जो बालक जन्म होने  
 वाल बहुत कालतक दूध न पीवे तब सैंधव नमक, आंवला,  
 सहूत, बूत, हरडैकी छाल इन द्रव्योंका कल्क करके बालककी

जिह्वाको वर्णण करे ॥ ३० ॥ वालककी गुदापाक होनेसे पित्तनाश करनेवाली किया करनी चाहिये । और रसोत पीनेमें लगानेमें विशेषता करके हितकारी है ॥ ३१ ॥ वालकके मुखपाकरोगमें चमेलीके पत्ते और फूल दोनों पीसके सहतमें मिलाके मुखमें लगाना चाहिये अथवा इसको उवालके और छानके सहत डालके कुट्टी कराना चाहिये और वालककी गुदापाकमें रसोत, लोध इनका चूर्ण अवगुंठन करना चाहिये ॥ ३२ ॥ आब्रसारके चूर्णसे अथवा चमेलीके पत्तोंके चूर्णसे या गेहूं और सहतसे अथवा कपूर, कत्था, अंजन यह चार योगहैं अलहदा अलहदासे वालकका मुखपाक जाता रहता है और समस्त द्रव्योंसेभी जाता रहता है ॥ ३३ ॥ और वालकको अच्छे अच्छे चंदनादिक लाक्षादिक तैलोंसे अत्यंग कराना चाहिये पश्चात् गरम जलसे स्नान करा देना चाहिये ॥ ३४ ॥ और वालकको दुष्टगृहीत पुरुषोंका दर्शन नहीं करावे और विरोपताकरके मंत्र यंत्रोंसे वालकके दृष्टिगोप नहीं होने देवे ॥ ३५ ॥

इति वालकस्य नाभिगुदमुखपाकचिकित्सा ।

अथ शिशूनां ज्वरचिकित्सा लिख्यते ॥ मुस्ताभया-  
निंवपटोलयष्टीकाथः शिशूनां ज्वरनाशकारी ॥ तद्व-  
द्वृद्वची विहितश्वसारः सुप्रत्ययोयं मधुनावलीढः ॥ ३६ ॥ सितामधुभ्यांकदुकीचलीदासाध्मानमु-  
अञ्जवरमाशुहन्यात् ॥ तत्कल्कलेपञ्चकृतः शिशूनां

मुहुर्मुहुदोपविनाशहेतुः ॥ ३७ ॥ काथःकृतःपद्म-  
 कनिंवधान्यच्छन्नोद्भवालोहितचंदनोत्थः ॥ ज्वरंज-  
 येत्सर्वभवं कृशानुधात्रीशिशुभ्यां प्रकरोतिपीतः ॥ ४८ ॥  
 ॥ ३८ ॥ अमृतैकोपितानीरे यावद्यामाष्टकं भवेत् ॥  
 शिशूनांशमयत्याशु सर्वदोपभवंज्वरम् ॥ ३९ ॥  
 यष्टीमधुतुगाक्षीरीलाजांजनसिताकृतः ॥ लेहःप्रद-  
 त्तोवालानामशेपज्वरनाशनः ॥ ४० ॥ काथः  
 स्थिरागोक्षुरविश्वालक्षुद्राद्यच्छन्नरुहाकिरातैः ॥  
 वातज्वरंसंशमयेत्पीतोवालेनधायाचकृशानुका-  
 री ॥ ४१ ॥ पंचमूलीकृतः काथःपीतो वातज्वरा-  
 पहः ॥ तद्वच्छन्नरुहाद्राक्षागोपकन्यावलाभवः ॥  
 ॥ ४२ ॥ गुडूचीसारिवोशीरचन्दनोत्पलपद्मकैः ॥  
 परूपमधुकाशमर्यधन्याकैविंहितोजयेत् ॥ ४३ ॥

भाषा—अब वालकोके ज्वरकीचिकित्सा लिखतेहेन-नागर-  
 मोया, हरडैकी छाल, नीमकीछाल, पलवल, गिलोय इन औपधि-  
 योंका काथ बालकोंके ज्वरको नाश करताहै ऐसेही गिलोयका  
 चूर्ण या स्वरस सहतसे चाटनेसे ज्वरको नाश करताहै यह प्रत्यक्ष  
 फलदेनेवालाहै ॥ ३६ ॥ मिसरी सहतसे कुटकीके चूर्णको  
 चाटे तो आधमानसहित ज्वरको नाशकरे और कुटकीका  
 कल्कभी बालकके लेप फरनेसे ज्वरका नाश करताहै ॥ ३७ ॥  
 पझकाष्ट, नींबकी छाल, गिलोय, लालचन्दन इन द्रव्योंका काथ  
 बालक, बालककी माताको प्यानेसे त्रिदोषके ज्वरको दूरकरे

भूखको पैदाकरे ॥ ३८ ॥ खाली गिलोय आठपहर भिगोके  
 पीसके पीनेसे वालकके सब तरहके ज्वरको दूर करतीहै ॥  
 ॥ ३९ ॥ मुलहटी, सहत, वंशलोचन, धानकी, सील, रसोत  
 कोई वैद्य अंजन करके शुद्ध सुरमाको घ्रण करतेहैं और मिश्री  
 इनका अवलेह वालकको देनेसे अरोपतासे ज्वरका नाश  
 करनेवाला है ॥ ४० ॥ शालपर्णी, गोखरु सूंठ, नेत्रवाला, दोनों  
 कटेहली छोटी बड़ीकी जड, गिलोय चिरायता इनकरके किया  
 दुवा काथ वालकको और धायको प्यानेसे वालकके बात-  
 ज्वरको शमनकरे अग्निको तेजकरे ॥ ४१ ॥ लघुपंचमूलका  
 काथ पान किया बातज्वरको दूर करताहै। शालपर्णी, पृष्ठपर्णी,  
 छोटी कटेहली, बड़ी कटेहली, गोखरु, यह लघुपंचमूलकदव्यहै  
 और ऐसेही गिलोय मुनझा, सिरयाई, सरेटी, इनका काथ बात-  
 ज्वरको दूर करताहै ॥ ४२ ॥ गिलोय, सिरयाई, सस, टाल  
 चंदन, नीठोफर, पञ्चकाष्ठ, फालसा, मुलहटी, गंभारी, धनिया इन  
 द्रव्योंका किया काथ पीनेसे बातज्वरको जीविताहै ॥ ४३ ॥

शारिवोत्पलकाश्मर्यच्छन्नापञ्चकपर्पटः ॥ काथः पी-  
 तोनिहंत्याशुरिशूनांपैत्तिकंज्वरम् ॥ ४४ ॥ मुस्ताप-  
 र्पटकोशीखारिपञ्चकसाधितम् ॥ शीतंवारिनिहंत्या-  
 शुतृप्णादाहव्मिज्वरान् ॥ ४५ ॥ मधुकंचंदनंद्राक्षाधा-  
 न्यकंसदुरालभम् ॥ एतेः काथः कृतोहन्यादाहं बातज्व-  
 रंतथा ॥ ४६ ॥ मुस्तकंचन्दनंवासाहीवेरंयएकामृता ॥  
 एषांकाथोऽत्यपित्तमस्तृप्णादाहज्वरापदः ॥ ४७ ॥

वासापैटकोशीरनिवभूनिवसाधितः ॥ काथोहं-  
तिवमि श्वासकासपित्तज्वराज्ञिशोः ॥ ४८ ॥ अभया-  
मलकीकृष्णचित्रकोयंगणोमतः ॥ दीपनः पाचनो  
भेदीसर्वश्लेष्मज्वरापहः ॥ ४९ ॥ कटफलं पुष्करं शृं-  
गीपिप्पलीमधुनासह ॥ एपांलेहोज्वरं श्वासंकासं मंदा-  
नलं जयेत् ॥ ५० ॥ कटुकं कटफलं शृंगीपुष्करं पिप्प-  
लीतथा ॥ समस्तानेकशोवापिद्विशोवापिभिपग्वरः  
॥ ५१ ॥ एतां चूर्णीकृतानयान्मध्वार्दिकरसङ्कुतान् ॥  
कफज्वरारुचिश्वासच्छर्दिशूलापहज्ञिशुः ॥ ५२ ॥  
शोद्रोपकुल्याः संगस्तु श्वासकासज्वरापहः ॥ मुहा-  
नंहंतिहिकां च वालानां तु प्रशस्यते ॥ ५३ ॥

भापा—सिरयाई, नीछोफर, गंभीरी, गिलोय, पझकाष, तिज-  
पापडा, इनकरके किया काथ पान करनेसे बालकोंके पित्त-  
ज्वरको नष्ट करता है ॥ ४४ ॥ नागरमोथा, पित्तपापडा, सस-  
नेत्रवाला, पझकाष इन द्रव्यों करके सिङ्ग किया काथ शीतल  
करके पान करनेसे प्यासको, दाहको, घमनको, ज्वरको शीघ्र  
नष्ट करता है ॥ ४५ ॥ मुलहटी, लालचंदन, मुनका, धनियाँ,  
धमासा इन करके किया काथ पीनेसे दाहको वातज्वरको नाश  
करता है ॥ ४६ ॥ नागरमोथा, लालचंदन, वांसा के पत्ते, मैत्र  
बाला, मुलहटी, गिलोय, इनका काथ रक्तपित्तका, तृष्णका,  
दाहका, ज्वरका नाश करनेवाला है ॥ ४७ ॥ वांसा, पित्तपापडा,  
सस, नींवको छाल, चिरायता, इन करके साधित किया काथ

वालकको प्यानेसे वमनको, श्वासको, कासको, पित्तज्वरको नष्ट करता है ॥ ४८ ॥ हरडैकी छाल, आँवला, पीपल छोटी, चीता इन चार औषधियोंका योग यह दीपन पाचनगण कहा है दस्तावरहै, संनिपातज्वरको; कफज्वरको, नष्ट करता है ॥ ४९ ॥ कायफल, पोहकरमूल, काकडासींगी, इनका सहतसे चाटना ज्वरको, श्वासको, कासको, मंदाभिको जीवता है ॥ ५० ॥ मिरच, कायफल, काकडासींगी, पोहकरमूल, पीपल छोटी, इन द्रव्योंमेंसे, एकको या दोको या सबको चूर्णकरके अदरस्तका अर्क और सहतके संग चाटनेसे वालकके कफज्वर, अहंचि, श्वास, छर्दी, शूल यह सर्व नष्ट होजाते हैं ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ छोटी पीपलको सहतसे चाटना श्वास, कास और ज्वर इनको हतो है झीहाको, हिचकीको नष्ट करता है. इसका चाटना वालकको बहुत अच्छा है ॥ ५३ ॥

मधुकंशारिवाद्राक्षामधूकंचंदनोत्पलम् ॥ काश्मरी  
पञ्चकंलोध्रंत्रिफलापञ्चकेसरम् ॥ ५४ ॥ पहुंचकं  
भृणालंचन्यसेदुत्तमवारिणि ॥ मधुलाजासितायु-  
क्तंतत्पीतमुपितंनिशि ॥ ५५ ॥ वातपित्तज्वरदाहं  
तृष्णामूर्च्छारुचिभ्रमान् ॥ शमयेद्रकपित्तंचर्जीमूर्त-  
मिवमारुतः ॥ ५६ ॥ केरातोजलदस्तिव्राप्त्वमू-  
लीलधुस्तथा ॥ एपांकपायोहंत्यागुवातपित्तोत्तरं  
ज्वरम् ॥ ५७ ॥ मुस्तापर्टकंचिन्नाकिरातंविध्वं-  
पजम् ॥ एपांकपायोदातव्योवातपित्तज्वरापहः ॥

॥ ६८ ॥ उशीरं मधुकंद्राक्षाकाशमरीनीलमुत्पल-  
म् ॥ पहुपकंपझकंचमधुकंमधुकंवला ॥ ६९ ॥  
एभिः कृतः कपायोयंदातपित्तज्वरंजयेत् ॥ प्रलाप  
मूर्च्छासंमोहतृष्णा पित्तज्वरापहः ॥ ७० ॥ त्रिफला  
पित्तुमंदञ्चपटोलं मधुकंवला ॥ एभिः काथः कृतः  
पीतः पित्तलेष्मज्वरापहः ॥ ७१ ॥ अमृतेन्द्रय-  
बोरिष्टपटोलं कदुरोहिणी ॥ नागरं चंदनं सुस्तं पिष्ठ-  
लीचूर्णसंयुतम् ॥ ७२ ॥ अमृताएकमित्येतत्त्वि-  
त्तश्लेष्मज्वरापहम् ॥ हल्लासारोचकच्छद्दितृष्णा-  
दाहनिवारणम् ॥ ७३ ॥

भाषा—मुलहटी, सिरयाई, मुनका, महुवाके पुष्प; लाल-  
चंदन, नीलोफर, गंभारी, पझकाष्ठ, लोध हरडैकी छाल, बहेडा-  
आंवला, कमलगटा, नागकेसर, पझकेसर, इस पदसे कमल,  
केसरकोभी व्रहण करते हैं ॥ ५४ ॥ फालसा, कमलनालं,  
धानकी खील, मिसरी, इन इच्छोंको रात्रिमें भिगोरकसे प्रातः-  
काल कपड़ासे छानके शहद ढालके प्यानेसे वालकके वात-  
पित्तज्वरको, दाहको, प्यासको, मूर्च्छाको अरुचिको, भ्रमको;  
रक्तपित्तको शमन करता है, जैसे मेघको वायु शमन कर देता है  
वद्दद् ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ चिरायता, नागरमोथा, गिलोय,  
शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, दोनों कटेहली, गोखल, इनका काथ वात-  
पित्ताधिक ज्वरको नष्ट करता है ॥ ५७ ॥ नागरमोथा,  
पित्तपापडा, गिलोय, चिरायता, सौंठ इनका काथ वाल-

कूक्ले देनेसे वातपित्तज्वरको नष्ट करताहै ॥ ५८ ॥ ससौ  
 मुलहटी, मुनका, गंभारी; नीलोफर, फालसा, पञ्चकाष्ठ, मुलहटी,  
 मदुवाके फूल, खरेंटी ॥ ५९ ॥ इन द्रव्योंका किया काथ  
 पीलेसे वातपित्तज्वरको जीतताहै, प्रलाप, मूर्छा, मोह, तृपा,  
 पित्तज्वर, इनको नष्ट करताहै ॥ ६० ॥ अन्योपायः ॥ हरडै  
 वडी, बहेडा, आंवला, नींवकी छाल, पलबल, मुलहटी, सरेंटी,  
 इन द्रव्योंकरके किया काथ पियाहुवा पित्तश्लेष्मज्वरको नष्ट  
 करताहै ॥ ६१ ॥ गिलोय, इंद्रजौ, नींवकी छाल, पलबल,  
 कुल्लमै, सूठ, लालचंदन, नागरमोथा, इन द्रव्योंका काथ करके  
 पीरेंठका तूर्ण उसपर बुरकाके वालकको प्यावे ॥ ६२ ॥  
 यह अमृताष्टक पित्तश्लेष्मज्वरको, हृष्टासको, अरुचिको, छर्दिको  
 तृष्णाको, दाहको निवारण करताहै ॥ ६३ ॥

मुस्तामृतापर्पटपुष्कराह्वैः पटोलघन्याककिरातति-  
 त्तैः ॥ सचंदनोशीरवलाजकाख्यैः काथः परंपित्तक-  
 फज्वरम्भः ॥ ६४ ॥ हृष्टासतृप्णामोहांश्चारुचिदाहं  
 चछद्दनम् ॥ पार्थव्यथांहरेत्सद्यः प्रयोगोयं सुशोभ-  
 नः ॥ ६५ ॥ धान्याकचंदनपञ्चकमुस्ताराकयवास-  
 लकैः सपटोलः ॥ शीतकपायमसुखलुद्वाद्वालकपि-  
 त्तकफज्वरहृत्यात् ॥ ६६ ॥ वासारसः क्षीद्रसितात्मे-  
 तोज्वरं हरेत्पित्तवलासजातम् ॥ श्वासंसकासंचवमिस-  
 दाहं सकामलं हतिसरक्तपित्तम् ॥ ६७ ॥ सारग्ववः  
 सातिविपः समुस्तस्तिक्काकपायोज्वरमाशुहन्यात् ॥

सामंसशूलं सवामिसदाहं साध्मानवं धंसकफंसवातम्  
॥ ६८ ॥ किराततिक्तकं मुस्तं गुदूची विश्वभेपजम् ॥  
चातुर्भद्रकमित्यादुर्वातुश्लेष्मज्वरापहम् ॥ ६९ ॥  
मुद्रतं छुलसंसिद्धं केवलैर्वामकुष्ठकैः ॥ पथ्यमत्रभिप-  
गद्याद्यपंवातकफज्वरे ॥ ७० ॥ दशभूलीकृतःकाथः  
पिष्पलीचूर्णसंयुतः ॥ मोहंसंशमयेतद्वत्संनि-  
पातंज्वरं तथा ॥ ७१ ॥

भाषा—नागरमोथा, गिलोय, पित्तपापडा, पीहकरमूल, पलबल,  
धनियां, चिरायता, लालचन्दन, खस, खैंटी, नेत्रवाला इनों कर-  
के किया काथ पीनेसे पित्तकफज्वरका नाश करता है ॥ ६४ ॥  
हल्लासको, तृष्णाको, मोहको, अरुचिको, दाहको, छर्दिको, पार्श्व-  
शूलको तत्काल हरता है, यह प्रयोग बहुत सुंदर वैयोग्ये ने कहा है ॥  
॥ ६५ ॥ अन्यः ॥ धनियां, लालचन्दन, पन्नाख, नागरमोथा, इंद्रजव  
आंवला, पलबल इन द्रव्योंका काथ ठंडाकरके प्यानेसे बालकके  
पित्तकफज्वरको हरता है ॥ ६६ ॥ वांसाके पत्तोंका पुटपाकद्वारा  
इस निकालके, मिसरी, शहतके संग चाटनेसे बालकका पित्तकफ-  
ज्वर, श्वास, कास, छर्दी, दाह, कामला, रक्तपित्त इन सबको  
शीघ्र हर्ता है ॥ ६७ ॥ अन्यः ॥ अमलतास, अतीस, नागर-  
मोथा कुटकी, इनका काथ शूलसहित कच्चाज्वरको, वमनको  
दाहको, अफाराको, वंधाको, कफको, वायुको नष्ट करता है ॥ ६८ ॥  
चिरायता, नागरमोथा, गिलोय सूंठ इनको वैयचातुर्भद्र कहवेहैं  
काथ करके पीनेसे चातश्लेष्मज्वरको नष्टकरता है ॥ ६९ ॥ मूँग

चावल करके सिद्धकिया यूप अथवा केवल मोठकरके किया यूप वातकफज्वरमें पथ्यहै वालकको ज्वरमें वैद्य देवे ॥७०॥ दशैमूल करके कियाकाथ पीपलका चूर्ण ऊपर ढालके वालक-  
को प्यानेसे मूर्छाको संनिपातज्वरको शमन करताहै ॥७१ ॥

छिन्नासटीपुष्करमूलतिक्ताः शृंगीसपाठामृतवष्टरीच ॥  
दुरालभाविथकिराततिक्ताः समस्तदोपज्वरहृदणो-  
यम् ॥ ७२ ॥ भूर्निवदारुदरामूलमहीपधाव्दतिळ्ठ-  
द्रबीजधनिकेभकणाकपायः ॥ तंद्राप्रलापकसनारुचि-  
दाहमोहश्वासादियुक्तमखिलंज्वरमाशुहंति ॥ ७३ ॥  
वासाव्यात्रीकणालेहःशीतज्वरविनाशनः ॥ तद्वक्षु-  
द्रामृताननंतातिक्तभूर्निवसाधितः ॥ ७४ ॥ गुडूचीविहि-  
तकाथःकणाचूर्णसमन्वितः । ऐकाहिकंज्वरहंतिकास-  
श्वासादिदूपितम् ॥ ७५ ॥ द्राक्षापटोलत्रिफलापित्रुमंद-  
वृपैः कृतः ॥ काथऐकाहिकंहंतिपरार्थमिवदुर्जनः ॥  
॥ ७६ ॥ आमंडय पूर्वशुचिना गृहीतं मयूरमूलं  
करकोष्ठवद्धम् ॥ प्रातस्तथासूर्यदिनेनिहन्यादेकाहि-  
कंशोणितसूत्रवद्धम् ॥ ७७ ॥ ऊर्णनाभ्याकृतं  
जालंरक्तसूत्रसमन्वितम् ॥ मिट्टैलमृतंकृत्वाक-

१ दशमूलक्षणगम्—श्रीकठः सर्वतोमद्राःपाट्टागणिकारिता ॥  
गोनाकः पचमिथेतैः पचमूल महन्मतम् ॥ १ ॥ शालपर्णी पृथिवर्णी वर्तार्णी  
उक्तारिका ॥ गोक्षुरः पचमिथेतैः कनिष्ठ पचमूलकम् ॥ २ ॥ उमान्या  
प्रमूलान्या दशमूलमुदाहृतम् ॥

जलंतेनकारयेत ॥ तेनांजिताक्षः क्षिप्रेणहन्यादेकाह-  
शोज्वरान् ॥ ७८ ॥ ज्वरं भूताभिषंगोत्थंरक्षामंत्रा-  
दिभिर्जयेत् ॥ विषम्बौषधयोगेनविषोत्थमपिबुद्धि-  
मान् ॥ ७९ ॥

भाषा—गिलोय, कच्चूर, पोहकरमूल, कुटकी, काकडासींगी,  
कश्मीरीपद्मा, गिलोय, धमासा, सौंठ, चिरायता, नींबुकी छाल  
इन औषधियोंका गण सब दोपाँका, सर्व ज्वरोंका नाशकरने-  
वाला है । इस योगमें दोबार गिलोय पढ़ी है इस वास्ते दूनी लेनी  
चाहिये ॥ ७२ ॥ अन्यः ॥ चिरायता, देवदारु, दशमूल,  
सूंठ, नागरमोथा, कुटकी, इंद्रजौ, धनियां, गजपीपल इनका  
काथ तंद्रा, प्रलाप, कास, अरुचि, दाह, मूत्तर्छी, श्वास इन करके  
युक्त ज्वरको शीत नाश करता है ॥ ७३ ॥ वांसा, कटहलीकी  
जड़, पीपल इनका अवलेह शीत वरको नाश करता है और कटे-  
हलीकी जड़, गिलोय, जवासा, कुटकी, चिरायता, इनोंकरके  
किया काथ भी उसी तरह शीतज्वरको नाश करता है ॥ ७४ ॥  
अन्यः ॥ गिलोयका काथ पीपलके चूर्णसहित पीनेसे कास-  
श्वासादिकों करके दूषित ऐकाहिक ज्वरको नष्ट करता है ॥ ७५ ॥  
अन्यः ॥ मुनक्का, गिलोय, हरडैकी छाल, बहेडा, आंवल,  
नीबुकी छाल, वांसाके पत्ते इन करके किया काथ ऐकाहिक  
ज्वरको ऐसे नाश करता है कि जैसेदुर्जन परद्रव्यको नष्ट करदे-  
ता है ॥ ७६ ॥ अन्योपायः ॥ शनिवारको मयर-  
शिखाजडीको निर्मनित कर आवे रविवारको प्रातःकाल

उपाड़के लेआवे फिर लाल ढोरीसे हाथ कमरमें वांधनेसे ऐकाहिक ज्वर नष्ट होजाताहै ॥ ७७ ॥ अन्यः ॥ मकडीका जालाको लेके लाल सूत ऊरलपेटके बत्ती बनाले फिर तिलोंके तेलमें भिगोके कज्जल लोहेकी पत्तीपर उतारले वह कज्जल नेत्रमें घालनेसे ऐकाहिकादिक सब ज्वरको नष्ट करता है ॥ ७८ ॥ भूतादिकोंके अभिनिवेशसे ज्वरहो उसको रक्षा मंत्रादिकोंकरके जीते और जो विषेली वस्तु स्थानेसे ज्वरहो उसको विषके नाश करनेवाली औषधिसे जीते ॥ ७९ ॥

निंवपत्रामृतानन्तापटोलेङ्गयवैःकृतः ॥ काथः सतत-  
कंहन्यात्सुप्रभुर्व्यसनंयथा ॥ ८० ॥ गुडूचीचन्दनो-  
शीरधान्यनागरतोयदेः ॥ काथस्तृतीयकंहन्या-  
च्छर्करामधुमिथ्रितः ॥ ८१ ॥ पलंकपावचाकुष्ठ-  
गजचर्माविचर्मच ॥ निंवस्यपत्रंमाक्षीकंसर्पिर्युक्तंतु  
धूपनम् ॥ ज्वरवेगंनिहंस्याशुवालानांतुविशेषतः ॥  
॥ ८२ ॥ रसोनहिंगुलवणेःशृगीमरिचमाक्षिकेः ॥  
धूपः सर्वग्रहमोयं कुमाराणां ज्वरापहः ॥ ८३ ॥  
निर्मोकामरदारुहिंगुमरिचारिष्टच्छंदंमाक्षिकंनिर्मा-  
ल्यनंरकेशसर्पपवचागंधंरसोनःशिला ॥ यष्टी  
गुग्गुलकुष्ठपिच्छलवणामार्जारविष्टाघृतंसजोरुद्रज-  
टार्कपत्रजलदंधूपोवरोयंमहान् ॥ ८४ ॥ निंव-  
कुष्ठपवचायपिसिद्धार्थकपलंकपेः ॥ सर्पिलंवणस-  
र्पत्वग्यवैधूपोज्वरापहः ॥ ८५ ॥ निर्गुण्डच्चाःसहदे-

व्याश्कटौ वद्धं जटाद्यम् ॥ प्रातरादित्यवारेच सर्व-  
 ज्वरविनाशकृत् ॥ ८६ ॥ कन्याकर्तिकसूत्रेण वद्धा-  
 पामा मूलिका ॥ ऐकाहिकं ज्वरं हंतिशिखायामपि :  
 वेगतः ॥ ८७ ॥ कर्णेवद्धारवौशेततुरंगरिपुमूलिका ॥  
 सर्वज्वरहराश्वेतमंदारस्यचमूलिका ॥ ८८ ॥ काक-  
 माचीशिफाकर्णेवद्धारात्रिज्वरापहा ॥ पाणिस्थंवृ-  
 कवंदाकमूलं वित्तुतेशिवम् ॥ ८९ ॥ उँनमोवान-  
 रस्यमुखं वौरमादित्यसमतेजसम् ॥ तस्यस्मरणमा-  
 त्रेण ज्वरं नश्यति तत्क्षणम् ॥ ९० ॥

इति कल्याणवैयक्ते वालतंत्रे ज्वरहरणोपायकथनं  
 नाम द्वादशः पठलः ॥ १२ ॥

भाषा—अन्यः ॥ नीमकी छाल, पतरज, गिलोय, जवासा, पलबल, इंद्रजौ, इन द्रव्योंकरके किया काथ सरतज्वरको नष्ट करता है जैसे ईश्वर सर्व दुःखोंको नाश करते हैं एवम् ॥ ८० ॥ गिलोय, लालचंदन, खस, धनियां, सूंठ, नागरमोथा, इनकरके किया काथमें मिसरो, सहत ढालके वालकको प्यानेसे तारीयक ज्वरको नष्ट करता है ॥ ८१ ॥ गूगल, वच, कूट, हाथीका चमडा, भेड़का चमडा, नीमके पत्ते, सहत, धी, इन सब द्रव्योंको कूटके धूप देनेते ज्वरके वेगको शीघ्र नाश करे हैं । बालकोंका विशेषतासे ज्वर नाश करे है ॥ ८२ ॥ अन्यो धूपः ॥ लहसन, हींग, नमक, काकड़ासींगी, मिरच, सहत, इन करके किया धूप संपूर्ण ग्रहोंका नाश करनेवाला है और

बालकोंका ज्वर नाश करनेवाला है ॥ ८३ ॥ अन्योद्युहूपः ॥ सांपकी कांचली, देवदार, हींग, मिरच, नींवके पत्ते, सहत, आ-कके पुष्प, मनुष्यके मस्तकके बाल, सिरसम, बच, गंधक, लहसन, मनशिल, मुलहटी, गूगल, कूट, मोरपंख, नमक, विहीकी विषा, घृत, राल, बालछड, आकके पत्ते, नागरमोथा इन द्रव्योंकी धूप बहुत श्रेष्ठ है बालकके सर्व दोषोंको नष्टकरती है ॥ ८४ ॥ अन्योद्युपः ॥ नींवके पत्ते, कूट, बच, मुलहटी, राई, गूगल, घृत, नमक, सांपकी कांचली, जौ अब इनकी धूप सर्व ज्वर नष्ट करनेवाली है ॥ ८५ ॥ रविवारके दिन प्रातःकाल निर्गुड़ीकी जड़को और सहदेईकी जड़को लाके कमरमें बांधनेसे सब ज्वरोंका नाश करती है ॥ ८६ ॥ कन्यके पास सूत कताके उसकी डोरी करके ऊंगाकी जड़ चोटीमें बांधनेसे ऐकाहिक ज्वरको नाश करती है ॥ ८७ ॥ रविवारके दिन सपेद कनेरकी जड़ या सपेद आककी जड़ लाके कानमें बांधनेसे सब तरहके ज्वरको हरती है ॥ ८८ ॥ मरोईकी जड़ कर्णमें बांधनेसे रात्रिमें होनेवाले ज्वरको नष्ट करती है और मूपाकञ्चीकी जड़को या बांदाकी जड़को हस्तके बांधनेसे ज्वरको नाश करती है, बालकको आनंद पैदा करती है ॥ ८९ ॥ कोरी मिट्टीकी ढकनीलेके उसके ऊपर यह मंत्र लिखके शीतज्वर आताहो तो अग्निकी अंगीठीमें रसके बीमारकी खद्दातले रसदे ॥ और उप्पन ज्वरको तो जल पात्रमें रसके रोगीकी खद्दातले रसदे ज्वर चला जावे बालक

अच्छा हो जावे मन्त्रका श्लोक मूलमें लिखाहीहै ॥ १० ॥

इति श्रीपंडितनन्दकुमारैद्यकृतवालतंत्रभाषाटीकायां द्वादशः पटलः १२

अथ बालानामतीसारोपायोलिख्यते ॥ लोधंसमंग-  
जलधातकीभिः समानिताभिर्विहितः कपायः ॥ वा-  
लातिसारंसहसानिहन्यादेकाथमुस्तामधुनावलीढा ॥  
॥ १ ॥ विल्वंचपुष्पाणिचधातकीनंजलंसलोध्रंग-  
जपिप्पलीच ॥ काथावलेहोमधुनाविमिथ्रौबालेतु  
योज्यावतिसारितेषु ॥ २ ॥ मुस्ताविषाशक्रयवांदु-  
भिश्चशिशोरतीसारहरःकपायः ॥ आम्रांत्रिवल्कस्व-  
रसञ्चतद्दुद्धिद्वयंवामधुनावलीढम् ॥ ३ ॥ नाग-  
रातिविषामुस्ताकुटजैःकथितंजलम् ॥ प्रातःपीतंकु-  
माराणांशीघ्रंसर्वातिसारनुव ॥ ४ ॥

भाषा—अब बालकोंके अतिसारकी चिकित्सा लिखते हैं ॥  
लोध, मैजीठ, नेत्रवाला, धायके फूल इनको समानलेके काथव-  
नाके बालकको प्यानेसे बालकका अतिसार शीघ्र नष्ट होजाता  
है अथवा खाली नागरमोथाके रज शहतसे चाटनेसे बालकका  
अतिसार जाता रहता है ॥ १ ॥ बेलगिरी, धायके फूल, नेत्र-  
वाला, लोद, गजपीपल इन द्रव्योंका काथ या अबलेह वनाके  
उसमें शहद ढालके बालकोंके अतिसारमें देने चाहिये ॥ २ ॥  
अन्यत्र । नागरमोथा, अतीस, इन्द्रजौ, नेत्रवाला इन द्रव्योंका

वाथ वालकके अतिसारको हरता है, अथवा आमकी जड़का स्वरस वालकके अतिसारको हरता है तैसे कद्दि वृद्धि दोनों शहदसे चाटनेसे अतिसारको नष्ट करतीहै ॥ ३ ॥ अन्यच ॥ सूंठ, अतीस, नागरमोथा, कूडाकी छाल इन द्रव्योंकरके कथित जल वालकोंको प्यानेसे सब तरहके अतिसारको शीघ्र नष्ट कर देता है ॥ ४ ॥

पिष्ठापटोलमूलंचशृङ्गवेरंवचांमपि ॥ विडंगान्यज-  
मोदांचपिष्पलींतंडुलान्यपि ॥ ५ ॥ एतान्यालोडयं  
सर्वाणि सुखंतपेनवारिणा ॥ आमप्रवृत्तेऽतीसारेकुमारं  
पाययेद्दिपक् ॥ ६ ॥ नागरातिविपासुस्ताकाथः  
स्यादामपाचनः ॥ ७ ॥ मुस्तंमोचरसः पाठाविल्वंलोध्रंसनाग-  
रम् ॥ तकेणपीतंदुवर्णंशिशोर्हन्त्युदरामयम् ॥ ८ ॥  
॥ इत्यतीसारः ॥ हरिद्राद्ययष्टचाहासिंहीशक-  
यवेःकृतः ॥ शिशोर्ज्वरातिसारम्बः कपायः स्तन्यदो-  
यजित् ॥ ९ ॥ घनकृपणरुणागुणीचृणक्षीद्रेण यो-  
जितम् ॥ शिशोर्ज्वरातिसारम्बंकासश्वासवमीर्ज्ये-  
त् ॥ १० ॥ धातकीविल्वघन्याकलोध्रेन्द्रयववाल-  
केः ॥ लेहःक्षीद्रेणवालानांज्वरातीसारवांतिहत् ॥  
॥ ११ ॥ इतिज्वरातिसारः ॥ ववानीजीरकंब्यो-  
पकुटजंविश्वभेपजम् ॥ एतन्मधुयुतंलीढंवालाना-  
यहणींजयेत् ॥ १२ ॥

भाषा—पलवलकी जड, सूंठ, बच, वायविडंग, अजमोद, पीपल, छोटी सांठीचावल ॥ ५ ॥ यह सब द्रव्य पीसके जलमें छानके जरा गरम करके बालकको आमातीसारमें पान करते ॥ ६ ॥ अन्यद्व ॥ सूंठ, अतीस, नागरमोथा इनका काथ आमका पकानेवालाहै, अथवा अतीस गुड दोनों समान सहतसे चाटे हुये आमको हरते हैं ॥ ७ ॥ नागरमोथा, मोचरस, पाठा, वेलगिरी, लोध, सूंठ इनका चूर्ण तकसे पान किया बालकके दुर्घार अतीसारको नाश करता है ॥ ८ ॥ इत्यवीसारचिकित्सा ॥ हलदी, दारुहलदी, मुलहटी, कंटकारीकी जड, इंद्रजौ इन द्रव्योंकरके सिद्ध किया काथ बालकके ज्वरातिसारको नष्ट करता है. और दुग्धदोपकोभी नष्ट करता है ॥ ९ ॥ नागरमोथा, पीपल, मेंजीठ, सूंढ इनका चूर्ण सहतसे चाटनेसे बालकके ज्वरातिसारको नष्ट करता है. और खांसी श्वासकोजीतता है ॥ १० ॥ धायके फूल, विल्व, धनियां, लोध, इंद्रजौ, नेत्रवाला इन छह द्रव्योंका चूर्ण करके सहतसे चाटे तो बालकोंके ज्वरातिसारको और वमनको हरता है ॥ ११ ॥ इति ज्वरातिसार चिकित्सा ॥ अजवायन, हुपेदजीरा, सूंठ, मिरच, पीपलछोटी, कूदाकी छाल, सूंठ इन सब द्रव्योंका चूर्ण सहतसे चाटनेसे बालकोंकी श्वरणीको जीतता है ॥ १२ ॥

पिप्पलीविजयाशुंठीचूर्णमधुयुतंभिपक् ॥ दत्तानि-  
र्जित्यश्रहणींपूजानियतमामुयात् ॥ १३ ॥ कृ-  
प्णामहोपधंविल्वंकुटजंसयावान्वितम् ॥ मधुसर्पि-  
युतंलीढ़वातलांश्रहणींजयेत् ॥ १४ ॥ नागरमुत्त-

कंविल्वंचित्रकंग्रथिकंशिवा ॥ चूर्णमेतन्मधुयुतं  
 कफजांश्रहणींजयेत् ॥ १५ ॥ सगुडंनागरंविल्वंयः  
 खादतिहिताशनः ॥ त्रिदोपश्रहणीरोगान्मुच्यते  
 नात्रसंशयः ॥ १६ ॥ मुस्तकातिविपाविल्वंचूर्णि-  
 तंकौटजंतथा ॥ क्षौद्रेणलीढाश्रहणींसर्वदोपोद्भवां  
 जयेत् ॥ १७ ॥ इतिसंश्रहणी ॥ यवानीनागरंपा-  
 ठादाडिमंकुटजंतथा ॥ चूर्णोंयंगुडतकाभ्यांपीतोऽर्थः  
 शमनः परः ॥ १८ ॥ अजाजीपीष्करंपाठाश्चूर्णं  
 दहनः शिवा ॥ गुडेनगुटिकाकार्यासर्वाशोनाशनीपग  
 ॥ १९ ॥ नवनीतिलाभ्यासात्केसरनवनीतशक्ति-  
 भ्यासात् ॥ दधिस्त्वरमथिताभ्यासाद्गुदजाः शाम्यंति  
 रक्तवहाः ॥ २० ॥ कुटजंकौटजंवीजंकेसरंयज्ञकेसर-  
 म् ॥ एतन्मधुयुतंलीढंरक्ताशोनाशनंपरम् ॥ २१ ॥  
 एवंवाकौटजंवीजंरक्ताशोमधुनाहरेत् ॥ तद्वन्मुस्ता  
 मोचरसकपित्यच्छद्गोरजः ॥ २२ ॥ इत्यर्थः ॥

भापा—पीपल, भांग, सूंठ इनका चूर्ण सहत्से वालकको  
 चटानेसे वैद्य संश्रहणीको जीवके पूजाको यशको प्राप्त होता है ॥  
 ॥ १३ ॥ अन्यत्र ॥ पीपल, सूंठ, बेलगिरी, कूड़ाकी छाल,  
 अजवायन इनका चूर्ण करके वृत्तमें किंचित् मरकोके सहत्से  
 चाटनेसे वापुकी संश्रहणी नष्ट करता है ॥ १४ ॥ अन्यत्र ॥ सूंठ,  
 नागरमोथा, बेलगिरी, चीता, पीपलामूल, हरडै इनका चूर्ण  
 सहत्से चाटनेसे कफकी संश्रहणीको जीतता है ॥ १५ ॥ द्विती-

वस्तुका खानेवाला, गुड, सूठ, विल्व इनके अंवलेहको खाता है वह त्रिदोपकी संग्रहणीसे मुक्त होजाता है इसमें संदेह नहीं ॥ १६ ॥ अन्यच्च ॥ नागरमोथा, अतीस, विल्व, इंद्रजौ इनका चूर्ण सहतसे चाटके त्रिदोपकी ग्रहणीको जीतलेवे ॥ १७ ॥ इति संग्रहणीचिकित्सा ॥ अजवायन, सूठ, पाठा, अनारवाना, कुडाकी छाल इनका चूर्ण गुड तक्रसे पान किया बवासीरको शमन कर्त्ता है ॥ १८ ॥ अन्यच्च ॥ जीरासुपेद, पोहकरमूल, कश्मीरीपट्टा, सूठ, मिरच, पीपल, चीता, हरडै इनका चूर्ण करके गुडसे गोली बनाके खानेसे संपूर्ण तरहकी बवासीरको नाश करती है ॥ १९ ॥ माखन, तिल इनके अध्याससे अथवा नागकेसर, माखन, मिसरी इनके अध्याससे अथवा दहीके ऊपरकी मलाई उसको मथके तक बनाके उसको पीनेके अध्याससे खूनी बवासीरके मस्ते शमन होजाते हैं ॥ २० ॥ अन्यच्च ॥ कुडाकी छाल, इंद्रजौ, नागकेसर, कमलकेसर यह चार द्रव्य सहतसे चाटनेसे खूनी बवासीरको नाश करते हैं ॥ २१ ॥ इसीतरह इंद्रजौ पीसके सहतसे चाटनेसे खूनी बवासीरको हर्ता है और नागरमोथा, मोचरस, कैतके पञ्चे इनका चूर्ण करके सहतसे चाटनेसे यह चूणभी उसीदरह दृतीवदरसीरको नष्टकरवाहै ॥ २२ ॥

धान्यनागरजःकाथःशूलमाजीर्णनाशनः ॥ चूर्णत-  
क्रयुतं पीतं तद्व्योपाग्निजीरकेः ॥ २३ ॥ पि-  
प्लीरुचकं पद्याचूर्णमस्तु जलं पिवेत् ॥ सर्वजी-  
र्णहरं शूलगुलमानाहाग्निमांवजित् ॥ २४ ॥ त्व-

कपत्ररास्नागुरुशिग्रकुष्ठैरम्लप्रपिष्टैः सवचाशताहैः ॥  
 उदर्तनंखल्लिविपूचिकाग्रंतैलंविपकंचतदर्थकारि ॥  
 ॥ २६ ॥ इत्यजीर्णविपूचिका ॥ अन्नपानैरुरु-  
 स्निग्धैर्महत्सांद्रहिमस्थिरैः ॥ पीतादिरेचनैर्धीमा-  
 न्भस्मकंप्रशमनयेत् ॥ २६ ॥ औदुंवरंत्वचंपि  
 द्वानारीक्षीरयुतांपिवेत् ॥ ताभ्यांचपायसंसिद्धंभु-  
 कंजयतिभस्मकम् ॥ २७ ॥ मयूरतंडुलैः सिद्धं  
 पायसंभस्मकंजयेत् ॥ विदारीस्वरसक्षीरसिद्धंवा-  
 माहिपंघृतम् ॥ २८ ॥ इतिभस्मकः ॥ कल्कः  
 प्रियंगुकोलास्थिमधुमुस्तांजनैःकृतः ॥ क्षोद्रलीढः  
 कुमारस्यच्छर्दिंतृष्णातिसारजित् ॥ २९ ॥ यवानीकु-  
 टजारिष्टसप्तपर्णपटोलकैः ॥ लेहश्छर्दिंमतीसारंज-  
 रंवालस्यनाशयेत् ॥ ३० ॥ पीतश्चंदनचूर्णेनम-  
 धुनामलकीरसः ॥ छर्दिसदाहांसतृष्णांशीत्रमेववि-  
 नाशयेत् ॥ ३१ ॥

नभापा—धनियां, सूठ इनका काथ शूलको और आमाजी-  
 नाश करता है ऐसे ही संठ, मिरच, पीपल, चीता, सफेदजीरा  
 का चूर्ण वक्से पान किया शूलको, आमाजीर्णको  
 रता है ॥ २३ ॥ अन्यच । पीपल, कालानयक, हरडै इनका  
 कर्ण स्थाके ऊपरसे दहीका जल पीनेसे सब तरहके अजीर्णको  
 हैरे और शूल, गुलम, आनाह, अग्निकी मंदवा इनको जीतै ॥  
 ॥ २४ ॥ अन्यच । दालचीनी, पतरज, रासना, अगर, सर्हिङ-

नाका बकल, कूट, वच सौफ़ इनको कांजीमें पीसके उद्वर्तन करनेसे  
अथवा इन द्रव्योंकरके तैल पकाके मालिश करनेसे वांय-  
टोंका और हैजेका नाश होजाताहै ॥ २५ ॥ इत्यजोर्ण-  
चिकित्सा ॥ गुरु, स्त्रिघ्न, अतिसांद्र, शीतल, स्थिर ऐसे पदार्थोंके  
खानेप्यानेसे दस्त करानेसे बुद्धिमान् वैद्य भस्मक रोगको  
शांतकरे ॥ २६ ॥ गूलरका फल, दालचीनी इनको पीसके  
स्त्रीके दूधके संग पीनेसे अथवा इन दोनों करके सिद्धकरी हुई  
खीरको खानेसे भस्मकको जीत लेताहै ॥ २७ ॥ अन्यच्च ।  
ऊंगा वृक्षके चावलोंकरके सिद्धकरी पायसको खानेसे भस्मक  
नष्ट हो जताहै । अथवा । विद्वारीकंदका स्वरस करके और  
दूध करके सिद्ध किया वृत्तके खानेसे भस्मक नष्ट हो जाताहै ॥  
॥ २८ ॥ इति भस्मचिकित्सा ॥ मेहदी, वेरकी गुठली,  
मुलहठी, नागरमोथा, सुरमा शुद्ध इनका चूर्ण सहतसे चाटनेसे  
बालककी छर्दी, प्यास, अतिसार जाते रहते हैं ॥ २९ ॥ अज-  
वायन, कुडाकी छाल, नीबकी छाल, सातोनकी छाल, पलबल  
इनकरके किया अवलेह बालककी छर्दीको, अतिसारको, च्वर-  
को नाश करता है ॥ ३० ॥ अन्यच्च ॥ सपेद चंदनका बुरादा, सहत,  
आंवलाका रस यह सामिल करके चाटनेसे बालककी छर्दीको,  
दाहको, प्यासको बहुत जलदी नाश कर देताहै ॥ ३१ ॥

हरीतक्याः कृतं चूर्णं मधुनासहलेहयेत् ॥ अधस्ता-  
द्विहितेदोषेशीघ्रं छर्दिः प्रशाम्यति ॥ ३२ ॥ पटो-  
लनिंबत्रिफलागुड्डचीभिः वृतं जलम् ॥ पीतं क्षीद-

युतंछर्दिमम्लपित्तभवां हरेत् ॥ ३३ ॥ अथत्थ-  
 वलकंसंशुष्कंदग्धंनिर्वापितंजले ॥ तज्जलंपानमा-  
 त्रेणछर्दिजयतिदुर्जयाम् ॥ ३४ ॥ इति छर्दिः ॥  
 सलाजांजनमुस्तानांचूर्णंपीतंसमाक्षिकम् ॥ तृष्णां  
 छर्दिमतीसारंशिशूनामुद्धतांहरेत् ॥ ३५ ॥ पिप्प-  
 लीमधुकंजंवूरसालतरुपष्ठवाः ॥ चूर्णोयं मधुना  
 चैतितृष्णाप्रशमनः शिशोः ॥ ३६ ॥ दाडिमस्य  
 चर्वीजानिजीरकंनागकेशरम् ॥ चूर्णसर्शकराक्षी-  
 द्रलेहान्तृष्णाहरं शिशोः ॥ ३७ ॥ हिंगुसेष-  
 वयालाशंचूर्णंमाक्षिकसंयुतम् ॥ लीढंनिर्वापयत्या-  
 शुशिशूनामुद्धतांतृष्णाम् ॥ ३८ ॥ इति तृष्णा ॥  
 सुवर्णगौरिकंपिष्टामधुनासहलेहयेत् ॥ शीत्रंसुखम-  
 वामोत्तेनहिकार्दितः शिशुः ॥ ३९ ॥ शुठीधा-  
 त्रीकणाचूर्णलेहयेनमधुनाशिशुः ॥ हिकानांशांत-  
 येतद्वदेकंवामाक्षिकंसकृत् ॥ ४० ॥ पिप्पलरे-  
 णुकाशाथःसहिंगुः समधुस्तथा ॥ हिकांवहुविवांह-  
 न्यादिदंधन्वन्तरेवचः ॥ ४१ ॥ इति हिका ॥

**भाषा—**छोटीहरडैको पीतके चूर्ण करले फिर सहतसे चाट-  
 नेतै दोन नीचेको चला जावाहै इस हेतुसे छर्दि शीघ्र शमन  
 हो जावे ॥ ३२ ॥ अन्यत्र । पछवल नीचकी छाल, प्रिफला,  
 गिलोय, इन करके किया काथ सहत डालके पीनेसे अम्लपित्तने  
 पैदा होनेवाली छर्दिको शीघ्र हरता है ॥ ३३ ॥ अन्यत्र ।

पीपलवृक्षका बकल सूखा लाके फिर जलाके पानीमें बुझावे  
 वह पानी पीनेसे दुर्जय छर्दिको जीतताहै ॥ ३४ ॥  
 इति छर्दि चिकित्सा ॥ धानकी खील, सुरमाशुद्ध, नागरमोथा  
 इनका चूर्ण करके पानीमें भिगोदेवे फिर पानीको छानके  
 सहत डालके बालकको प्यानेसे अत्यंत प्यासको, छर्दिको,  
 अदिसारको हरैहै ॥ ३५ ॥ अन्यच । पीपल, मुलहटी,  
 जामुनके पत्ते, आमके पत्ते इनका चूर्ण सहतसे चाटनेसे बाढ़-  
 की प्यासको शमन करताहै ॥ ३६ ॥ अन्यच । अनारदाना,  
 सफेदजीरा, नागकेसर इनका चूर्ण करके बराबरकी मिसरी मि-  
 लाके सहतसे चाटनेसे बालककी प्यासको हरता है ॥ ३७ ॥  
 अन्यच । हींग धोका भुना, सेंधानमक, पलासपापडा इनका  
 चूर्ण सहत मिलाके चाटनेसे बालकोंकी बढ़ीहुई तृपाको निवारण  
 करदेताहै ॥ ३८ ॥ इति तृपाचिकित्सा ॥ सोनागेहुको पीसके  
 सहतसे चाटनेसे हिचकियोंसे पीडित हुए बालकको शीघ्र  
 हो जाताहै ॥ ३९ ॥ सूँठ, आंबला, पीपल इनका चूर्ण हुच-  
 कियोंकी शांतिके बास्ते बालक सहतसे चाटे अथवा साली  
 भन्दखोकी विष्ठाका चूर्ण, सहतसे चाटे ॥ ४० ॥ पीपल रेणुकबीज,  
 इनके काथमें हींग भुना और सहतडालके पीनेसे सब तरहकी  
 हिचकी जाती रहतीहै यह धन्वंतरिका वचनहै ॥ ४१ ॥

इति हिङ्काचिकित्सा ।

पिप्पलीपिप्पलीमूलंनागरंमधुनालिहन् ॥ कासं  
 पंचविधश्वासंशिगुराशुविनाशयेत् ॥ ४२ ॥ विहि-

तोमधुनालेहोव्याधीकुसुमकेसरैः ॥ लीढोविनाशय-  
 त्याशुकासंपंचविधंशिशोः ॥ ४३ ॥ क्षीद्रयुक्तातु-  
 गाक्षीरीकासश्वासावपोहति ॥ वालस्यनियतंकृप्णा  
 शृङ्गीवामूलसंयुता ॥ ४४ ॥ एका शृंगीनिहंत्याशु  
 मूलकस्यफलान्विता ॥ घृतेनमधुनालीढाकासंवा-  
 लस्यदुस्तरम् ॥ ४५ ॥ इतिकासश्वासो ॥ विडं-  
 गंमधुनालीढापोप्करंवासशिशुकम् ॥ आखुकर्णीत-  
 येकांवाक्मिभ्योमुच्यतेरिशुः ॥ ४६ ॥ मुस्तंवि-  
 डंगंमगधासुकर्णीकंपिछकोदाढिमवल्कलंच ॥ एत-  
 त्कुमीन्सत्वरमुयवेगान्क्षीद्रेणलीढंशमयत्यवश्यम् ॥  
 ॥ ४७ ॥ यवक्षारंकुमिरिपुमगधामधुनासह ॥ भक्ष-  
 येत्कुमिरोगम्रंपंकिञ्चूलहरंपरम् ॥ ४८ ॥ इतिकिमि-  
 रोगः ॥ अयोरजस्वैफलचूर्णयुक्तंगोमूत्रसिद्धंमधुना-  
 वलीढम् ॥ पांडुंकासंसकुरानुमांद्यंशूलंसरोकंग-  
 मयेदवश्यम् ॥ ४९ ॥ इनिषण्डुगोगः ॥ पव्याश्वंवा-  
 सवरीविदारीसमंत्रिकंटञ्चवलात्रयेण ॥ पुनर्नवेतत्व-  
 यरोगमुयंक्षीद्रेणलीढंकपवत्यवश्यम् ॥ ५० ॥  
 शिलाजतुव्योपविडंगलोहताप्याभवाभिविद्वितोव-  
 लेहः ॥ सपिंमधुभ्यांविधिनाप्रयुक्तः क्षयंविधत्तेसहमा-  
 क्षयस्य ॥ ५१ ॥ नवर्नीतंनिताळीढ़लीढ़लीरुजः  
 पराम् ॥ करोनिपुष्टिकावस्यवत्तवयमपोहति ॥  
 ॥ ५२ ॥ वासामहोपवीच्याप्रीयुदृचीभिः वृत्तंजलम् ॥

प्रपीतं शमयत्युग्रं थासकासक्षयज्वरान् ॥ ५३ ॥

इति क्षयरोगः ।

भाषा—पीपल छोटी, पीपलामूल, सूठ यह द्रव्य शहदसे बालक चाटके पांच रकमके कासको, थासको नष्ट करदेता है ॥ ४२ ॥ अथवा कंटकारीके फूलोंकी केसर करके और शहदकरके सिद्ध किया अबलेह बालककी पांच प्रकारकी खांसीको नाश करदेता है ॥ ४३ ॥ वंशलोचन शहदसे चाटनेसे बालकके कास, थास दूर हो जाते हैं अथवा पीपल, काकडासींगी, मूलीके बीज यह द्रव्य शहदसहित चाटनेसे बालकके कास थासको दूर करदेते हैं ॥ ४४ ॥ अन्यत्र । केवल काकडासींगी मूलीके बीजों करके युक्त घृतसे व शहदसे चाटी हुई बालकके दुस्तर कासको नाश करती है ॥ ४५ ॥ इति कास थास चिकित्सा ॥ वायविडंग अथवा पोहकरमूल सहिजनेका बकल अथवा एकली मूसाकन्नी यह तीन योग न्यारे न्यारे शहदसे चाटनेसे बालक क्रिमियोंसे मुक्त होता है ॥ ४६ ॥ अन्यत्र । नागरमोथा, वायविडंग, पीपल, मूसाकन्नी, कवीला, अनारका बकल इनका चूर्ण शहदसे चाटनेसे बालकके बढ़े हुए क्रिमियोंको अवश्य शमन करदेता है ॥ ४७ ॥ जवाम्बार, वायविडंग, पीपल यह द्रव्य शहदसे चाटनेसे क्रिमिरोगको नष्ट करे पंक्ति शूलको शमन करे ॥ ४८ ॥ इति क्रिमिरोग चिकित्सा ॥ गोमूत्रसे सिद्ध किया लोहचूर्ण जिसको वैय मंदूर कहते हैं, त्रिफलाकी बराबर शहदसे चाटनेसे बालकके पांडुको, कासको, थासको, मंदाश्रिको,

तोमधुनालेहोव्याग्रीकुसुमकेसरैः ॥ लीढोविनाशय-  
 त्वाशुकासंपंचविधंशिशोः ॥ ४३ ॥ क्षीद्रयुक्तातु-  
 गाक्षीरीकासश्वासावपोहति ॥ वालस्यनियतंकृष्णा  
 शृङ्गीवामूलसंयुता ॥ ४४ ॥ एका शृंगीनिहंत्याशु  
 मूलकस्यफलान्विता ॥ घृतेनमधुनालीढाकासंवा-  
 लस्यदुस्तरम् ॥ ४५ ॥ इतिकासश्वासो ॥ विडं-  
 गंमधुनालीझापोप्करंवासशिशुकम् ॥ आशुकण्ठांत-  
 येकांवाक्त्रिमिभ्योमुच्यतेशिशुः ॥ ४६ ॥ मुतंवि-  
 डंगंमगधाशुकण्ठंपिछकोदाढिमवल्कलंच ॥ एत-  
 त्कृमीन्सत्वरमुत्रवेगान्क्षोद्रेणलीढंशमयत्यवश्यम् ॥  
 ॥ ४७ ॥ यवज्ञारंकुमिरिपुमगधामधुनासह ॥ भक्त-  
 येत्कृमिरोगप्रंपंकिञ्चुलहरंपरम् ॥ ४८ ॥ इतिकिमि-  
 रोगः ॥ अयोरजस्त्रेफलचूर्णयुक्तंगोभूत्रसिद्धंमधुना-  
 वलीढम् ॥ पांडुंकासंसकुरानुमांद्यञ्चलंसुशोफंश-  
 मयेदवश्यम् ॥ ४९ ॥ इनिषण्टुरोगः ॥ पश्याश्वांया  
 सवरीविदारीसमंत्रिकंटश्वलान्वयेण ॥ पुनर्नवेतत्त्व-  
 चरोगमुत्रंक्षोद्रेणलीढंक्षपवत्यवश्यम् ॥ ५० ॥  
 शिलाजतुव्योपविडंगलोहताप्याभयाभिविहितोव-  
 लेहः ॥ सपिंर्मधुभ्यांविधिनाप्रयुक्तः अवंविशत्तंसुदसा  
 क्षयस्य ॥ ५१ ॥ नवनीतंसिताज्ञोद्रंलीढंक्षीरमुजः  
 पराम् ॥ करोतिपुष्टिकायस्यन्तक्षयमपोढति ॥  
 ॥ ५२ ॥ वासामहोपदीच्याग्रीगुद्वचीभिः शृतंजल्म् ॥

प्रपीतं शमयत्युग्रं शासकासक्षयज्वरान् ॥ ४३ ॥

इति क्षयरोगः ।

भाषा—पीपल छोटी, पीपलामूल, सूंठ यह द्रव्यः शहदसे बालक चाटके पांच रकमके कासको, श्वासको नष्ट करदेता है ॥ ४२ ॥ अथवा कंटकारीके फूलोंकी केसर करके और शहदकरके सिद्ध किया अवलेह बालककी पांच प्रकारकी खांसीको नाश करदेता है ॥ ४३ ॥ वंशलोचन शहदसे चाटनेसे बालकके कास, श्वास दूर हो जाते हैं अथवा पीपल, काकडासाँगी, मूलीके बीज यह द्रव्य शहदसहित चाटनेसे बालकके कास श्वासको दूर करदेते हैं ॥ ४४ ॥ अन्यत्र । केवल काकडासाँगी मूलीके बीजों करके युक्त घृतसे व शहदसे चाटी हुई बालकके दुस्तर कासको नाश करती है ॥ ४५ ॥ इति कासश्वासचिकित्सा ॥ वायविडंग अथवा पोहकरमूल सहिंजनेका बक्कल अथवा 'एकली मूसाकन्नी यह तीन योग न्यारे न्यारे शहदसे चाटनेसे बालक किमियाँसे मुक्त होता है ॥ ४६ ॥ अन्यत्र । नागरमोथा, वायविडंग, पीपल, मूसाकण्णी, कबीला, अनारका बक्कल इनका चूर्ण शहदसे चाटनेसे बालकके बढ़े हुए किमियाँको अवश्य शमन करदेता है ॥ ४७ ॥ जवाखार, वायविडंग, पीपल यह द्रव्य शहदसे चाटनेसे किमिरोगको नष्ट करे पंक्तिशुल्को शमन करे ॥ ४८ ॥ इति किमिरोगचिकित्सा ॥ गोमूत्रसे सिद्ध किया लोहचूर्ण जिसको वैय मंदूर रुहते हैं, त्रिफलाकी बराबर शहदसे चाटनेसे बालकके पांडुको, कासको, श्वासको, मंदाश्चिको,

तोमधुनालेहोव्याग्रीकुसुमकेसरैः ॥ लीढोविनाशय-  
 त्याशुकासंपंचविधंशिशोः ॥ ४३ ॥ क्षीद्रयुक्तातु-  
 गाक्षीरीकासश्वासावपोहति ॥ वालस्यनियतंकृष्णा  
 शृङ्गीवामूलसंयुता ॥ ४४ ॥ एका शृंगीनिहंत्याशु  
 मूलकस्यफलान्विता ॥ घृतेनमधुनालीढाकासंवा-  
 लस्यदुस्तरम् ॥ ४५ ॥ इतिकासश्वासो ॥ विडं-  
 गंमधुनालीझापौप्करंवासशियुक्तम् ॥ आसुकर्णीत-  
 थेकांवाक्त्रिमिभ्योमुच्यतेशिशुः ॥ ४६ ॥ मुस्तंवि-  
 डंगंमगधासुकर्णीकंपिष्ठकोदाढिमवल्कलंच ॥ एत-  
 त्कृमीन्सत्वरमुयवेगान्क्षोद्रेणलीढंशमयत्यवश्यम् ॥  
 ॥ ४७ ॥ यवक्षारंकुमिरिपुमगधामधुनासह ॥ भक्ष-  
 येत्कुमिरोगम्बंपंकिशूलहरंपरम् ॥ ४८ ॥ इतिक्रिमि-  
 रोगः ॥ अयोरजस्तेफलचूर्णयुक्तंगोमूत्रसिद्धंमधुना-  
 वलीढम् ॥ पांडुंकासंसकुरानुमांवंशूलंसरोफंश-  
 मयेदवश्यम् ॥ ४९ ॥ इतिपण्डुरोगः ॥ पश्याश्वगंया  
 सवरीविदारीसमंत्रिकंटश्वलात्रयेण ॥ पुनर्नवेतत्त्व-  
 यरोगमुयंक्षोद्रेणलीढंकपचत्यवश्यम् ॥ ५० ॥  
 शिलाजतुव्योपविडंगलोहताप्याभयाभिविदितोव-  
 लेहः ॥ सपिंर्मधुभ्यांविधिनाप्रयुक्तः क्षयंविधत्तेसद्वा  
 क्षयस्त्य ॥ ५१ ॥ नवनीतिसिताक्षोद्रंलीढंकीरुजः  
 पराम् ॥ करोतिपुष्टिकन्दस्वदशतक्षयमपोहति ॥  
 ॥ ५२ ॥ वासामहोपवीच्याग्रीयुद्वचीभिः शृतंजलम् ॥

प्रपीतं शमयत्युग्रं श्वासकासक्षयज्वरान् ॥ ५३ ॥

इति क्षयरोगः ।

भाषा—पीपल छोटी, पीपलामूल, सूठ यह द्रव्यः शहदसे बालक चाटके पांच रक्कमके कासको, श्वासको नष्ट करदेता है ॥ ४२ ॥ अथवा कंटकारीके फूलोंकी केसर करके और शहदकरके सिद्ध किया अबलेह बालककी पांच प्रकारकी खांसीको नाश करदेता है ॥ ४३ ॥ वंशलोचन शहदसे चाटनेसे बालकके कास, श्वास दूर हो जाते हैं अथवा पीपल, काकडासाँगी, मूलीके बीज यह द्रव्य शहदसहित चाटनेसे बालकके कास श्वासको दूर करदेते हैं ॥ ४४ ॥ अन्यत्र । केवल काकडासाँगी मूलीके बीजों करके युक्त घृतसे व शहदसे चाटी हुई बालकके दुस्तर कासको नाश करती है ॥ ४५ ॥ इति कासश्वासचिकित्सा ॥ वायविडंग अथवा पोहकरमूल सहिंजनेका बकल अथवा एकली मूसाकन्नी यह तीन योग न्यारे न्यारे शहदसे चाटनेसे बालक किमियोंसे मुक्त होता है ॥ ४६ ॥ अन्यत्र । नागरमोथा, वायविडंग, पीपल, मूसाकन्नी, कवीला, अनारका बकल इनका चूर्ण शहदसे चाटनेसे बालकके बढ़े हुए किमियोंको अवश्य शमन करदेता है ॥ ४७ ॥ जवाखार, वायविडंग, पीपल यह द्रव्य शहदसे चाटनेसे किमिरोगको नष्ट करे पंक्तिशुलको शमन करे ॥ ४८ ॥ इति किंमिरोगचिकित्सा ॥ गोमूत्रसे सिद्ध किया लोहचूर्ण जिसको वैद्य मंडूर कहते हैं, त्रिफलाकी वरावर शहदसे चाटनेसे बालकके पांडुको, कासको, श्वासको, मंदाग्निको,

तोमधुनालेहोव्याग्रीकुसुमकेसरैः ॥ लीढोविनाशय-  
 त्याशुकासंपंचविधंशिशोः ॥ ४३ ॥ क्षोद्रद्युक्तातु-  
 गाक्षीरीकासर्वासावपोहति ॥ वालस्यनियतंकृष्णा  
 शृङ्गीवामूलसंयुता ॥ ४४ ॥ एका शृङ्गीनिहंत्याशु  
 मूलकस्यफलान्विता ॥ घृतेनमधुनालीढाकासंवा-  
 लस्यदुस्तरम् ॥ ४५ ॥ इतिकासर्वासौ ॥ विडं-  
 गंमधुनालीढापौप्करंवासशिशुकम् ॥ आखुकणीत-  
 यैकांवाक्तिभिर्भ्योमुच्यतेशिशुः ॥ ४६ ॥ मुत्तंवि-  
 डंगंमगधाखुकणीकंपिष्ठकोदाढिमवल्कलंच ॥ एत-  
 त्कूमीन्सत्वरमुग्रवेगान्क्षौद्रेणलीढंशमयत्यवश्यम् ॥  
 ॥ ४७ ॥ यवक्षारंकुमिरिपुमगधामधुनासह ॥ भक्ष-  
 येत्कुमिरोगञ्चंपंकिञ्चूलहरंपरम् ॥ ४८ ॥ इतिक्रिमि-  
 रोगः ॥ अयोरजस्तेफलचूर्णयुक्तंगोमूत्रसिद्धंमधुना-  
 वलीढम् ॥ पांडुंकासंसकृरानुमांवंशूलंसशोफंश-  
 मयेदवश्यम् ॥ ४९ ॥ इनिषाण्डुरोगः ॥ पथ्याश्वनंथा  
 संवरीविदारीसमंत्रिकंटश्वलान्वयेण ॥ पुनर्नवेतत्त्व-  
 यरोगमुग्रंक्षेष्ट्रिणलीढंक्षपयत्यवश्यम् ॥ ५० ॥  
 शिलाजतुव्योपविडंगलोहताप्याभवाभिविहितोव-  
 लेहः ॥ सपिंर्मधुभ्यांविधिनाप्रयुक्तः क्षयंविभत्तेसहसा  
 क्षयस्य ॥ ५१ ॥ नवनीतंसिताक्षोद्रलीढंक्षीरमुजः  
 पराम् ॥ करोतिपुर्षिकायस्यक्षतक्षयमपोहति ॥  
 ॥ ५२ ॥ वासामहोपदीच्याग्रीगुड्चीभिः गृतंजलम् ॥

ज्वरकासजित् ॥ विचार्येवंतुमतिमानौपधंचप्रयो-  
जयेत् ॥ ५८ ॥ इत्यरोचकम् ॥ कोलास्थिपद्मको-  
शीरंचंदनंनागकेसरम् ॥ लीढंक्षोद्रेणवालानांमूर्छा-  
नाशनमुत्तमम् ॥ ५९ ॥ द्राक्षामामलकंस्वित्रंपिष्ठा  
क्षोद्रेणसंयुतः ॥ सर्वदोपभवांमूर्छांसज्वरानाशयेष्टु-  
वम् ॥ ६० ॥ शीताःप्रदेहामण्यःसहाराःसेकावगा-  
हाव्यजनस्यवाताः ॥ लेह्वान्नपानादिसुगंधिशीतंमू-  
र्छांसुसर्वांसुपरंप्रशस्तम् ॥ ६१ ॥ इति मूर्छा ॥

भाषा—पीपल, पीपलामूल, सूठ, मिरच इनका चूर्ण सहतसे चाटनेसे कफसहित स्वरभेदको दूर करै है ॥ ५४ ॥ अन्यत्र ॥ मुलहटी, हरडै, मोरबेल, काकोली, क्षीरकाकोली इन करके सिद्ध किया दुग्ध पीनेसे पित्तके स्वरभेदको नष्ट करै है ॥ ५५ ॥ इति स्वरभेदचिकित्सा ॥ जीरा सपेद, जीरा स्थाह, इमली, अंबाडा, अनारदाना, चित्रक, सूठ इनका चूर्ण दुर्वार अरुचिको नष्ट कर देता है ॥ ५६ ॥ अनारदाना ८ तोले, खांड ३२ तोले, सॉंठ ४ तोले, मिरच ४ तोले, पीपल ४ तोले, दालचीनी, इलायची, पतरज यह तीनों मिलके ४ तोले इस माफिक सब दवालेके एक जगह चूर्ण करले ॥ ५७ ॥ यह चूर्ण जठरायिको तेजकरता है रुचिको पैदा करता है पथ्य पीनसको, ज्वरको, वथा कासको जीवता है ॥ ऐसे मतिमान वैद्योंको विचारके औपधीकी योजना करे ॥ ५८ ॥ इत्यरोचकम् ॥ वेरके काकडाकी गिरी, पझास, खस सफेद चन्दन, नागकेसर

शुलको, सोजा को अवश्य शमन करदेता है॥ ४९ ॥ इति पांडुरोग-  
चिकित्सा ॥ हरड़े की छाल, आसांध, शतावर, विदारी कंद, गोत्त-  
रु, बला, अतिवला, नागवला, पुनर्नेत्रा यह द्रव्य सब समान लेके  
शहद से बालक को चटाने से अवश्य क्षयरोग को नष्ट कर देता है॥  
॥ ५० ॥ शिलाजीव, सृंठ, मिरच, पीपल, वायविडंग, लोहभ-  
रम, सुवर्णमाक्षिक भूत्स्तम, हरड़े की छाल इन द्रव्यों का घृत से शहद-  
से अबलेह करके बालक को विधिपूर्वक सेवन कराने से थीव्र तथा  
रोगका नाश हो जाता है॥ ५१ ॥ अन्यथा ॥ मासन, मिरी,  
शहद यह द्रव्य बालक को चटाने से बालक के गरीर को पुष्ट  
करते हैं, क्षयरोग को दूर करते हैं ॥ ५२ ॥ अन्योगायः ॥ वांसा-  
प्ते, तोड़, कंटकारी की जड़, मिठाय इन करके निष्ठि-  
काय पीने से बालक के भ्रान्ति, कामको, क्षयरोग को, वया  
ज्वर को शमन करदेता है ॥ ५३ ॥

इति क्षयरोगचिकित्सा ।

मागर्धीमागर्धीमूलं नागरं मरिन्नान्वितम् ॥ शीद्रेणली-  
दं सकफं स्वरभेदमपोदति ॥ ५४ ॥ यष्टवाहार्जीव-  
नीमूर्वाकास्तोलीडवसाधितम् ॥ पयः पित्तोद्वरं देनि  
स्वरभेदं सुदारूणम् ॥ ५५ ॥ इति स्वरभेदः ॥ जी-  
रकद्रव्यमस्त्रीकातुवाम्लं दाढिमान्वितम् ॥ चित्रकादि-  
कसंयुक्तमर्चिद्वितिदुष्कथम् ॥ ५६ ॥ उपलंदाढि-  
मादृष्टौ तण्डाद्रवोपपलव्यम् ॥ विमुगं विषयं त्वं कूर्चं  
मेष्टवकाश्येत् ॥ ५७ ॥ दीपनं रोचनं पञ्चपीनम्

साधितं मूत्रदधिक्षीरश कृद्गसैः ॥ चातुर्थिकज्वरो-  
न्मादसर्वापस्मारनाशनम् ॥ ६९ ॥ इत्यपस्मारः ॥

भाषा-पञ्चकाष्ठ, सप्तदचंदन, बुरादा, नेत्रवाला, खस इन  
इच्छाओंका वारीक चूर्ण करके दूधके संग पीनेसे बालकोंके  
दाहको निश्चय नाश कर देवाहै ॥ ६२ ॥ अन्योयोगः ॥ कपूर,  
मल्यागिर, सफेदचंदन, खस इनको खूब वारीक पीसके  
दाहपीडित बालकके अंगको लेपन करके केछाके पत्तोंका  
विस्तर बनवाके उसपर बालकको वैद्य शयन करावै ॥ ६३ ॥  
शीतल जलसे परिषेक करना और शीतल जलका अवगाहन  
बीजनेकी वायुका सेवन शीतल जलपान इनका सेवन तृपाकी  
दाहकी शांतिके बास्ते बहुत उत्तम है ॥ ६४ ॥ इति दाहचि-  
कित्सा ॥ सिरसके बीज, करंजुवाके बीज इनको पानीमें पीसके  
बालकके नेत्रमें आंजनेसे चित्तविकार जिसको उन्माद बोलतेहैं  
और अपस्मारको अपतंत्रिकाको शीघ्र नाश करेहै ॥ ६५ ॥  
थूपमाह-राई, वच, हींग, आकके फूल, गंधक, अँवलासार,  
सांपकी कांचली, मोरकी पांख, नमक, मनुष्यके माथेके बाल;  
कूट ॥ ६६ ॥ सूकरकी विषा, विलावकी विषा, नींवके पत्ते इन सब  
इच्छाओंको थोड़ा कूटके धूप धी मिलाके बालकको देनेसे सबतरहके  
उन्मादोंका और बालग्रहोंका शमन हो जाताहै ॥ ६७ ॥ इत्युन्माद  
चिकित्सा ॥ पुराना पेठाका रस देके मुलहटीको पीसे फिर पेठा-  
के रसमें ही छानके मृगीके नाशकरनेके बास्ते बालक ७ सात  
दिन पीवे ॥ ६७ ॥ अन्योयोगः ॥ गौकामूत्र, दही, दूध, और गोवरका

यह द्रव्य सहतसे चाटनेसे वालकोंकी मूर्छाको नाश करै है ॥  
 ॥५९॥ अन्योयोगः । मुनक्षा, आँवला, स्विन्नकरा हुआ इनको  
 पीसके सहतसे सेवन करनेसे त्रिदोषसे होनेवाली मूर्छाको ज्वरको  
 नाश करदेता है ॥६०॥ अन्यच्च ॥ शीतललेपनादिक, मणियोंके  
 हार, शीतलसेक, शीतल अवगाहन, पंखाकी हवा और जो चाटने  
 की वस्तु या खानेकी या पीनेकी या सुगंधलगानेके वास्ते यह सब  
 शीतल मूर्छामें श्रेष्ठ हैं अर्थात् सर्व वस्तु ठंडी होनी चाहिये ॥६१  
 इति मूर्छाचिकित्सा ॥

पद्मकंचदनंतोयमुशीरंश्लश्णचूर्णितम् ॥ क्षीरेणपी-  
 तंवालानांदाहंनाशयतिध्रुवम् ॥ ६२ ॥ कर्पूरचं-  
 दनोशीरलिपांगकदलीदलैः ॥ प्रशस्तेसंस्तरेधी-  
 मान्स्वापयेद्वाहपीडितम् ॥ ६३ ॥ परिपेका-  
 वगाहादिव्यंजनानांचसेवनम् ॥ शस्यतेशिशि-  
 रंतोयंतृपादाहोपशांतये ॥ ६४ ॥ इति दाहः ॥  
 शिशीपनक्तमालानांवीजैरंजितलोचनः ॥ चेतो-  
 विकारंहंत्याशुसापस्मारापतंत्रिकम् ॥ ६५ ॥  
 सिद्धार्थकवचाहिंगुशिवनिर्मालियगंधकः ॥ निर्मांक-  
 पिच्छलवैर्णर्नुकेशोःकुट्टासयुतोः ॥ ६६ ॥ गृहमू-  
 करमाजारविष्टारिष्टकपत्रकः ॥ एतेष्टुतद्वैर्ण-  
 पःसवोन्मादयहापहः ॥ ६७ ॥ इत्युन्मादः ॥  
 कूप्मांडकरसंदत्त्वामधुकंपरिपेपयेत् ॥ अपस्मार-  
 विनाशायतत्पिवेत्सतवासरान् ॥ ६८ ॥ गोसर्पिः

भाषा—सांठीकी जड अरंडकी अरंडोली, जौ, अन्न, अलसी, कपासके बिनोंले यह सब द्रव्य कांजीजलमें स्थित करके बालकके जहांपर बातव्याधिहो उस अंगको प्रथम स्वेदित करे सेके पीछे उस स्थानपर बांधदे ऐसे तीन रोज छह रोज करनेसे बालककी बातपीडा सब नष्ट होजावे ॥ ७० ॥ इति बातव्याधिचिकित्सा ॥ बाँसके पत्तोंका स्वरस निकालके उसमें मिसरी सहवं डालके पीनेसे रक्पित्तको नाश करै है इसीतरह बटवृक्षकी डालीका स्वरस, मिसरी, सहतसहित रक्पित्तको नाश करदेता है ॥ ७१ ॥ पालाशवृक्षके फूलोंका काथकरके या बाँसके पत्तोंका स्वरस करके चतुर्थीश वृत्त सिद्धकरके सेवनकरनेसे रक्पित्तको हरता है ॥ ७२ ॥ अन्यत्र अनारके फूलोंका रस अथवा दूर्वाका स्वरस नासिकासे सूँथनेसे नासिकासे गिरता हुआ रक्त बन्द होजाता है ॥ ७३ ॥ इति रक्पित्तचिकित्सा ॥ हींग, सहत, सैंधानमक इन द्रव्योंकरके दृढवर्ती कपडाकी या सूत्रकी बनी बनाके सुखाकेफिर उसको वृत्त लगाके बालककी गुदामें देनेसे उदार्वर्तरोग अर्थात् आनाह कोष्ठवात यह सब नाश होजाते हैं ॥ ७४ ॥ इत्युदार्वर्तचिकित्सा ॥ सूँठ, मिरच, पीपल, अजवायन, सैंधानमक, सुफेन्दजीरा, स्याहजीरा यह द्रव्य सर्व समान ले और हींग आठवां भाग लेना चाहिये यह हिंगवटक चूर्णहै इसको वृत्तमें मरकोंके भोजनसे पहिले एक ब्रास चूर्णका खाके फिर भोजन करनेसे जठराग्निको तेज करै है, वायुगोलाको नाश करै है ॥ ७५ ॥ इति बातगुल्मानचिकित्सा ॥ सूँठ, पीपल, पोहकरमूल, केतकीकी

रस इन करके सिद्धकिया गैका घृत वालकको सेवन करनेसे  
चातुर्थिक ज्वरको, उन्मादको, मृगीको नाश करेहै ॥६९॥

इत्यप्स्मारचिकित्सा ।

पुनर्नवैरं डयवात्सीभिः कार्पासजैरस्थभिररनालैः ॥  
स्विन्नैरमीभिस्त्रिभिः पङ्गिरेवस्वेदः समीरातिहरोनरा-  
णाम् ॥ ७० ॥ इति वातव्याधिः ॥ वासायाः  
स्वरसः पीतः सितामधुसमन्वितः ॥ तथावटप्रोहा-  
णांरक्तपित्तं विनाशयेत् ॥ ७१ ॥ पालाशपुष्प-  
काथेन वासायाः स्वरसेन च ॥ चतुर्गुणेन संसिद्धं रक्त-  
पित्तहरं घृतम् ॥ ७२ ॥ रसोदाङ्गिमपुष्पाणां दू-  
र्बायाः स्वरसोऽथवा ॥ नस्येन नाशयेत् त्रूप्णनासिका-  
रक्तमुद्धृतम् ॥ ७३ ॥ इति रक्तपित्तरोगः ॥ हिंगु-  
माक्षिकसिंघृत्यैः कृत्वा वर्त्तिसुवर्त्तिताम् ॥ घृताभ्य-  
क्तां गुदेद्यादुदावर्तविनाशनीम् ॥ ७४ ॥ इत्यु-  
दावर्तः ॥ त्रिकटुकमज्जमोदासैः वंजीरकेद्वेसमधर-  
ण घृतानामष्टमो हिंगुभागः ॥ प्रथमकवलभुक्तं स-  
र्पिं पाच्चूर्णमेतज्जनयति जठराग्निवात्गुलमनि हंति ॥  
॥ ७५ ॥ इति वातगुलमहरं हिंगवष्टकम् ॥ शुंठी-  
कणापुष्पकेतकीनां विवाय त्रूप्णकुमस्त्वचोवा ॥  
रासान्वितं वामधुनावलीढं हद्रोगमेतच्छमयत्युदग्र-  
म् ॥ ७६ ॥ इति हद्रोगः ॥

भाषा—नागरमोथा, गिलोय, सूंठ, असगन्ध, आँवला, गोखरू  
 इन द्रव्योंकरके सिद्धकिया काथमें सहत डालकर पीनेसे वागुसे  
 होनेवाला मूत्रकच्छू अवश्य शमन होजाता है ॥ ७७ ॥ कुशाकी  
 जड, ऊखकी जड, कांसकी जड, नरसलकी जड, मूंजकी जड  
 यह तृणपंचमूल है इनको लेके कूटके काथ बनाके सहत  
 डालके पीनेसे दाह, पीडायुक मूत्रकच्छू नष्ट करता है ॥ ७८ ॥  
 अन्यत्र ॥ गोखरू विलायतीके काथमें जवाखार डालकर  
 पीनेसे कफसे होनेवाला मूत्रकच्छूको शीघ्र नाश कर देता है ॥  
 ॥ ७९ ॥ विलायती गोखरू करके सिद्ध किया काथमें शिला-  
 जीत डालके पीनेसे त्रिदोपस्ते वैदा होनेवाला मूत्रकच्छूको  
 नष्ट करदेता है इसमें संदेह नहीं ॥ ८० ॥ अन्योयोगः ॥  
 गंगेरनकी जड, ककडीके बीज इनकरके सिद्ध किया काथ  
 शिलाजीत सहित पीनेसे मूत्रकच्छूको नाशकरता है ॥ ८१ ॥  
 इति मूत्रकच्छूचिकित्सा ॥ सूंठ छोटी इलायचीकी जड इनको  
 पीसके अनारके दानोंके जलमें छानके पीनेसे मूत्राघातसे बा-  
 लक मुक्त होजाता है । अथवा त्रिफला, नमक दोनोंकी फंकी  
 लेके ऊपरसे अनारदानाका अर्क पीनेसे मूत्राघातसे मुक्त होजाता  
 है ॥ ८२ ॥ कपूरको जलमें पीसके बारीक कोमल कपडा उसमें  
 भिगोके बत्ती बनाके लिंगच्छिद्रमें देनेसे बहुत ज़लदी मूत्रका  
 बंधासे बालक मुक्त होजाता है ॥ ८३ ॥ अन्यत्र ॥ केशूके  
 फलोंका काथ करके सेक करनेसे अथवा वही बस्तदेशके ऊपर  
 बांधनेसे अविदुःखका देनेवाला मूत्रकच्छू नष्ट होजाता है ॥ ८४ ॥  
 इति मूत्राघातचिकित्सा ॥ एरंडके तेलको दूधमें डालके पीनेसे

जड इनद्रव्योंका चूर्ण अथवा अर्जुनवृक्षकी छाल, रासना इनका चूर्ण सहस्रे चाटा हुआ उथ हृद्रोगको शमन करता है ॥७६॥

इति हृद्रोगचिकित्सा ॥

मेघामृतानागरवाजिगंधाधावीत्रिकंटर्विहितःकपायः ॥  
क्षोद्रेणपीतःशमयत्यवश्यंमूत्रस्यकृच्छ्रंपवनप्रसूतम् ॥ ७७ ॥ कुशेक्षुकाशाः शरदर्भयुक्ताः प्रक्षुण्णमेतचृ-  
णपंचमूलम् ॥ निष्काथ्यपीतिंमधुनाविमित्रंकृच्छ्रं  
सदाहंसरुजंनिहन्ति ॥ ७८ ॥ यवक्षारयुतःकाथः  
स्वादुकंटकसंभवः ॥ पीतःप्रणाशयत्याशुमूत्रकृच्छ्रं  
कफोद्धवम् ॥ ७९ ॥ श्वदंयाविहितःकाथःशिलाजतु-  
समन्वितः ॥ सर्वदोषोद्धवंहंतिकृच्छ्रंनास्त्यत्रसंशयः ॥  
॥ ८० ॥ कपायोतिवलामूलत्रपुसीवीजसाधितः ॥  
शिलाजतुयुतःपीतोमूत्रकृच्छ्रंविनाशयेत् ॥ ८१ ॥ इति  
मूत्रकृच्छ्रोगः ॥ पीत्वादाडिमतोयेनविश्वेलावी-  
जजंरसम् ॥ मूत्राधातात्प्रसुच्येतवरांवालवणान्वि-  
ताम् ॥ ८२ ॥ कर्पूरवर्तिमृदुनालिंगच्छ्रेनिधापयेत् ॥  
शीत्रतयामहाघोरान्मूत्रवंधात्प्रसुच्यते ॥ ८३ ॥  
काथैःशिशुकपुप्पाणांसेकस्तैरेवनिर्मितः ॥ उप-  
नाहोथवाहतिमूत्रकृच्छ्रंसुदारुणम् ॥ ८४ ॥ इति  
मूत्राधातः ॥ एरंडतैलंसपयःपिवेद्योगव्येनमूत्रेणतदे-  
ववापि ॥ सगुण्गुलुप्रांडरुजंप्रवृद्धांसवांत्रवृद्धिसहसा  
निहंति ॥ ८५ ॥ इत्यंत्रवृद्धिः ॥

है ॥ ८८ ॥ शीतलाके ब्रणोंमें क्रिमि पड़नेके भयसे कोई वैद्यों-  
का मतहै वनोपलकी भस्मसे ब्रणोंको अवधूलित करदेवे ॥ और  
कोई वैद्योंका यह मत है भस्म करनेमें क्षार उत्पन्न होजाताहै इस  
वास्ते हितकारी नहींहै खाली वनोपलकोपीसके बारीककपड़ासे  
छानके वह सूक्ष्म रज ब्रणोंमें लगादेवे ॥ और तुलसीके पत्रोंकी  
धूप देनी चाहिये ॥ ८९ ॥ मसूरिकावाला बालकको पीड़ाकी  
शांतिके अर्थ बालकोंकी शुचिके वास्ते मोती अथवा मोती-  
की सींप कछुवाकी खोपडी मूँगा इनको जलसे पीसके बालक-  
को प्यावै ॥ ९० ॥ उक्त द्रव्य लवंगके जलमें घसके बालकको  
प्याके क्षुद्रशीतलाको जीते और शीतलावाला बालकके अगाड़ी  
शीतलाएक स्तोत्र वारंवार पढ़े ॥ ९१ ॥ इससे अगाड़ी शीत-  
लास्तोत्र लिखतेहैं यह केवल पाठ करनेके योग्यहै इसकी  
भाषा नहीं होनी चाहिये इसवास्ते नहीं करी ॥

अथशीतलास्तोत्रं लिख्यते ॥ ३५ ॥ नमः शीतलायै ॥ स्कं-  
दउवाच ॥ भगवन्देवदेवेशशीतलायाः स्तवं शुभम् ॥  
वलुमहस्यशेषेण विस्फोटकभयापहम् ॥ १ ॥  
ईश्वरउवाच ॥ वंदेऽहशीतलांदेवीं सर्वरोगभयापहाम् ॥  
यामासाद्यनिवतेत्विस्फोटकभयं महत् ॥ २ ॥  
शीतलेशीतलेचेतियोद्यावाहपीडितः ॥ विस्फोट-  
कभयं घोरं क्षिप्रतस्य विनश्यति ॥ ३ ॥ यस्त्वामुद-  
कमध्येतुधृत्वापूजयतेनरः ॥ ४ ॥ तुजान्तरे  
यंतस्यनजायते ॥ ५ ॥

अथवा गोमूत्रमें एरंडका तैल ढालके गूगल ढालके पीनेसे तक-  
लीफयुक्त बढ़ी हुई अंत्रवृद्धिको शीघ्र नाश करदेताहै ॥८५॥  
॥ इत्यंत्रवृद्धिचिकित्सा ॥

वनकार्पासिकामूलंतंडुलैः सहयोजितम् ॥ पक्त्वापूपा-  
लिकांखादेदपचीनाशकारिणीम् ॥ ८६ ॥ इतिगंड-  
माला ॥ कांचनारत्वचः काथस्ताप्यचूर्णविचूर्णितः ॥  
निर्गत्यांतःप्रविष्टां तु मसूरींबाध्यतोनयेत ॥ ८७ ॥  
गर्दभीदुग्धपानेनतुलसीपत्रभक्षणात् ॥ मसूरीवहि-  
स्न्वेतितत्क्षणान्नात्रसंशयः ॥ ८८ ॥ भस्मनाकेचि-  
दिच्छेतिकेचिद्गोमयरेणुना ॥ कृमिवातभयाच्चापिधूप-  
येत्सुरसादिभिः ॥ ८९ ॥ वेदनादाहशांत्यर्थशिशु-  
नांचविशुद्धये ॥ मौक्तिकंकाच्छपंपृष्ठंप्रवालंप्रपिवे-  
न्नरः ॥ ९० ॥ घृष्टंकुसुमतोयेनक्षुद्रशीतलिकाजये-  
त्वा ॥ स्तोत्रमेतत्सदापाठचंरोगिणोऽग्रेमुहुर्मुहुः ॥ ९१ ॥

भापा—वनमें होनेवाली कर्पासकी जड लाके कूट पीसके चांव-  
लोंके आटेमें मिलाके घृतमें पूढ़ी वनाके खानेसे अपची अर्था-  
त् परिषक गण्डमाला नष्ट होजातीहै ॥८६॥ इति गण्डमाला-  
चिकित्सा ॥ कचनारवृक्षकी छालका काथ करके छानके  
उसके ऊपर सुवर्णमास्त्रिक भस्म १ रक्ती चुरकाके वालकको  
प्यानेसे भीतर बढ़ी हुई शीतला बाहर निकलआतीहै ॥८७॥  
अन्योयोगः ॥ गर्दभीका दूध पीनेसे अथवा तुलसीके पत्र  
खानेसे वालकके भीतर बढ़ी हुई शीतला बाहर निकल आवी

भाषा—शीतल जलसे हल्दी और इमलीका बीज इनको पीसके बालकको प्यानेसे शीतला करके किया विकार नहीं हो ॥ ९२ ॥ शीतलामें रक्षापूर्वक ठंडी क्रियाकरे मकानके चारों तरफ नीमकी डाली बांध देनी चाहिये ॥ ९३ ॥ लालचंदन, बांसके पत्ते, नागरमोथा, गिलोय, मुनका इन द्रव्योंका काथ करके फिर शीतलकरके बालकको प्यानेसे शीतलासे होनेवाला ज्वर नाश होता है ॥ ९४ ॥ जिस स्थानमें शीतलावाला बालकहो उस स्थानमें उच्छिष्ट पुरुषका या नारीका प्रवेश नहीं होने दे और अपवित्रकाभी प्रवेश नहीं होने दे ॥ अधिक दाहवाले फोड़े हों, तब ब्रणविधानपूर्वक ब्रणीकी रक्षा रखनी चाहिये और चनोपलकी रज या भस्म फोड़ोंको लगानी चाहिये ॥ ९५ ॥ इति शीतलारोगचिकित्सा ॥

इति श्रीपंडितनंदकुमारवैद्यकृतबालंतंत्रभाषाटीकायांत्रयोदशःपट्टलः

मनःशिलाचंदनलोक्रपथ्यारसांजनेसुस्तनिशामया-  
क्षेः॥ सगौरिकाहौर्विहितः प्रलेपो वहिः प्रसन्नेनयनेक-  
रोति ॥ १ ॥ ससैधवंलोक्रमथाज्यभृष्टंसौवीरपि-  
एसितवस्त्रवद्धम् ॥ आश्रोतनंतन्त्रयनस्यकुर्यात्कं-  
डुचदाहंचरुंचहन्यात् ॥ २ ॥ चंदनंमधुकंलो-  
क्रंजातिपुष्पाणिगौरिकम् ॥ प्रलेपोदाहरोगप्रस्तो-  
याभिष्यंदनाशनः ॥ ३ ॥ शंखस्यभागाश्वत्वार-  
स्तदद्वाचमनःशिला ॥ मनःशिलाद्वंमारिचंमारिचा-

हरसिदुस्तरान् ॥ विस्फोटकविशीर्णनांत्वमेकामृ-  
 तवर्षिणी॥५॥ गलगंडग्रहारोगायेचान्येदारुणानृणा-  
 भ् ॥ त्वद्गुध्यानमात्रेणशीतलेयांतिसंक्षयम् ॥ ६ ॥  
 नमंत्रोनौपधंकिंचित्पापरोगस्यविद्यते ॥ त्वमेकाशी-  
 तलेवात्रीनान्यांपश्यामिदेवताम् ॥ ७ ॥ मृणालंतु-  
 सद्वशींनाभिहृत्पद्मसंस्थिताम् ॥ यस्त्वांसंचितये-  
 देवितस्यनृत्युर्नजायते ॥ ८ ॥ अष्टकंशीतलादेव्या-  
 यःपठेन्मानवःसदा ॥ विस्फोटकभयंघोर्कुलेतत्य  
 नजायते ॥ ९ ॥ श्रोतव्यंपठितव्यंचथद्वाभक्तिसम-  
 न्वितैः॥ उपनर्गविनाशायपरंस्वस्त्ययनंमहत् ॥ १० ॥  
 शीतलाष्टकमेवेदंतदेयंयस्यकस्यचिद् ॥ ११ ॥ दातव्यं  
 हि सदा तत्मे भक्तिथद्वान्वितश्च यः ॥ १२ ॥  
 इतिस्कंदपुराणेशीतलाष्टकम् ॥ शीतलेनजलेनैव  
 चिन्चयाच्चसमन्विताम् ॥ हरिद्रांथःपिवेत्पद्यनदोपः  
 शीतलाभवः ॥ १२ ॥ शीतलासुक्रियाकार्या  
 शीतलारक्षयासह ॥ वध्रीयान्विवपत्राणिपारितोभवना-  
 न्तरे ॥ १३ ॥ चन्दनंवासरोमुस्तंगुदृचीद्राक्षयासह ॥  
 एपांशीतकपायस्तु शीतलाज्वरनाशनः ॥ १४ ॥  
 कदाचिदपिनीकार्यमुच्छिष्टस्यप्रवेशनम् ॥ स्तो-  
 टेष्वधिकदाहेपुरक्षारणृत्करोदितः ॥ १५ ॥  
 इतिशीतलारोगः ॥ इविश्रीकल्याणवीयकुर्ववालतंवेर्गीत-  
 लाचिकित्साकथनंनामत्रयोदगः पठः ॥ १६ ॥

अन्यच ॥ लालचंदन, मुलहटी, लोध, चमेलीके फूल गेरू, इन  
इव्योंको पीसके नेत्रके लेप करनेसे नेत्रदाहको नष्ट करे और  
जलके पड़नको नेत्र दूखनेको नष्ट करै है ॥ ३ ॥ अन्योयोगः ॥  
शंखकी नाभिके ४ भाग मनशिलके २ भाग मिरच १  
भाग पीपल आधा भाग ॥ ४ ॥ यह इव्य जलमें पीसके  
नेत्रमें वालनेसे धुधको नष्ट करै है । दधि जलमें पीसके घालनेसे  
अर्दुदको नष्ट करै है ॥ शहदमें पीसके घालनेसे चिपिटपनाको  
नाश करे । खीके दूधमें पीसके घालनेसे नेत्रमें मांस फूलता है  
वह शांत हो जावे ॥ ५ ॥ धतूराके बीज, कपुर इनको खूब  
बारीक सहतमें विसके नेत्रमें घालनेमें सर्व नेत्ररोग नाश हो  
जातेहैं जैसे सिंहके भयसे मृग नष्ट हो जातेहैं ऐसे ॥ ६ ॥  
इति नेत्ररोगचिकित्सा ॥ हाँग, सूठ, मिरच, पीपल, वायविडंग,  
कायफल, बच, कूट, नकछीकनी लाख, सपेद सांठीकी जड़,  
कूड़ाकी छाल, लोंग इनका काथ करके और कल्क करके  
गोमूत्रसहित मंदामिसे कटु तैलको पकावे फिर विधिपूर्वक  
नासिकासे पानेसे नासिकाके कुलरोगोंको शमन करदेवा है ॥ ७ ॥  
इति नासारोगचिकित्सा ॥ कमेरा, विजोरा, नींवूका अर्क,  
अदरखका अर्क यह सब इव्य मिलाके गरम करके कानमें  
घालनेमें कर्णशूल शांत हो जाता है ॥ ८ ॥ अन्यच ॥ आकका  
पीला पत्ताको तैल चुपड़के अग्निमें तमकरके कानमें निचोड़नेसे  
कर्णशूल और कर्णकी सर्व पीड़ा नष्ट हो जाती है ॥ ९ ॥  
अन्यच ॥ खीके दूधमें रसोतको विसके फिर शहद मिलाके

द्वचिपिष्ठली ॥ ४ ॥ वारिणातिमिरहंतिश्चर्हुंदं  
हंतिमस्तुना ॥ चिपिटंमधुनाहंतिश्चीक्षीरेणतदुन्न-  
तम् ॥ ५ ॥ धत्तूरफलकर्पूरेनिघृष्यमधुनांजयेत् ॥  
नेत्रोगः प्रणश्यंति सिंहत्रस्तामृगाइव ॥ ६ ॥ इति ने-  
त्रोगः ॥ हिंगुव्योपविडंगकट्फलवचारुक्तीद्विगंधा-  
युतैर्लक्षाश्वेतपुनर्नवाकुटजकेः पुष्पोद्भवैः सौरसैः ॥  
इत्येभिः कटुतैलमेतदनलेमंदेसमूत्रं शृतं पीतं नासिक-  
यायथाविधिभवेन्नासामयिभ्योहितम् ॥ ७ ॥ इति  
नासारोगः ॥ कंपिलमातुलुंगाम्लशृंगवेसरसैः शुभैः ॥  
सुखोप्णेः पूरयेत्कर्णकर्णशूलोपशांतये ॥ ८ ॥ अकं-  
स्यपत्रं परिणामपीतं तेलेनलितं शिखिनाचततम् ॥  
आपीडयतोयं थ्रवणेनिपिक्तं निहंतिशूलं वहुवेदनां च ॥  
॥ ९ ॥ घृष्टं रसां जननार्थाः क्षीरेण क्षीड्रसंयुतम् ॥  
प्रशस्यते शिरोरोगे सखावेपृतिकर्णिके ॥ १० ॥

इति कर्णरोगः ॥

भापा—मनशिल, लालचंदन, लोध, हरड़, रमोत, नागरमोथा,  
हलदी, कूट, वहेडा, गेल इन द्रव्योंको कूट कपड़ामे छानके जलमें  
गौसके, नेत्रोंके वाहिर लेप करनेसे नेत्र निर्मल हो जाते हैं ॥  
॥ १ ॥ अन्योयोगः ॥ सेंधानमक, वीका भुना लोध, दानोंको  
कांजीजलसे पीसके गोलीबनाके सुपेद वस्त्रमें वांधके पांटदी  
बनालो फिर कांजी जलमें डुबोडुबोके नेत्रमें आभोतन करनेसे  
नेत्रदाहको, नेत्रपीडाको नष्ट करदीर्ह ॥ २ ॥

पोहन्तिप्रयुक्तोयकंटवृथिकजंविपम् ॥ २० ॥ पला-  
शवीजंरविदुग्धपिष्ठंवृतेनपिष्टासशिरीपवीजा ॥ कृष्णा-  
थवाहंतिकृतोयपीडांविपप्रलेपाङ्गुविवृथिकस्य ॥ २१ ॥  
भाषा—अन्यच्च ॥ गुणसे सोंठकी गोली बनाके खानेसे शिरो-  
रोगोंको नष्ट करै है अथवा सैंधानमक, पीपल इनका सेवन करनेसे  
याकेवल निर्मलजल प्रातः कालनासिकादारा सेवन करनेसे अथवा  
दुग्ध, वृत, प्रातः काल सेवन करनेसे या शिरो विरेचन करनेसे  
शिरके सर्व विकार नष्ट हो जाते हैं ॥ ११ ॥ इति शिरोरोगचिकित्सा ॥  
हींगको अभिदारा कदुष्ण करके दंतमें रसनेसे शीघ्र  
कुमिंश रोग नष्ट हो जाता है ॥ १२ ॥ ओष्ठप्रकोपरोग होनेसे  
ओष्ठोंका खून निकल वावे और त्रिफला, सैरका बक्ल इनका  
काथ करके ओष्ठोंको धोना और झारना चाहिये इन्हींको पीसके  
लेप करना चाहिये ॥ १३ ॥ अन्यच्च ॥ जावित्री, पतरज,  
गिलोय, मुनका, कश्मीरीपटा, दारुहलदी, हरडै, बहेडा, आंवला  
इन द्रव्योंफा काथ करे फिर ठंडा होनेसे सहत ढालके कुछीक,  
रनेसे मुखका पाक साफ हो जावे ॥ १४ ॥ पंचबक्लका काथ  
या त्रिफलाका काथ सहत सहित कुछी करनेसे मुख पाकको शीघ्र  
शमन करै है ॥ आम्रका बक्ल, पीपलका बक्ल, वटका बक्ल,  
पिलखनका बक्ल, गूलरका बक्ल इन पांच वृक्षोंके बक्लोंको  
पंच घटकल कहते हैं ॥ १५ ॥ परखलके पत्ते, नींवके पत्ते,  
जामुनके पत्ते, आमके पत्ते, चमोलीके पत्ते इनका काथ करके  
या पंच घलकल करके सहित इनका काथ करके कुछी करनेसे

कर्णमें घालनेसे कानका बहनाको, कानकी बदबूको और कर्ण-  
शूलसे शिरमें शूलहो इन सर्वोंको शमन करता है ॥ १० ॥

गुडेनशुण्ठीसहसैधवेनकृप्णाऽथवाकेवलमच्छमंभः॥  
पयोधृतंवाविनिहंतिशीघ्रंशिरोविरेकेण शिरोविका-  
रान् ॥ ११ ॥ इति शिरोरोगः ॥ मंदोष्णांवा-  
रयेच्छुद्धांहिंगुदन्तान्तरेस्थितम् ॥ तेनप्रणाशय-  
त्याशुकुमिदंशंमहागदम् ॥ १२ ॥ ओष्ठप्रकोपेसं-  
जातेरक्तमोक्षंचकारयेत् ॥ त्रिफलाखदिरकायेधा-  
वनंलेपनंतथा ॥ १३ ॥ जातिपत्रामृताद्राक्षा-  
पाठादार्वीफलत्रिकैः ॥ काथःक्षीद्रयुतःशीतोगंदृ-  
पान्मुखपाकजित् ॥ १४ ॥ पञ्चवल्ककपायोवा  
त्रिफलाकाथएववा॥सक्षीद्रःशमयत्याशुगंदृपेःपाक-  
मास्यजम् ॥ १५ ॥ पटोलनिवजंव्वाम्रमालती-  
नवपल्लवैः ॥ पञ्चवल्कलजःकाथोगंदृपेमुखपाकजित्  
॥ १६ ॥ दार्वीगुदृचीसुमनःप्रवालद्राक्षायवास-  
त्रिफलकपायः ॥ क्षीद्रेणयुक्तःकवलग्रहोयंमुख-  
स्यपाकंशमयत्युदीर्णम् ॥ १७ ॥ इतिमुखगंग-  
चिकित्सा ॥ वंध्याककोटकीमूलंतंडुलीयकसंयुत-  
म् ॥ अगदोयंमहावीर्यःपीतःसर्वविपापहः ॥ १८ ॥  
वलांशिफांवाणपुंसांशिसांवासववारुणीम्॥ लीद्वाष्ट-  
तेनसर्वाणिविपाणिक्षपयेत्वरः ॥ १९॥ इति सर्पादि-  
विपम् ॥ शिखिकुकुटवहाणिसंघवं तेलसार्पपम्॥ धू-

त्ररःकामरूपः ॥ अमृतफलसिताद्यैश्चार्णितस्तोद्दिमा-  
सात्प्रहृतगदसमूहः कृष्णकेशश्चिरायुः ॥ २४ ॥  
पीताश्वगंधापयसार्द्धमासंघृतेनतैलेनसुखाम्बुनावा ॥  
कृशस्यपुर्दिवपुषोविधत्ते वालस्यसस्यस्ययथाम्बु-  
वृष्टिः ॥ २५ ॥ इतिरसायनभेषजम् ॥ ग्रंथान्विलोक्य  
श्रुतुरप्रयोगान्पद्यैः स्वकीयैः कतिचित्तदीयैः ॥ प्रो-  
क्ताश्चिकित्सारुचिराः शिशूनांतादेशकालादिसमी-  
क्ष्यकुर्यात् ॥ २६ ॥ अहिक्षत्रान्वयेजातः पंडितैक-  
शिरोमणिः ॥ रामचंद्रार्चनरतोरामदासः सतांप्रियः  
॥ २७ : ॥ विद्वज्ञनाद्बादकरोमनस्त्रीमहीधरः सर्व-  
जनाभिवंद्यः ॥ लक्ष्मीनृसिंहांश्रिसरोजभूंगस्तदात्म-  
जोभूद्विदितागमार्थः ॥ २८ ॥ कल्याणइत्युद्गतनाम-  
धेयस्तदात्मजोग्रंथवरान्विलोक्य ॥ परोपकारायव-  
वंधतंत्रं सतां समालोकनयोग्यमेतत् ॥ २९ ॥ युग-  
वेदरसाकारमिते वपें नभेष्वां ॥ पूर्णमायां चकारेदं  
लिलेखचशिवालये ॥ ३० ॥

इति श्री कल्याणैव वृक्ते वालतंत्रे नानाप्रयो-

गकथनं नाम चतुर्दशः पट्ठः ॥ १४ ॥

समाप्तो यं ग्रंथः ॥ शुभमस्तु ॥

भाषा—वकरीका खुर, सेंधानमक इनको पीसके सहत, वृक्त मिलाके किंचित् गरम करके जहांपै वीछूने काटाहो वहांपै लेप करनेसे अग्निकी माफिक पीडाको एक क्षणमें नष्ट करदेवा है २२

मुखपाक शमन होजाता है ॥ २६ ॥ अन्यच्च ॥ दारुहलदी  
गिलोय, सुमननामकपुष्पवृक्षविशेषहोता है उसके पत्ते लेनेचाहिये  
अगर न भिलें तो चमेलीके पत्ते लेवे, मुनका, जवासा, हरडै, वहे-  
डा, आंवला इनका काथ करके सहत डालके कुछे करनेसे मुख-  
पाक शमन होजाता है ॥ २७ ॥ इति मुखरोगचिकित्सा ॥  
वांशककोडाकी जड़, चौलाईकी जड़ इनको पानीमें पीसके  
पीनेसे सब तरहके विषको नाश करेहै. यह विषके नाश करनेके  
वास्ते वड़ा पराक्रमी अगद संज्ञक योग है ॥ २८ ॥ अन्यच्च ॥  
खरटीकी जड़, शरपुंखाकी जड़ इनको पीसके घृतसे चाटनेमें  
संपूर्ण विष नाश होजाते हैं ॥ २९ ॥ इतिसर्वादिविषचिकित्सा ॥  
मोरकी पंख, मुरगाकी पंख, तेंधानमक, तेल, सिरसम, इन्दौंको  
कूटके धूप देनेसे कीडाका वृश्चिकका विष नष्ट होजाता है ॥ ३० ॥  
पलाशपापडाको आकके दूधमें पीसके लेप करनेसे, अथवा  
सिरसके बीज, पीपलछोटी, इनका घृतमें पीसके लेप करनेसे  
वृश्चिकके विषकरके होनेवाली उयपीडा नष्ट होजाती है ॥ ३१ ॥  
अजांश्चिकल्कः सहसंववेन मध्वाज्यमित्रोविहितः कदु-  
णः ॥ ३२ ॥ दंशोप्रलितोदहरेन तुल्यांपीडांक्षणात्कृतति  
वृश्चिकस्य ॥ ३३ ॥ इतिवृश्चिकविषचित्र० ॥ कर्पा  
न्मितं हाटकचाणपुंखासूलं पिवेत्तं डुलतोयमित्रम् ॥  
शिफामयेकांकनकस्य युक्तां दुग्धेन नाशाय शुनां वि-  
पस्य ॥ ३४ ॥ इतिवृश्चिकविषचिकित्सा ॥ असिन-  
तिलक्ष्मेते र्भृङ्गराजस्य पत्रः प्रतिदिनमपियुक्तेः स्या-

के उपकारके वास्ते श्रेष्ठ जनोंके देखनेलायक इस तंत्रको रचता भया ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ कब यह अंथ बनाया है इस अपेक्षामें संवत् पास तिथि कल्याण वैद्य लिखता है ॥ संवत् १६४४ में आवणशुक्ल १५ पूर्णिमा रविवार शिवालयमें इस अंथको पूर्ण करके लिखता भया ॥ ३० ॥

इति श्रीपंडितनन्दकुमारवैद्यकृतवालतंत्रभाषाटीकायांचतुर्दशः पठलः १४

### अथश्विन्यादिसप्तविंशतिनक्षत्रेष्वूद्धवस्यरोग- स्यशान्तिरभिधीयते ॥

अश्विन्यादिषुपीडास्याज्ज्वरोदाहः कलेवरे ॥ तद्वो-  
षशमनार्थायज्ज्वरतापादिशान्तये ॥ १ ॥ दानंकुर्या-  
द्विधानेनरोगशान्तिस्तदाभवेत् ॥ औपधीनांप्र-  
योगाश्चभवन्तिफलदायदा ॥ २ ॥ तत्रादावश्वि-  
न्यारोगशान्तयेऽश्विनीदानम् ॥ तथाचोक्तमादि-  
त्यपुराणे ॥ सितमश्वंसमादाय सुवर्णप्रतिमांरवेः ॥  
टंकप्रमाणतः कुर्यात्कांस्यपात्रेनिधारयेत् ॥ ३ ॥  
घृतपूर्णेमुखंपश्यन्मंत्रद्वादशभिः पठेत् ॥ ४ ॥  
मंत्रः ॥ भास्करायनमश्वैवकौमारायनमोनमः ॥  
अश्विनीसंभवांपीडांनिवारयनवाह्निकाम् ॥ ५ ॥  
पुनर्मंत्रं च भिरुत्त्वादद्यादानं द्विजातये ॥ ज्वरवा-  
धाविनिर्मुक्तः स्नानमारोग्यमामुयात् ॥ ६ ॥ इत्य-  
श्विन्यारोगसंभवेऽश्विनीदानम् ॥ ७ ॥

इतिवृथिकविपचिकित्सा ॥ कचनारकी जड, झोङ्गरुकी जड  
दोनों एक तोला लेके चाबलोंके पानीके साथ, बावले कुन्तेका  
विषनारा करनेके बास्ते पीना चाहिये अथवा केवल अकेली  
कचनारकी जड दुग्धसे पीनेसे कुन्तेका विष नष्ट होजाता है २३ ॥  
इति श्विषचिकित्सा ॥ काले तिल, और जलभंगराके पत्ते  
इनका नित्य सेवन करनेसे अथवा अमरफल मिसरी इनका  
दो मास सेवन करनेसे सर्व रोगोंके समूह नष्ट होजाते हैं, काले  
बाल हो जाते हैं आयु निरोग होती है कामदेवकी माफिकरूपवान  
मनुष्य हो जाता है ॥ २४ ॥ अन्योयोगः ॥ पंद्रह १५ रोज-  
तक असंगधन गौंके दूधके संग या जलसे पीनेसे कश बालकके  
शरीरकी पुष्टिकर है जैसे सस्यकी पुष्टिको जलवृष्टि करती है  
ऐसे ॥ २५ ॥ इति रसायनभेषजम् ॥ कल्याणवैद्य कहते हैं  
भात्रेयादिक बहुतसे तंत्रोंको देखके और बहुतसे सिद्ध प्रयोगों-  
को देखके अपने रचे पद्यों करके और कितनेक तंत्रोंके पद्यों करके  
बालकोंकी सुन्दर चिकित्सा कही है इनको वैयवर देशकालादि-  
कोंको देखके करे ॥ २६ ॥ अब कल्याणवैद्य अपने उद्भव-  
को कहते हैं, अहिक्षव वंशमें होनेवाले पंडितोंमें शिरोमणि श्री  
रामचंद्रजीके पुजनमें रत संतोंके प्यारे ऐसे रामदासनागक वैद्य  
होते भये उन्होंके पुत्र विद्वानोंके मनको आनंद करनेवाले  
समर्थ सञ्जनोंकरके वंदित लक्ष्मीनृसिंहके चरणकमठमें भगव-  
रूप ऐसे महीधर नामक वैद्य होते भए उन्होंके पुत्र जाना है  
वेदोंका अर्थ जिसने ऐसा वह कल्याणनामक वैद्य होता भया  
कि जो कल्याण वैयवहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्ययोंको देखके और जनों-

रण्यांरोगसंभवे भरणीदानशांतिविधिः समाप्तः ॥ २ ॥

भाषा—अब भरणीनक्षत्रमें रोग होनेसे भरणीकी शांतिलिखते हैं ॥ विष्णुपुराणके धर्मोन्नतरखंडमें लिखा है ॥ दो तेरका वजनमें कांसीका पात्र लेके ३ ॥ साढेतीनसेर काले तिळ उसमें डालके १ तोला सुवर्णकी धर्मराजकी मूर्ति बनवाकेतिलोंके ऊपर रखके मूलोक्त मन्त्र पढ़के काले ब्राह्मणको देदेवेरोगीको निरोगता प्राप्त होनेकी शांति यह कही है ॥ इति भरणीदानशांतिविधिः ॥ २ ॥

अथ कृत्तिकादानशांतिर्लिख्यते ॥ अग्निदोपसमुद्ध-  
ता कृत्तिकासंभवारुजा ॥ तदोपशमनार्थयदानमु-  
त्तममीरितम् ॥ ११ ॥ कर्पमात्रसुवर्णस्य वह्ने मूर्तिं तु  
कारयेत् ॥ तं दुलं पात्रमाधाय प्रतिमां तत्र पूजयेत् ॥ १२ ॥  
मंत्रं संलिख्य पात्रे ऽस्मिन्दानं विप्रायदापयेत् ॥ मंत्रः ॥  
कृपीटायनमस्तु भ्यं वाधां मेवि निवारय ॥ नववासर-  
संभूतां वह्नि दोपसमुद्धवाम् ॥ १३ ॥ इत्येपाकथिता  
शांतिः कृत्तिकाया निरोगिकी ॥ आयुरारोग्यतां या-  
तिवह्नि दोपविवर्जितः ॥ १४ ॥

इति कृत्तिकारोगसंभवे कृत्तिकादानशांतिविधिः ॥ ३ ॥

भाषा—कृत्तिका नक्षत्रकी दानशांति लिखते हैं ॥ अग्निदेवके दोषसे कृत्तिका नक्षत्रमें पीडा होती है ॥ तदोपशमनके वास्ते यह उत्तम दान करना चाहिये १ तोला सुवर्णकी अग्निदेवकी मूर्ति बनवाके एक पात्रमें मलोक्त कृत्तिकाका मंत्र लिखके उसमें तं दुल डालके तं दुलके ऊपर मूर्ति रखके पूजनकरके ब्राह्मणको देदेवे

- भांपा—अश्विनीसे लेके सज्जाईस नक्षत्रोंमें होनेवाले रोगकी शांति लिखते हैं । अश्विन्यादिक नक्षत्रोंके रोज शरीरमें ज्वर दाहादिक पीड़ाहो तबतक नक्षत्र दोपशांतिके बास्ते और ज्वरतापादिकी शांतिके बास्ते मनुष्य विधिपूर्वक दानकरे, दान करनेसे रोगशांति उसीवक्त होजातीहै, और औपधियोंके प्रयोग फल देनेवाले हो जाते हैं । अब आदिमें अश्विनीनक्षत्रमें हुये रोगकी शांतिके बास्ते दानविधि लिखते हैं ॥ आदित्यपुराणमें लिखा है ॥ एक सप्तेद घोड़ाको मैंगके तदनंतर ४ मासे सुवर्णकी सूर्यमूर्ति चनवाके कांसीके पात्रमें रत्नके घृतसे पूर्ण करके ३२ बार मंत्र पढ़के उसमें अपना मुख देखके फिर मूलोक मंत्र ३ बार पढ़के ब्राह्मणको अथ सहित दानदेवे, दान देनेमें सर्व पीड़ासे निवृत्त होके रोगी-स्नान करलेता है ॥ इत्यश्विनीदानशांतिविधिः ॥ १ ॥

अथ भरण्यारोगसंभवेभरणीदानशांतिः ॥ उक्तं च विष्णुधर्मोत्तरे ॥ द्विप्रस्थपरिमाणेनकांस्यपात्रं चकारयेत् ॥ सार्वद्विप्रस्थत्रयं नीत्वा तिलं श्यामं सु-निर्मलम् ॥ ७ ॥ धर्मराजस्वरूपं च कृत्वा सर्वण-निर्मितम् ॥ कर्पमात्रप्रमाणेन तिलपात्रे निवेशयेत् ॥ ८ ॥ मंत्रेणानेन तत्पात्रं कृपणविप्रायदापयेत् ॥ मंत्रः ॥ धर्मराजनमस्तुभ्यमेकादशदिनात्मकीम् ॥ पीडां वास्यदेव वयमदोपसमुद्ध्रवाग् ॥ ९ ॥ इति याक-थिताशांतिर्भरण्यानेह जात्मकी ॥ १० ॥ इति भ-

अथमृगशीर्पिंरोगसंभवेमृगशीर्पिदानशान्तिलिख्यते ॥  
 मृगशीर्पिंभवेद्रोगचंद्रदोपसमुद्भवः ॥ तज्ज्वरश-  
 मनार्थायशांतिदानंसमाचरेत् ॥ १९ ॥ कांस्यपा-  
 त्रंसमादायप्रस्थद्यप्रमाणकम् ॥ तन्मध्येपायसं  
 धृत्वाचंद्रमूर्तिंचधारयेत् ॥ पंचकर्पप्रमाणेनरुक्मे-  
 णनिर्मितांवराम् ॥ २० ॥ मंत्रः ॥ समुद्रतन-  
 योदेवमासवाधांनिवारय ॥ रोहिणीपतयेतुभ्यंद्वि-  
 जरूपायतेनमः ॥ २१ ॥ इमंमंत्रंसमुच्चार्यदशभिः  
 प्रणतिंचरेत् ॥ ब्राह्मणायददेहानंरोगंनिरुक्ततांन-  
 येत् ॥ २२ ॥ इति मृगशीर्पिदानशांतिविधिः ॥ ५ ॥

भापा—इसके अनंतर मृगशिर नक्षत्रमें रोग होनेसे मृगशिरकी  
 शांति लिखते हैं । चंद्रमाके दोपसे मृगशिर नक्षत्रमें ज्वरादिक  
 रोग होते हैं तदोपके शमनके वास्ते शांतिदान करना चाहिये,  
 उद्दोसेरवजनमें कासीका पात्र लाकर उसकोपायस अर्थात् खीरसे  
 पुर्णकरके, तदनंतर अपांच तोले सुवर्णकी चंद्रमाकी मूर्ति बन-  
 वाके उसमें पात्र रखके मूलोक मंत्र दशवार पढ़के, फिर नम-  
 म्फार करके ब्राह्मणको दे देवे यह दान देनेसे रोगी रोगसे मुक्त  
 हो जाता है ॥ इति मृगशिरदानशांतिविधिः ॥ ५ ॥

अथाद्र्वयांरोगसंभवेचाद्र्वदानशांतिलिख्यते ॥ लिं-  
 गपुराणे ॥ आद्र्वयांजायतेरोगःशिवदोपसमुद्भवः ॥  
 तज्ज्वरशमनार्थायदानंशांतिंचकारयेत् ॥ २३ ॥  
 श्वेतवर्णवृपंनीत्वाधूम्रवस्त्रेणछादितम् ॥ कर्पमानेन

यह कृत्तिकाकी शांति मुनियोंने कहा है इसके करनेसे मनुष्य चाहिके दोपसे रहित होके नीरोग आयुको प्राप्त होजाता है ॥

इति कृत्तिकादानशांतिविधिः ॥ ३ ॥

अथरोहिण्यारोगसंभवेरोहिणीदानशांतिलिख्यते ॥  
उक्तंचत्रहाँडे ॥ विप्रदोपाच्चरोहिण्यांज्वरोभवति  
दारुणः ॥ तदोपंशमनार्थीयशांतिदानं समाचरेत्  
॥ १६ ॥ पीतांगात्रहृणोमृतिंसुवर्णस्यचकारयेत् ॥  
पीतवस्त्रमंमंत्रंसंलिख्यतांचआदयेत् ॥ १६ ॥  
टंकमात्रसुवर्णस्यप्रतिमात्रहृणःशुभा ॥ मंत्रः ॥  
पितामहनमस्तुभ्यंसप्तवासरसंभवाम् ॥ निवारयम-  
हाभागपीडाभेतांज्वरोद्भवाम् ॥ १७ ॥ त्राहृणायद-  
देदानंरोगंनिर्मुक्ततानयेत् ॥ १८ ॥

इति रोहिणीरोगसंभवेरोहिणीदान-  
शांतिविधिः ॥ ४ ॥

भाषा—इसके अनंतर रोहिणी नक्षत्रकी दानशांति लिखते हैं ॥  
हाण्डपुराणमें लिखा है ॥ त्राहृणके दोपसे रोहणी नक्षत्रमें पीडा  
तीहै तदोपकी शांतिके वास्ते यह दानकरना चाहिये पीछा  
मैंगाके और त्रहृणकी मृत्ति २ मासे सुवर्णकी कराके  
हाथ भर पीछा बद्ध लेके उसपे मृठोक्त मंत्र लिखके उससे मृत्ति  
गाढ़ादित्तकरके त्राहृणको गौ सहित दे देवे, यह दान देनेसे  
गी रोगसे निर्मुक्त होजाता है ॥

इति रोहणीदानशांतिविधिः ॥ ४ ॥

ब्रजेत् ॥ ३१ ॥ इतिपुनर्वसुदानशांतिविधिः ॥ ७ ॥

भाषा—पुनर्वसु नक्षत्रम् रोग होनेसे पुनर्वसुनक्षत्रकी शांति लिखते हैं, स्कंदपुराणमें लिखा है—अदिति देवतानकी माताके दोषसे पुनर्वसुनक्षत्रमें रोग होता है तदोपशमनके वास्ते शांति करानी चाहिये, २ दो तोले सुवर्णकी मूर्ति बनवाके रोगीकी शरीरके उन्मान तीन तारका कच्चा सूत लेके उस मूर्तिको वेटन करदे, फिर लालबख्से मूर्ति ढकके रोगी अपने दक्षिणहाथमें लेके मूलोक्तमंत्र सप्तवार पढ़के नमस्कार करके दक्षिणदिशाकी तरफ मुखकरके ब्राह्मणको दान देदेवे, ऐसे पुनर्वसुकी शांतिकरनेसे रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है ॥ इति पुनर्वसुदानशांतिविधिः ॥ ७ ॥

अथपुष्येरोगसंभवेपुष्यदानशांतिर्लिख्यते ॥ हरि-  
वंशपुराणे ॥ पुष्यक्षेजायतेरोगोगुरुब्राह्मणदोपतः ॥  
शांतिदानं समाचकेज्वरपीडादिशांतये ॥ ३२ ॥  
बृहस्पतेः कृतां मूर्तिकर्पमात्रसुवर्णतः ॥ चणकद्वि-  
दलप्रस्थसप्तकेपरिधायच ॥ ३३ ॥ श्वेतवस्त्रेलि-  
खेन्मंत्रं हरिद्राग्निः सुधीर्नरः ॥ ३४ ॥ मंत्रः ॥ बृह-  
स्पतेसुराचार्य्यनमस्तेपुष्यनायक ॥ सप्तवासरजां  
बाधांनिवारयसुदारुणाम् ॥ ३५ ॥ सूत्रं शरीरमा-  
त्रेणपीतिं तत्रनिवेशयेत् ॥ पश्चिमाभिसुखो भूत्वा-  
दानं दद्वाह्विजातये ॥ ३६ ॥ रोगोनिर्मुक्तांया  
तिगुरुपुष्यस्यदानतः ॥ इतिपुष्यदानशांतिविधिः ॥ ८ ॥

भाषा—पुष्यनक्षत्रमें रोग होनेसे पुष्यकी शांति लिखते हैं ॥ हरिवंशपुराणमें लिखा है—गुरुके दोषसे और ब्राह्मणके दोषसे

रुक्मेणशिवमूर्तिप्रकल्पयेत् ॥ २४ ॥ मंत्रः ॥ वृ-  
पाहृष्टनमस्तुभ्यंशूलिनेवरदायिने ॥ आद्रारोगनि-  
वृत्यर्थंरुद्रवाधांनिवारय ॥ २५ ॥ इत्येकादशभिर्म-  
त्रैर्जस्वाचप्रणमेच्छवम् ॥ दत्त्वादानंचविप्रायरोगा-  
न्निर्मुक्तांवजेत् ॥ २६ ॥ इत्याद्रादानशांतिविधिः ॥ ६ ॥

भाषा—आद्रानशत्रमें रोग होनेसे आद्राकी शांति लिखते हैं ॥  
लिंगपुराणमें लिखा है ॥ शिवके दोपसे आद्रामें रोग होता है  
तदोपशमनके बास्ते शांतिदान करना चाहिये सुपेद वर्णका  
बैठ मँगाके उसको खाखीवस्त्र उढ़ादे फिर १ तोला सुव-  
र्णकी शिवकी मूर्ति बनवाके वृपभमें स्थापनकरके मूलोक मंत्र  
एकादशवार पढ़के नमस्कार करके ब्राह्मणको देदेवे यह दान  
देनेसे रोगी रोगसे छुटजाता है ॥ इत्याद्रादानशान्तिविधिः ॥ ६ ॥

अथपुनर्वसौरोगसंभवेपुनर्वसुदानशांतिलिंख्यते ॥  
स्कंदपुराणे ॥ पुनर्वसौभवेद्रोगोदेवदोपसमुद्रवः ॥  
तज्ज्वरशमनार्थायदानशांतिंचकारयेत् ॥ २७ ॥  
, पलार्द्धपरिमाणेनसुवर्णप्रतिमांशुभाम् ॥ स्वशरी-  
रानुसारेणसूत्रेणपरिवेष्येत् ॥ २८ ॥ रुक्मट्टेनसं-  
छायद्यहस्तेनीत्वानरःसुधीः ॥ मंत्रः ॥ देवतेदिति-  
रूपेत्वांनमामिकामरूपिणीम् ॥ सतत्वासरजांवाधां  
निवारयशुभान्तने ॥ २९ ॥ इतिमंत्रंसमुच्चार्यसत-  
भिःप्रणतिंचरेत् ॥ द्विजायचददीदानंदक्षिणाभिमु-  
खोभवेत् ॥ ३० ॥ एवंपुनर्वसोःशतेरोगनिर्मुक्तां

रोग होता है तदोषकी शांतिके वास्ते और मृत्युयोगकी शांतिके वास्ते दान कराना, चाहिये ४ चार तोले सुवर्णकी शेष नागकी मूर्ति बनवाके उसपर १२ अंगुलका सपेद वस्त्र आच्छादित करके रोगीके शरीरके अनुमान सूत लेके नागके पुच्छको वेष्टित करदे फिर एक पत्र लेके उसमें मूलोक मंत्र लिखके तीन सेर चाँचल ढालके उसमें शेषनागको स्थापनकरके उत्तराभिमुखहोके तपस्वी ब्राह्मणको देदेवे इस दानके करनेसे रोगी मृत्युयोगसे छूटके बहुत वर्षोंतक जीवता है ॥ इत्याश्लेषादानशांतिविधिः ॥ ९ ॥

अथमघायांरोगसंभवेमघादानशांतिर्लिख्यते ॥ उ-  
त्तंचगारुडे ॥ मघायांजायतेपीडाज्वरदाहसमन्वि-  
ता ॥ विंशतिवारसंभूतापितृदोपसमुद्धवा ॥  
तदोषविनिवृत्यर्थपितृशांतिसमाचरेत् ॥ ४२ ॥  
पलतुर्यप्रमाणेनस्वर्णमूर्तिंचकारयेत् ॥ श्वेतवस्त्रे  
लिखेन्मंत्रंछादयेत्तेनतन्मुखम् ॥ ४३ ॥ मंत्रः ॥  
विंशतिवारजांपीडांनिवारयगदाधर ॥ पितृदेवन-  
मस्तुभ्यंशरीरारोग्यतांकुरु ॥ ४४ ॥ मघानक्ष-  
त्ररोगस्यशांतिर्दानविधानतः ॥ द्विजायऋकृपाठ-  
कायदानवृद्धायदापयेत् ॥ ४५ ॥

इति मघादानशांतिविधिः ॥ १० ॥

भाषा—मघानक्षत्रमें रोग होनेसे मघाकी शांति लिखते हैं गरुड पुराणमें लिखा है.—पितृदोषसे मघानक्षत्रमें ज्वरदाहादिककी पीडा २० दिन रहनेवाली होती है. तदोष शमनताके वास्ते

पुष्य नक्षत्रमें ज्वरादिक पीडा होतीहै; तदोपके शमनताके वास्ते शांति; दान करना चाहिये । एक तोला सुवर्णकी बृहस्पतिकी मूर्ति बनवाके पीछे एक सुपेदवश्वपर हल्दीसे मूलोक्त मंत्र लिखके सातसेर चनेकी दाल उसमें डालके उसपर मूर्ति स्थापन करे फिर अपने शरीरके अनुमान पीडा सूत्र नापके उसी चनेकी दालमें रखके पश्चिमकी तरफ मुखकरके ब्राह्मणको दान देदेवे । ऐसे बृहस्पतिके दानसे रोगी रोगसे मुक्त हो जाताहै ॥ इति पुष्यदानशांतिविधिः ॥ ८ ॥

अथाश्लेषपायांरोगसंभवआश्लेपादानशांतिर्लिख्यते ॥  
उक्तंचपाद्येपातालखंडे ॥ आश्लेपायांभवेद्रोगोनागदो-  
पसमुद्भवः ॥ तदोपशमनार्थायमृत्युयोगप्रशांतिये  
॥ ३७ ॥ शेषस्यप्रतिमाकुर्यात्पलमात्रसुवर्णतः ॥  
द्वादशांगुलमानेन वेतवस्त्रेण छादयेत् ॥ ३८ ॥ श  
रीरसूत्रमानेन पुच्छं च परिवेष्टयेत् ॥ प्रस्थव्ययप्रमाणे  
चतं छुलेपरिधायच ॥ ३९ ॥ तन्मध्येलेखयेन्मंत्र-  
मुत्तराभिसुखोविशन् ॥ मंत्रः ॥ पातालवासिनेतुभ्यं  
मृत्युयोगादिशांतये ॥ नमोऽश्लेपापतेदेवशेषनाग  
प्रसीदमे ॥ ४० ॥ इत्येतत्क्रियतेदानंत्रात्मणायतपस्ति-  
ने ॥ मृत्युयोगाद्विमुच्येतपरमायुः सजीवति ॥ ४१ ॥

इत्याश्लेषपादानशांतिविधिः ॥ ९ ॥

भाषा—आश्लेषानक्षत्रमें रोग होनेसे आश्लेपाकीशांतिलिखते हैं. पश्चपुराणके पातालखंडमें लिखा है—सर्पोंके दोषने अश्लेषामें

सुवर्णकी मूर्ति बनवाके लाल वस्त्रपर मूलोक्त मंत्र लिखके  
मूर्तिको उससे आच्छादित करके उत्तराभिमुख ब्राह्मणको दान  
करके गौसहित दे देवे यह दान देनेसे रोगी मृत्युयोगसे छूटके  
और बड़ी आयुको प्राप्त होता है ॥

इति पूर्वफाल्गुनीशांतिविधिः ॥ ११ ॥

अथोत्तरफाल्गुन्यांरोगसंभवे चोत्तरफाल्गुनीदान-  
शांतिलिंख्यते ॥ उत्तंचनृसिंहपुराणे ॥ रोगोद्युत्तर-  
फाल्गुन्यांराक्षसीदोपसंभवः ॥ सप्तवासरजापीडा  
ज्वरादियुक्तदारुणा ॥ ६१ ॥ तदोपशमनार्थायिशां-  
तिदानं समाचरेत् ॥ दध्योदनंमहाश्रेष्ठबहुशर्करया-  
न्वितम् ॥ ६२ ॥ ब्राह्मणान्सप्तसंख्याकान्भोजनं  
कारयेद्युधः ॥ पत्रेऽश्वत्थस्यसंलिख्यमंत्रंलाक्षारसेनच  
॥ ६३ ॥ दक्षिणस्यांचदिग्भागेतडागेजलसंक्षये ॥  
रोगिणंदर्शयित्वाचक्षिपेज्वरप्रशांतये ॥ ६४ ॥  
मंत्रः ॥ भगदेवपतेतुभ्यंनमःसलिलवासिने ॥ सप्तवा-  
सरजापीडानिवारयप्रसीदमे ॥ ६५ ॥ रोगान्निरुक्त-  
तांयातिचिरजीवीभवेन्नरः ॥ अल्पाद्विसुच्यतेरोगी  
भगदेवप्रसादतः ॥ ६६ ॥ इत्युत्तरफाल्गुनीदान-  
शांतिविधिः ॥ १२ ॥

भाषा—उत्तरफाल्गुनीनक्षत्रमें रोग होनेसे उत्तरफाल्गुनी-  
की शांति लिखतेहैं—नृसिंहपुराणमें लिखाहै—राक्षसके दोषसे  
उत्तरफाल्गुनीनक्षत्रमें ज्वरादिक पीडा उ रोज रहनेवाली

पितृशांति करानी चाहिये. १ तोले सुवर्णकी पितृमूर्ति वनवाके सपेद वस्त्रपर मूलोक्त मंत्र लिखके उस्से मूर्तिका मुख आच्छादित करके विधानपूर्वक वेदके पढे हुए वृद्ध ब्राह्मणको दान करके देवे ॥

इति मधादानशांतिविधिः ॥ १० ॥

अथपूर्वाफालगुन्यारोगसंभवेपूर्वाफालगुनीदानशांति-  
लिख्यते ॥ रोगःस्यात्पूर्वाफालगुन्यादेवदोपसमुद्भवः ॥  
मृत्युयोगः समाख्यातस्तदोपशमनायच ॥ ४६ ॥ शांतिदानं समाचकेगोदानं दानमुत्तमम् ॥  
रक्तवर्णमयीं धेनुं रक्तवस्त्रेण छादिताम् ॥ ४७ ॥  
भगस्य प्रतिमां कुर्यात् सुवर्णपलमात्रतः ॥ रक्तवस्त्रेलि-  
खेन्मंड्मूर्तिं च पारिछादयेत् ॥ ४८ ॥ मंत्रः ॥ भगा-  
यचनमस्तुभ्यं मृत्युद्भवकलेवर ॥ मृत्युयोगभवां  
बाधां निवारय सिमेप्रभो ॥ ४९ ॥ उत्तराभिमुखं  
विप्रं कृत्वादानं प्रदापयेत् ॥ मृत्युयोगादिमुच्येत  
परमायुर्भवेत्वरः ॥ ५० ॥

इति पूर्वाफालगुनीदानशांतिविधिः ॥ ११ ॥

भाषा—पूर्वाफालगुनी नक्षत्रमें रोग होनेसे पूर्वाफालगुनीकी शांति लिखते हैं. भगदेवके दोपसे होनेवाला रोग पूर्वाफालगुनी नक्षत्रमें होता है मृत्युयोग क्षियाँने वर्णन कराहै तदोपरामनके वास्ते गौका उत्तम दान शांति कराना चाहिये लाल रंगकी गौ लाके लाल वस्त्रसे आच्छादित कर दे फिर १ तोले-

दसपे १० तोले सुवर्णकी सुन्दर मूर्ति बनवाके स्थापन करके दक्षिण हाथमें तंडुल लेके ३ तीन वार मूलोक्त मंत्र पढ़के हस्तीपर गेरे, फिर कंबलसे आच्छादन करके पुर्वको मुख करके ब्राह्मणको दे देवे यह दान करनेसे रोगी निरोगताको प्राप्त होजाता है ॥ इति हस्तशांतिविधिः ॥ १३ ॥

अथचित्रायां रोगसंभवे चित्रादानशांतिर्लिख्यते ॥  
 चित्रायांजायतेरोगोविप्रद्रोहसमुद्भवः ॥ रुद्रवासर-  
 जापीडातदोषशमनायच ॥ ६२ ॥ शांतिदानकरो  
 धीमात्रोगनिमुक्ततांत्रजेत् ॥ धूम्रवर्णं वृपंनीत्वागो-  
 ध्रुमोन्मानसंख्यकम् ॥ ६३ ॥ ताप्रपात्रेनिधायात्ररक्त-  
 वस्त्रेणछादयेत् ॥ तद्वस्त्रेलिख्यतेमंत्रंनमस्कृत्यवि-  
 धानतः ॥ ६४ ॥ मंत्रः ॥ त्वापूर्वदेवनमस्तुभ्यं चित्रे-  
 शायनमोस्तुते ॥ रुद्रवासरजंरोगंनिवारयसदाप्रभो ॥  
 ॥ ६५ ॥ ब्राह्मणायददौदानमीशानाभिमुखोनरः ॥  
 त्वापूर्वदानविधिः प्रोक्तोनराणां रोगमुक्तये ॥ ६६ ॥

इति चित्रादानशांतिविधिः ॥ १४ ॥

भाषा-चित्रामें रोग होनेसे चित्राकीशांतिलिखते हैं, ब्राह्मणके द्वारा हसे उत्पन्न होनेवाला रोग चित्रानक्षत्रमें होता है वह पीड़ा ११ रोज रहती है तदोषकी शांतिके बास्ते बुद्धिमान् रोगी दान करनेसे रोगसे छूट जाता है सत्र्वीरंगका बैल मङ्गाके फिर १ मन्त्र भर गेहूं तांवाके पात्रमें भरके लालबख्तपर मूलोक्त मंत्र लिखके उसपर ढकके ईशानदिशांकीतरफ मुख करके ब्राह्मणको

होती है, तदोषके शमनके वास्ते शांति करानी चाहिये, ७ सात ब्राह्मणोंको दहीभात चीनी भोजन कराना चाहिये, फिर पीपलवृक्षके पत्तापर लाखके रससे मूलोक मंत्र लिखके रोगी-को दिसाके दक्षिणदिशामें सूखेतालाबामें गेरदेवे ऐसे यत्न करनेसे रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है और बहुत काल जीवता है ॥

इत्युत्तरफाल्गुनीदानशांतिविधिः ॥ १२ ॥

अथहस्तेरोगसंभवेहस्तदानशांतिर्लिख्यते ॥ उत्तं च भविष्योत्तरे ॥ हस्तक्षेत्रायतेरोगोरविदोपसमुद्रवः ॥ पक्षवासरजापीडाज्वरदाहातिदारुणा ॥ ६७ ॥ तदोपशमनार्थयशांतिदानं समाचरेत् ॥ द्विरदं गजमादाय सुर्यमूर्तिविराजितम् ॥ ६८ ॥ दशकर्षप्रमाणेन सुवर्णप्रतिमाशुभा ॥ ततस्तं डुलमादाय दक्षिणेचशुभेकरे ॥ मंत्रं त्रिभिः समुच्चार्यं गजोपरिपरिक्षिपेत् ॥ ६९ ॥ मंत्रः ॥ [नमस्तु अर्यं गजं-द्रायं द्विरदाय जयेपिणे ॥ पक्षवासरजापीडानिवारय प्रसीदमे ॥ ६० ॥ कंवलेन समाच्छाद्य दद्याहानं द्विजायच ॥ पूर्वाभिमुखमास्थाय नरो ने रुज्यतां त्रिजेत् ॥ ६१ ॥ इति हस्तदानशांतिविधिः ॥ १३ ॥

भाषा—हस्तनक्षत्रमें रोग होनेसे हस्तकीशांति लिखरहेहैं, सूर्यके दोपसे हस्तनक्षत्रमें रोग होता है रोग उत्पन्न होके पंद्रह दिनतक ज्वरदाहादिककी दारुण पीडा रहती है, तदोप-... वास्ते शांति करनी चाहिये, दोदांवका हाथी मँगाके

२१६३<sup>०</sup>

भापाटीकासपेतम् ।

( २०१ )

फिर १ वीजनापर मूलोक मंत्र लिखके वहभी वृषभपर रखके वायुकोणमें स्थित होके ब्राह्मणको दान दे देवे यह दान देनेसे रोगी रोगसे छूटके बहुत दिनतक जीवता है ॥

इति स्वातिशांतिविधिः ॥ १५ ॥

अथविशाखायांरोगसंभवेविशाखादानशांतिर्लिख्यते उक्तंचस्कंदपुराणे ॥ विशाखायांभवेद्रोगोदेवाश्यो-दोपसंभवः ॥ तिथिवासरजापीडातदोपशमनाय च ॥ ७२ ॥ शकाश्योःकारयेन्मूर्तिंकर्पमात्रसुवर्ण-जाम् ॥ चतुःप्रस्थप्रमाणेनकांस्यपात्रंचकारयेत् ॥ ७३ ॥ पञ्चप्रस्थप्रमाणेनतिलश्वेतंनिधारयेत् ॥ मंत्रंतत्रलिखेद्धीमान्पीतरक्तेचवाससी ॥ पूर्वाभिमुख आविश्यदद्यादानंद्विजातये ॥ ७४ ॥ मंत्रः ॥ देवेन्द्रायनमस्तुभ्यमग्नेत्रह्यसाक्षिणे ॥ पक्षवासरजापीडां निवारयप्रसीदमे ॥ ७५ ॥ ऊर्ध्वाधोमुखमास्थायनम-स्कारद्वयंचरेत् ॥ रोगीनिर्मुक्तांयातिविशाखादान-शांतितः ॥ ७६ ॥ इतिविशाखादानशांतिविधिः ॥ १६ ॥

भापः—विशाखामें रोग होनेसे, विशाखाकी शांति लिखते हैं ॥ स्कंदपुराणमें लिखा है इंद्रके और अग्निके दोपसे विशाखा-नक्षत्रमें रोग होता है वह पीडा १५ दिनतक रहती है तदोपकी शांतिके बास्ते १ एक तोला सुवर्णकी इंद्रकी और अग्नि-की मूर्ति बनवाके १ सेर वजनका कांसेका पात्र लेके उसमें ५ सेर सपेद तिल घाँलके उसमें मूर्तियोंको स्थापन करके फिर

बृप्त सहित दान करके देवे मनुष्योंके रोग दूर होनेके बासे चित्राकी दानविधि यह कहीहै ॥ इति चित्राशांतिविधिः ॥

अथस्वात्यां रोगसंभवे स्वातिदानशांतिर्लिख्यते ॥  
उक्तंचवायुपुराणे ॥ स्वात्यांसंजायतेपीडावायुदो-  
पसमुद्भवा ॥ मृत्युयोगःसमाख्यातस्तस्मिवो-  
गीनजीवति ॥ ६७ ॥ शतौपधीकृतेवापिविना  
शांत्यानजीवति ॥ मृत्युयोगविनाशायशांतिदानं  
समाचरेत् ॥ ६८ ॥ सुंदरंबृप्तभंनीत्वासितश्या-  
मंमहोज्ज्वलम् ॥ शतप्रस्थप्रमाणेनतंडुलंसितव-  
स्थके ॥ ६९ ॥ बृप्तपृष्ठेसमाधायधूम्रवस्त्रपरिवृत-  
म् ॥ वायुकोणेसमास्थायव्यजनेमंत्रमालिखेत् ॥  
॥ ७० ॥ मंत्रः ॥ अंजनीपतयेतुभ्यंवायवेस्वामि-  
नेनमः ॥ मृत्युयोगभवांवाधां निवारयप्रसीदमे ॥  
द्विजायचददेहानंपरमायुः सजीवति ॥ ७१ ॥ इति  
स्वातिदानशांतिविधिः ॥ १६ ॥

भाषा—स्वातिनक्षत्रमें रोग होनेसे स्वातीकी शांति लिखते हैं ॥ वायुके दोपसे स्वातिमें पीडा होती है यह मृत्युयोग शान्त्रमें वर्णन किया है शत औपधीके करनेसे भी वगैर शांतिके स्वातिमें होनेवाली पीडा शमन नहीं होती है इसीवास्ते मृत्युयोग दूर करनेको शांतिदान करना चाहिये चटुत सुन्दर कुछ शयाम कुछ सपेद ऐसा वैल मैंगावे फिर २ ॥ अदाई मन चावलसपेद वस्त्रमें वांधके वैलकी पीठपे रखके सासी वस्त्र उसपे और ढकडे

पूर्वक शांति करनेसे रोगी रोगसे मुक्त होजाता है॥ इत्यनुराधा-  
शांतिविधिः ॥ १७ ॥

अथज्येष्ठायारोगसंभवेज्येष्ठादानशांतिर्लिख्यते ॥  
उक्तंचशक्रयामले ॥ ज्येष्ठायांसंभवोरोगोमृत्युयोगस-  
गाह्यः ॥ नजीवतिकदारोगीदानशांत्यादिभिर्वि-  
ता ॥ ८२ ॥ तद्वोपशमनार्थायशांतिदानंसमाचरेत् ॥  
तर्पमात्रं सुवर्णं च पीतवस्त्रे निवेशयेत् ॥ तन्म-  
येलेखयेन्मंत्रंपूर्वाभिमुखआविशन् ॥ ८३ ॥  
त्रिः ॥ शक्रायदेवदेवायनमस्तुभ्यं प्रसीदमे ॥  
मृत्युयोगभवांवाधांनिवारयशचीपते ॥ ८४ ॥  
इतिगुप्तकृतंदानंरोगान्मृत्योर्बिमुंचति ॥ दीर्घायुर्जी-  
वतेलोकेदानशांतिप्रभावतः ॥ ८५ ॥

इतिज्येष्ठादानशांतिविधिः ॥ १८ ॥

भाषा—ज्येष्ठानक्षत्रमें रोग होनेसे ज्येष्ठाकी शांति लिखते हैं-  
शक्रयामलमें लिखा है—ज्येष्ठानक्षत्रमें यदि रोग उत्पन्न होवे  
वह मृत्युयोगकी माफिक होता है. कगैर दानशांतिके रोगी  
काअच्छा होना असंभव है. इसबास्ते तद्वोपशमनाके हेतु शांति  
करना चाहिये, एक पीला कपड़ा लेके उसपर मूलोक मंत्र  
लिखके तोला सुवर्ण चांधके पूर्वको मुखकरके बालणको दे देवे  
यह गुप्तदान करनेसे रोगी रोगसे मुक्त होजाता है और दीर्घायु  
होजाती है ॥ इति ज्येष्ठादानशांतिविधिः ॥ १८ ॥

अथमूलेरोगसंभवेमूलदानशांतिर्लिख्यते ॥ उक्तंचा-  
दिपुराणे ॥ मूलेसञ्चायतेरोगोद्यनाचारसमुद्द्रवः ॥

पीला और लाल वस्त्रपर मूलोक्मंत्र लिखके मूर्तियोंको उठाके पूर्वको मुख करके ब्राह्मणको देदेवे तत्पथ्वात् ऊपरको मुख करके और नीचेको मुख करके दो नमस्कारकरे ऐसे विशाखाकी शांति करानेसे रोगी रोगसे मुक्त होजाता है ॥ इति विशाखाशांतिः १६ ॥

अथानुराधायांरोगसंभवेऽनुराधादानशांतिर्लिख्यते ॥  
 रोगःस्यादनुराधायांमित्रदेवस्यदोपतः ॥ पष्टिवा-  
 सरजावाधातदोपशमनायतु ॥ ७७ ॥ कर्पाद्विपरि-  
 माणेनमूर्तिरुक्मेणकारयेत् ॥ विधिनामित्रदेवस्य  
 रक्तवस्त्रेणछादितम् ॥ ७८ ॥ प्रस्थत्रयप्रमाणेनकां-  
 स्यपात्रंचकारयेत् ॥ तत्रमंत्रंलिखित्वाचदधिप्रस्थं  
 समावपेत् ॥ ७९ ॥ उत्तराभिमुखोभूत्वात्राह्लणाय  
 प्रदापयेत् ॥ मंत्रः ॥ मित्रदेवनमस्तुभ्यमनुराधाप-  
 तयेनमः ॥ निवारयसिमेवाधांपष्टिवासरसंभवाम् ॥  
 ॥ ८० ॥ कुर्याच्छान्तिविधानेनरोगान्निर्मुक्तान-  
 येत् ॥ ८१ ॥ इत्यनुराधादानशांतिविधिः ॥ १७ ॥

भाषा—अनुराधानशब्दमें रोग होनेसे अनुराधाकी शांति लि-  
 खतेहैं मित्रदेवके दोपसे अनुराधामें रोग होता है ६० दिनतक  
 पीड़ा रहतीहै वहोपकी शमनताके बास्ते ६ मासे सुर्वर्णकी  
 मूर्ति मित्रदेवकी बनवाके लाल वस्त्रसे आच्छादित करके फिर  
 चीनसेरके बजनमें कांसीका पात्रलेके उसमें मूलोक्मंत्र लिखके  
 और दही घालके उत्तरकीतरफ मुखकरकेब्राह्मणको देदेवेविधान-

पावनरूपायव्यापिनेपरमात्मने ॥ मृत्युयोगभवां  
बाधांनिवारयचकेशव ॥ ९२ ॥ दानंदत्तवात्रात्मणाय  
मृत्युबन्धाद्विमुचति ॥ मृत्युयोगबृत्तादानात्परमा-  
युःसजीवति ॥ ९३ ॥ इति पूर्वापाददानशांतिविधिः २० ॥

भाषा—पूर्वापादनक्षत्रमें रोग होनेसे पूर्वापादकी शांति लिख-  
तेहै कूर्मपुराणमें लिखाहै—जलके दोपसे पूर्वापादनक्षत्रमें रोग  
मृत्युयोगकी माफिक होताहै तदोपकी रामनताके बास्ते ५  
शांत हाथका सपेदवस्थ लेके उसपर मूलोक्त मंत्र लिखके ७  
सात सेर चावल उसमें वांधके पश्चिमदिशाकी तरफ मुख करके  
अथम जलका पुजन करके ब्राह्मणको दान देनेमें मृत्युकी बाधासे  
रोगी छूटके बहुत दिनतक जीवताहै ॥

इति पूर्वापादशांतिविधिः ॥ २० ॥

अथोत्तरापादेरोगसंभवेरोगदानशांतिर्लिख्यते ॥

ग्रीगःस्यादुत्तरापादेशाद्वलोपसमुद्धवः ॥ मासपीडा  
समुद्धूतातदोपशामनायच ॥ ९४ ॥ पलद्वयप्रमाणे-  
नसुवण्णनचकारयेत् ॥ प्रतिमांविश्वदेवस्यश्वेतवस्त्र-  
पारिवृताम् ॥ ९५ ॥ दशप्रस्थानुमानेनसिततंडुल-  
मुत्क्षेपेत् ॥ लिखेन्मंत्रं चतत्रैवपश्चिमाभिसुखोवसन्  
॥ ९६ ॥ मंत्रः ॥ नमोविश्वप्रवौधायविश्वदेवनमो-  
स्तुते ॥ मासोद्धवमहापीडांनिवारयसनातन ॥ ९७ ॥  
ब्राह्मणायददेहानंरोगंनिरुक्ततानयेत् ॥ इत्युत्तरा-  
पाददानशांतिविधिः ॥ २१ ॥

नववासरजापीडातदोपशमनायच ॥ ८६ ॥ पलद्व-  
यसुवर्णेननैऋतप्रतिमाकृता ॥ श्यामवस्त्रेणसंछाद्य  
दक्षिणाभिमुखोविशन् ॥ ८७ ॥ प्रस्थद्वयघृतंनी-  
त्वालोहपात्रेनिधापयेत् ॥ नवभिरुच्चरेन्मंत्रंमुखंतत्रवि-  
लोकयेत् ॥ ८८ ॥ मंत्रः ॥ नमस्तेऽत्यराजायनैऋ-  
तायकृतार्थिने ॥ नववासरजापीडांनिवास्यचतुष्टि-  
द ॥ दत्त्वादानञ्चविप्रायरोगंनिर्मुक्तानयेत् ॥ ८९ ॥

इति मूलदानशांतिविधिः ॥ १९ ॥

**भापा—**मूलनक्षत्रमें रोग होनेसे मूलकी शांति लिखते हैं आदि-  
पुराणमें लिखा है—आचाररहित रहनेसे मूलनक्षत्रमें रोग पैदा होता  
है नौरोजतक पीडा रहती है तदोपकी शांतिके बास्ते ८ तोले  
सुवर्णकी नैऋत देवकी मूर्ति बनवाके कालेवस्त्रसे आच्छादित  
करदे फिर दोसेर घृतलोहके पात्रमें धात्के दक्षिणकी तरफ मुख  
करके ९. नौवार मूलोक्त मंत्र पढ़के रोगी अपना मुख देखके  
मूर्तिसहित बाह्यणको दान देनेसे रोगी रोगसे मुक्त होजाता है॥

इति मूलशांतिविधिः ॥ १९ ॥

अथपूर्वापादेरोगंसंभवेपूर्वापाददानशांतिर्लिख्यते ॥  
उक्तंचकार्में ॥ पूर्वापादेभवेद्रोगोजलदोपसमुद्धवः ॥  
मृत्युयोगः समाख्यातस्तदोपविनिवृत्तये ॥ पञ्चह-  
स्तप्रमाणेनसितवस्त्रंसमाददेत् ॥ ९० ॥ पञ्चि-  
माभिमुखोभूत्वातंडुलंप्रस्थसतकम् ॥ तत्रेवले-  
खयेन्मंत्रंजलमादौप्रपूज्यच ॥ ९१ ॥ मंत्रः ॥ नमः

भाषा—श्रवणनक्षत्रमें रोग होनेसे श्रवणकी शांति लिखते हैं ॥ वामनपुराणमें लिखा है—माता पिताके दोषसे श्रवण नक्षत्रमें रोग होता है ११ दिनतक ज्वरातिसारकी पीड़ा रहती है, तदोषकी शांतिके बास्ते दानविधि करानी चाहिये, ब्राह्मण नियंत्रित करके सुपेद वस्त्र पहराने चाहिये, फिर ५ पांच हाथका सुपेद वस्त्र लेके उसपर मूलोक्त मंत्र लिखके फिर मृत्तिकाका कलश तंडुलोंसे पूर्ण करके १० सुपारी उसमें ढालदे और १० रुपये ढालदे फिर कलशपर वह वस्त्र ढकके पूर्वको मुख करके चंदनसे कलशका पूजन करके ब्राह्मणको दान देदेवे ऐसे दान करनेसे रोगी रोगसे छूट जाता है और बहुत दिनतक जीता है ॥ इवि श्रवणशांतिः ॥ २२ ॥

अथधनिष्ठायां रोगसंभवेधनिष्ठादानशांतिर्लिख्यते ॥  
दक्तं च भविष्योत्तरे ॥ रोगः स्याच्च धनिष्ठायामप्मान-  
समुद्धवः ॥ पक्षवासरजापीडातद्वोषशमनायच १०४ ॥  
प्रस्थत्रयप्रमाणेनकांस्थपात्रं चकारयेत् ॥ विलिष्य  
चन्दनेनैव गुप्तं कुर्या द्विधानतः ॥ १०५ ॥ तन्मध्ये  
लिख्यतं मंत्रं सुवर्णस्य शलाकया ॥ पंचप्रस्थप्रमाणे-  
नतं डुलंतत्र निक्षिपेत् ॥ १०६ ॥ इति वस्त्रेण संछा-  
द्यपश्चिमाभिमुखो भवन् ॥ रुक्ममुद्राद्यं धृत्वादानं  
दद्याद्विजातये ॥ १०७ ॥ मंत्रः ॥ वासुदेवाय देवाय  
धनिष्ठाय तेनमः ॥ पक्षवासरजापीडां निवारय वसु-  
प्रद ॥ १०८ ॥ शांतिदानकृतेनापि रोगान्त्रिमुक्तं ता-  
त्रजेत् ॥ इति धनिष्ठादानशांतिविधिः ॥ २३ ॥

भापा—उच्चरापाठनक्षत्रमें रोग होनेसे उच्चरापाठकी शांतिलिखते हैं श्राद्धकर्मके लोप करनेसे उच्चरापाठनक्षत्रमें रोग । एक मासतक पीढ़ा देनेवाला उत्पन्न होताहै तदोपके शमनके वास्ते विश्वेदेवकी मूर्ति ८ तोले सुवर्णकी बनवाके सपेद वस्त्रमें मूलोक्त मंत्र लिखके मूर्तिको उठाके एक पात्रमें १० दश सेर चाखल घालके ऊपर मूर्तिस्थापन करके पश्चिमकी तरफ मुख करके ब्राह्मणको देनेते रोगी रोगसे मुक्त होजाताहै ॥

इत्युच्चरापाठशांतिः ॥ २१ ॥

अथथ्रवणेरोगसंभवेत्रवणादानशांतिर्लिख्यते ॥  
 उक्तंचवामनपुराणे ॥ त्रवणक्षेभवेद्गोमातृपित्रो-  
 स्तुदोपजः ॥ शिववासरजापीडाज्वरातिसारसं-  
 भवा ॥ ९८ ॥ तदोपशमनार्थायशांतिदानंस-  
 माचरेत् ॥ निमंव्यब्राह्मणंथेष्टसितवस्त्रंमनोहरम् ॥  
 ॥ ९९ ॥ पंचहस्तमितंवस्त्रंमंत्रंतत्रलिखेद्धः ॥  
 सिततंडुलपूर्णचघटंमृन्मयमुत्तमम् ॥ १०० ॥  
 दशपूर्णफलंमध्येदशमुद्रासमाकुलम् ॥ पूर्वाभिमु-  
 खआविश्यचंदनेनसमर्चयेत् ॥ १०१ ॥ मंत्रः ॥  
 विष्णवेत्रवणेशायगोविंदायनमोनमः ॥ रुद्रवासर-  
 जापीडाविनाशायमहोत्कटाम् ॥ १०२ ॥ इति  
 शांत्याददेदानंत्राह्मणायविशेषतः ॥ रोगोनिर्मुक्तां  
 यातिपरमायुःसर्जीवति ॥ १०३ ॥ इति त्रवण-  
 दानशांतिविधिः ॥ २२ ॥

भाषाटीकासमेतम् । ( २०९ )

लिखते हैं जलके दोपसे शतभिपानक्षत्रमें रोग होता है ३१ दिन तक पीड़ा रहती है तदोषकी शमताके वास्ते ५ सेर पीतलका कलश मनोहर करके ३ सेर वृत वालके १ तोला सुवर्ण उसमें डालदे फिर चारों तरफ चन्दनसे लेप करके सुकालेवे उसमें मूलोक्त मंत्र लिखके सफेदवस्त्रसे आच्छादन करके उत्तरकी तरफ मुख करके ब्राह्मणको दान देवे यह दान देनेसे रोगी निरोगी होके बहुत दिनतक जीवता है ॥ इति शतभिपा दानशांतिविधिः ॥ २४ ॥

अथपूर्वाभाद्रपदेरोगसंभवेपूर्वाभाद्रपददानशांतिलिं-  
ख्यते । उत्तरं च मार्कडेये ॥ पूर्वाभाद्रपदेरोगोजायते  
जीवधातजः ॥ मृत्युयोगस्समाख्यातस्तदोपराम-  
नायच ॥ ११४ ॥ लोहपात्रं समानीयनवप्रस्थप्र-  
माणतः ॥ सतप्रस्थतिलंनीत्वाश्यामवर्णशबोपम-  
म् ॥ ११५ ॥ कृष्णवर्णमिजानीत्वाऽसितवस्त्रेण  
छादयेत् ॥ ग्राह्यं प्रस्थद्वयं तेलं तस्मिन्द्वामुखं शु-  
भम् ॥ ११६ ॥ तत्रैव सतभिमंत्रं पठित्वामापमु-  
त्क्षिपन् ॥ उत्तराभिमुखो भूत्वादानं दद्याद्विजातये  
॥ ११७ ॥ मंत्रः ॥ अजपादनमस्तुभ्यं मृत्युवाधाव्य-  
पोहक् ॥ मृत्युयोगभवांवाधांनिवारयप्रसीदमे ॥  
॥ ११८ ॥ मृत्युयोगभवाद्वागान्मुच्यतेनात्र संशयः ॥  
इति पूर्वाभाद्रपददानशांतिविधिः ॥ २५ ॥

**भाषा—**पूर्वाभाद्रपदनक्षत्रमें रोग होनेसे पूर्वाभाद्रपदकी शांति लेखते हैं मार्कडेपुराणमें लिखा है—जीवके वात करनेसे

भाषा—धनिष्ठानक्षत्रमें रोग होनेसे धनिष्ठाकी शांति लिखतेहैं भविष्योन्नरपुराणमें लिखा है—किसीका अपमान करनेसे धनिष्ठा-नक्षत्रमें रोग होता है ३५ पंद्रह रोजतक पीड़ा रहती है तदो-पकी शमनताके बास्ते ३तीनसेर वजनका कॉसेका पात्र लेके उसका मध्य चंदनसे लपतकरके सुका लेवे फिर सुर्णकी शलाकासे उस पात्रके मध्यमें मूलोक्त मत्र लिखके पांच गेर चावल बालके हरे कपड़ेसे आच्छादन करके उसमें २ सुर्णकी मुद्रा रखके पश्चिमदिशाकी तरफ मुख करके ब्राह्मणको दे देवे यह दान देनेसे रोगी रोगसे मुक्त होजाता है ॥ इति धनिष्ठादानशांतिविधिः ॥ २३ ॥

अथशतभिपायांरोगसंभवे शतभिपादानशांतिलिं-  
ख्यते ॥ शतभिपाभिधनक्षत्रेरोगःस्याब्जलदोपतः ॥  
रुद्रवासरजापीडातहोपशमनायच ॥ १०९ ॥ रीत्या-  
श्रपंचप्रस्थेनघटंकृत्वामनोहरम् ॥ प्रस्थवयंवृतंनी  
त्वाकपंस्वर्णंतुप्रक्षिपेत् ॥ ११० ॥ समंताचंदनेनैव  
लेपयेच्छुप्कमाचरेत् ॥ तत्रैवलेखयेन्मन्त्रंसितवेद्रेण  
छादयेत् ॥ १११ ॥ मन्त्रः ॥ वरुणायनमस्तुभ्यंद-  
वायवरदायिने ॥ रुद्रवासस्जापीडानिवार्यकला-  
धर ॥ ११२ ॥ उत्तराभिमुखोभूत्वादानंद्याद्विजा-  
तये ॥ नेरोग्यतांत्रजेऽनीपरमायुः सज्जावति ॥ ११३ ॥

इति शतभिपादानशांतिविधिः ॥ २४ ॥

भाषा—शतभिपानक्षत्रमें रोग होनेसे शतभिपाकी शांति

तदोपके शमनके वास्ते । सेर वजनका ताम्रपात्र लेके उसमें  
चणोंकी दाढ़ । सेर भर वालके उसपर । तोला सुवर्ण रखके  
पीला वस्त्रपर मूलोक्त मंत्र लिखके पात्र आच्छादन करदेवे फिर  
पश्चिम दिशाकी तरफ मुख करके सातवार नमस्कार करके वह  
सब वस्तु और सुवर्णकी मुद्रा ब्राह्मणको दे देवे, यह दान देनेसे रोगी  
रोगमे मुक्त हो जाता है ॥ इत्युत्तराभाद्रपदशांतिविधिः ॥ ३६ ॥

अथरेवत्यांरोगसंभवेरेवतीदानशान्तिलिङ्गयते ॥

उत्तंचत्रव्यामले ॥ रेवत्यांजायतेरोगः पर्वदोपसमुद्भवः ॥ पष्ठिवासरजापीडातदोपशमनायच ॥ ३२३ ॥

रक्तघर्णमयीधेनुपीतवस्त्रेणछादिताम् ॥ कांस्यपात्रं  
शुभंकार्यपंचप्रस्थप्रमाणकम् ॥ ३२४ ॥ कर्पमात्र-  
सुवर्णस्यपूष्णोमृतिंसमाचरेत् ॥ मंत्रंपात्रसमंतातु

चन्दनेनलिखेन्द्रुधः ॥ ३२५ ॥ मंत्रः ॥ पूषणेरेवती-  
शायदेवदेवायतेनमः ॥ पष्ठिवासरजावाधानिवारय

कृपाकर ॥ ३२६ ॥ उत्तरामिसुखोभूत्वादद्यादानं  
द्विजातये ॥ रोगीनिर्मुक्ततांयातिपरमायुः सजीव-  
ति ॥ ३२७ ॥ नक्षत्रसप्तविंशत्यांरोगेचशांतिमाचरेत् ॥

दानंदद्याद्विधानेनरोगान्निर्मुक्ततांययौ ॥ ३२८ ॥ ऋक्षे-  
पुवर्तमानेषुनित्यंदानंकरोतियः ॥ रोगंकदापि नो

पश्येत्वीरोगः सर्वदाभवेत् ॥ ३२९ ॥ आयुरारो-  
गः ॥ निर्वी सौख्यमाप्नुयात् ॥ ३३० ॥

पूर्वभाद्रपदनक्षत्रमें रोग होता है वह मृत्युयोगके माफिक मुनियोंने कहा है तदोपकी शांतिके बास्ते ९ सेर वजनमें लोहका पात्र लाके उसमें ७ सेर तिल काले भर देवै फिर एक काली बकरी लाके उसको काला कपड़ा उदाके दो सेर तिलोंका तेल एक पात्रमें धालके रोगी अपना मुख देखके ७ सात बार मूलोक्त मंत्र पढ़के ऊपरको उड्ड फैके फिर उन्नरको मुख करके लोहपात्र, बकरी, तैल सब बस्तु दान करके ब्राह्मणको देवै यह दान करनेमें रोगी रोगसे छूट जाता है उसमें कुछ मंशय नहीं ॥ इति पूर्वभाद्रपदगांतिः ॥ २५ ॥

अथोत्तराभाद्रपदरोगसंभवेतदानशांतिर्लिख्यते ॥  
 उक्लंचवायुपुराणे ॥ रोगः स्यादुत्तराभाद्रेदेवदोप-  
 समुद्रवः ॥ सतवासरजापीडातदोपशमनायच ॥ ॥ ११९ ॥ नीत्वाकपंसुवण्ठुतामपात्रंचप्रस्थकम् ॥  
 चणकद्विदलंप्रस्थंपीतव्येणविष्टितम् ॥ १२० ॥  
 रुक्ममुद्राद्यन्यस्यपञ्चिमाभिमुखोभवन् ॥ पी-  
 तवद्वेलिखेन्मंत्रसप्तभिःप्रणतिं चरेत् ॥ १२१ ॥  
 मंत्रः ॥ अहिर्वृद्धयनमस्तुभ्यमुग्रवेगनमोस्तुते ॥  
 सतवासरजापीडानिवाग्यप्रसीदमे ॥ १२२ ॥  
 ब्राह्मणायददोदानंरोगनिमुक्तत्विजेत् ॥ उत्युत्तग-  
 भाद्रपददानशांतिविधिः ॥ २६ ॥

भाषा—उत्तराभाद्रपदनक्षत्रमें रोग होनेमें उन्नराभाद्रपदकी गांति लिखते हैं, वायुपुराणमें लिखा है, देवके दोषमें उत्तराभाद्र-  
 नक्षत्रमें नातदिनवरक रहनेवाला रोग उत्पन्न जाता है

इति सप्तविंशति नक्षत्रे पुरोगसंभवे सप्तविंशति नक्षत्रदा-  
नशांतिविधिः समाप्तोऽभूत् ॥ २७ ॥

भाषा— रेवतीनक्षत्रमें रोग होनेसे रेवतीकीशांति लिखते हैं ब्रह्मयामलमें लिखते हैं पर्वदोपसे रेवतीनक्षत्रमें होनेवाला रोग ६० दिनतक तक छोफ देनेवाला होता है, तदोपकी शांतिके वास्ते लालरंगकी गौ लाके पीला बब्रसे उसको आच्छादित करके ५ पांचसे र बजनका कांसीका पात्र लेके उसमें १ तोड़ा मुवर्ण-की मर्ति पुषा देवकी वनवाके स्थापन करदेवे फिर उस पात्रके चारोंतरफ चंदनसे मन्त्र लिखके उजरको मुख करके ब्राह्मणको दान देदेवे । यह दान करनेसे रोगी रोगसे भृत्यहोके बहुत दिन तक जीता है इन सप्तविधिति ३७ नक्षत्रांमें जिम नक्षत्रमें गोगहो उमी-नक्षत्रकी शांति करनेमें गोगी तत्काल रोगमें मुक्त हो जाता है और जो पुरुष नित्य नक्षत्रांका दान करता रहता है उसके किसी समयमें रोग नहीं होता है उमरी आयु नीरोग होती है कुदुम्ब-में सुख रहता है ॥ २७ ॥

इति सप्तविंशति नक्षत्राणां शांतिविधिः समाप्तः ॥

नमाप्तोऽयं अन्यः

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—

खेमराज श्रीकृष्णदाम,

“श्रीरेणुटंबर” स्थीरपत्रम्, लेनदाती—जंतुर्द्वे

इतिसप्तविंशतिनक्षत्रेपुरोगसंभवेसप्तविंशतिनक्षत्रदा-  
नशांतिविधिः समाप्तोऽभूत् ॥ २७ ॥

**भाषा—** रेवतीनक्षत्रमें रोग होनेसे रेवतीकीशांति लिखतेहैं ब्रह्मयामलमें लिखा है पर्वदोपसे रेवतीनक्षत्रमें होनेवाला रोग६० दिनतक तकलीफ देनेवाला होता है। तदोषकी शांतिके बास्ते लालरंगकी गौ छाके पीला बन्धसे उसको आच्छादित करके १ पांचसेर बजनका कांसीका पात्र लेके उसमें १ तोला मुवर्ण- को मर्ति पृष्ठा देवकी बनवाके स्थापन करदंवे फिर उम शाश्वते चार्गाँतरफ चंटनसे मन्त्र लिखके उत्तरको मुख करके ब्राह्मणका दान दे देवे। यह दानकरनेसे रोगी रोगसे मुक्तहोकेबद्धुतदिनतक जीता है इन सप्तविंशति २७नक्षत्रांमें जिस नक्षत्रमें गोगहो उत्ती- नक्षत्रकी शांति करनेसे रोगी तत्फ़ाल रोगसे मुक्त हो जाता है और जो पुरुष नित्य नक्षत्रांका दान करता रहता है उसके किसी समयमें रोग नहीं होता है उसकी आयु नीरोग होती है कुरुमध्य में सुख रहता है ॥ २७ ॥

इविसप्तविंशतिनक्षत्राणा शांतिविधिः समाप्तः ॥

**समाप्तोऽयं वन्धः**

पुस्तक मिलनेका टिकाना-

खेमराज श्रीकृष्णदास,